

भारत पर अमरीकी फंदा

लेखक
एल. नटराजन

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, बम्बई ४.

भारत पर अमरीकी फंडा

भारत पर अमरीकी फंडा

एल. नटराजन

प्राक्कथन : डॉ. जे. सी. कुमारप्पा



अनुवादक ओमप्रकाश संगल

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, बम्बई ४.

पहला हिन्दी संस्करण जुलाई १९५३

[सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित]

प्रकाशक का नोट

अंग्रेजी में इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही भारत के राजनीतिक क्षेत्र में तहलका मच गया। सभी ने एक स्वर से इसकी सराहना की। इसी बात को ध्यान में रखकर हम इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं। अनुवाद स्वतंत्र है और हिन्दी संस्करण के आकार को थोड़ा छोटा बनाने के लिये कहीं-कहीं हमने इसे संक्षिप्त भी बना दिया है। लेकिन मूल पुस्तक की सभी बातें इसमें शामिल हैं। समालोचना के लिये इस पुस्तक का कोई भी अंश उद्धृत किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर इसके किसी अंश या अध्याय को हिन्दी या दूसरी भाषाओं में प्रकाशित करने के लिये प्रकाशक की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। — जुलाई १९५३



मूल्य तीन रुपया

न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, १९० वी खेतवाड़ी मेन रोड, बम्बई ४ में जयन्त भट्ट द्वारा मुद्रित और उन्हीं के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लि०, १९० वी खेतवाड़ी मेन रोड, बम्बई ४ की तरफ से प्रकाशित।

विषय सूची

| | |
|-----------------------------------|---|
| प्राक्कथन ; डॉ. जे. सी. कुमारप्पा | १ |
| भूमिका | ४ |

१. दूसरे महायुद्ध के पहले

| | |
|---|----|
| भारत-अमरीका सम्बंध .. | ७ |
| भारत और अमरीका के बीच व्यापार | ७ |
| भारत में लगी हुई अमरीकी पूजी . | १२ |
| भारत में अमरीकी पादरी . | १३ |
| भारत की स्वतंत्रता के प्रति अमरीका का रुख | १७ |
| अमरीका में हिन्दुस्तानी | २२ |
| अमरीका और रवीन्द्रनाथ टैगोर | २५ |

२. दूसरे महायुद्ध के दौर में

| | |
|---------------------------------------|----|
| भारत-अमरीका सम्बंध | २७ |
| अमरीकी कर्ज और व्यापार | २७ |
| भारत में अमरीका की आर्थिक कार्रवाइयों | ३२ |
| भारत-अमरीका के व्यापारिक सौदे . | ३३ |
| भारतीय मामले में अमरीकी हस्तक्षेप .. | ३६ |

३. दूसरे महायुद्ध के बाद के काल में

| | |
|------------------------------------|----|
| भारत-अमरीका का व्यापार | ४३ |
| भारत-अमरीकी व्यापार का स्वरूप .. . | ४६ |
| भारत-अमरीकी व्यापार का परिणाम ... | ५२ |

पहला हिन्दी संस्करण जुलाई १९५३

[सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित]

प्रकाशक का नोट

अंग्रेजी में इस पुस्तक के प्रकाशित होने ही भारत के राजनीतिक क्षेत्र में तहलका मच गया। सभी ने एक स्वर से इसकी सराहना की। इसी बात को ध्यान में रखकर हम इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं। अनुवाद स्वतंत्र है और हिन्दी संस्करण के आकार को थोड़ा छोटा बनाने के लिये कहीं-कहीं हमने इसे सक्षिप्त भी बना दिया है। लेकिन मूल पुस्तक की सभी बातें इसमें शामिल हैं। समालोचना के लिये इस पुस्तक का कोई भी अंश उद्धृत किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर इसके किसी अंश या अध्याय को हिन्दी या दूसरी भाषाओं में प्रकाशित करने के लिये प्रकाशक की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। — जुलाई १९५३



मूल्य तीन रुपया

न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, १९० वी खेतवाड़ी मेन रोड, बम्बई ४ में जयन्त भट्ट द्वारा मुद्रित और उन्हीं के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लि०, १९० वी खेतवाड़ी मेन रोड, बम्बई ४ की तरफ से प्रकाशित।

विषय सूची

| | |
|---|----|
| प्राक्थन : डॉ. जे. सी. कुमारप्पा | १ |
| भूमिका | ४ |
| | |
| १. दूसरे महायुद्ध के पहले | |
| भारत-अमरीका सम्बंध | ७ |
| भारत और अमरीका के बीच व्यापार | ७ |
| भारत में लगी हुई अमरीकी पूँजी | १२ |
| भारत में अमरीकी पादरी | १३ |
| भारत की स्वतंत्रता के प्रति अमरीका का दृष्ट | १७ |
| अमरीका में हिन्दुस्तानी ... | २२ |
| अमरीका और रवीन्द्रनाथ टैगोर | २५ |
| | |
| २. दूसरे महायुद्ध के दौर में | |
| भारत-अमरीका सम्बंध | २७ |
| अमरीकी कर्ज और व्यापार ... | २७ |
| भारत में अमरीका की आर्थिक कार्रवाइयों | ३२ |
| भारत-अमरीका के व्यापारिक सौदे | ३३ |
| भारतीय मामले में अमरीकी हस्तक्षेप | ३६ |
| | |
| ३. दूसरे महायुद्ध के बाद के काल में | |
| भारत-अमरीका का व्यापार | ४३ |
| भारत-अमरीकी व्यापार का स्वरूप | ४६ |
| भारत-अमरीकी व्यापार का परिणाम | ५२ |

| | |
|---|-----|
| ४. अमरीकी पूंजी की भारत से मांग .. | ५४ |
| विदेशी पूंजी का भारत सरकार द्वारा स्वागत . | ५७ |
| अमरीका का चार-सूत्री कार्यक्रम ... | ६३ |
| भारत का आत्मसमर्पण | ६९ |
| भारतीय उद्योगों पर कुठाराघात ... | ७५ |
| भारत की योजनाएँ अमरीका की सलाहों पर बनने लगी | ७६ |
| | |
| ५. भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी | ७९ |
| १९४५ व १९४९ के बीच अमरीकी पूंजी | |
| किन क्षेत्रों में आयी :. | ८३ |
| १९५० के बाद आनेवाली अमरीकी पूंजी... | ८७ |
| भारत में अमरीकी पूंजी की हाल की प्रवृत्तियाँ .. | ९३ |
| | |
| ६. भारत को अमरीकी मदद | ९६ |
| विश्व बैंक के कर्जें . | ९७ |
| टुमन कार्यक्रम के चौथे सूत्र के मातहत | |
| मिलने वाली मदद . | १०० |
| सकट-कालीन अन्न सहायता | १०१ |
| पारस्परिक सहायता कानून के मातहत | |
| मिलने वाली मदद | १०७ |
| | |
| ७. भारत की अर्थ व्यवस्था से अमरीका को लाभ | ११५ |
| | |
| ८. अमरीका की वैदेशिक नीति और भारत | १२३ |
| प. नेहरू की अमरीकी यात्रा . .. | १२७ |
| १९५०-५१ में भारत और अमरीका के मतभेद | १३३ |
| पुनर्मिलन | १३९ |

| | |
|---|-----|
| ९. अमरीका के प्रति भारत की नीति | १४५ |
| भारत की वैदेशिक नीति के निदान्त | १४६ |
| आर्थिक और नैतिक स्थिति | १४८ |
| सुदूर पूर्व के सम्बन्ध में अमरीका से मतभेद . | १५२ |
| भारत का जनमत | १५७ |
| भारतीय वैदेशिक नीति की हाल की प्रवृत्तियाँ | १६० |
| १०. पाकिस्तान की वैदेशिक नीति पर एक नोट | १६३ |
| ११. दक्षिण अफ्रीका, कश्मीर और हैदराबाद . | १६८ |
| दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी | १६८ |
| कश्मीर | १६९ |
| हैदराबाद | १७८ |
| १२. अमरीका की 'हिमालय सम्बंधी' नीति ... | १७९ |
| अफगानिस्तान | १७९ |
| मिक्वियाग | १८२ |
| नेपाल | १८४ |
| तिब्बत | १८८ |
| १३. भारत में अमरीकी जासूस | १९७ |
| भारत में अमरीकी जासूसों का जाल | २०१ |
| युद्ध के दिनों के कारनामे | २०३ |
| युद्धोत्तर-कालीन कारवाइयों राजदूतों के कारनामे | २०५ |
| अमरीकी पत्रकार भी जासूसी करते हैं . | २०६ |
| विश्वविद्यालय, खोज सस्थाएँ, आदि . | २०७ |
| दूसरी सस्थाएँ और अमरीकी यात्री | २१४ |
| अमरीकी जासूसों को मिलनेवाला भारतीय सहयोग | २१५ |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| १४. भारत में अमरीकी प्रचार | ... | ... | २१८ |
| सूचना कार्य की आढ में | . | .. | २२० |
| मनोवैज्ञानिक युद्ध | ... | .. | २२३ |
| अमरीकी प्रचार में हमारी सरकार की मदद | | ... | २२५ |
| १५. भारत में अमरीकी पादरी | . | .. | २२७ |
| ईसाई पादरी | .. | . | २२७ |
| ' नये ढंग ' के ' पादरी ' | .. | . | २३० |
| १६. भारत में अमरीकी संस्कृति | . | | २३७ |
| फिल्में और किताबें | | | २३७ |
| भारत पर अमरीकी विचारों का प्रभाव | | | २३९ |
| १७. अमरीकी सरकार के भारतीय मित्र | | | २४६ |
| १८. उपसंहार | .. | .. | २५३ |
| परिशिष्ट | | | |
| भारत और पाकिस्तान में काम करनेवाली कुछ | | | |
| ऐसी कम्पनियों जो अमरीकी नियंत्रण में हैं | | | २५७ |



प्राक्कथन

पिछली शताब्दियों में, प्रत्येक देश को अपनी परम्पराओं, रहन-सहन के अपने विशेष टग, अपनी संस्कृति, और अपनी विशेष विचारधारा के अनुसार अपना जीवन ढालने की स्वतंत्रता थी। समय-समय पर पड़ोस के सरदार इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते थे और अपने समृद्धिशाली पड़ोसियों को लूटने के लिये उतर आते थे। उनके अनुयायी देश में ही रह जाते थे, और कभी कभी तो नये राजवंश भी कायम कर देते थे।

औद्योगिक क्रान्ति के बाद इन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की जगह निर्वलों के संगठित शोषण ने ले ली। यह शोषण सीधे-सादे लोगों के समूहों को, देशों को या पूरे राष्ट्रों को पराधीन रख कर किया जाता है। इसके लिये जो तरीके अपनाये जाते हैं, वे विभिन्न ढंग के हैं और उनके नाम भी अलग-अलग हैं, परन्तु उन सबका असर एक सा ही होता है। उनका वास्तविक उद्देश्य बड़े पैमाने के मशीनोंवाले उद्योगों के वास्ते कच्चा माल और मजदूर प्राप्त करना है। व्यक्तिगत दासता, अर्द्ध-गुलाम अथवा कम्मी प्रथा, या सामन्तवाद की तुलना में यह एक उन्नत अवस्था है।

ब्रिटेन भारत में अपने साथ सामन्ती पृष्ठभूमि लेकर आया था। इसलिये, अपने उपनिवेशों के साथ उसके जो सम्बंध स्थापित हुए, उनके साथ एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था कायम हुई जिसे राजनीतिक साम्राज्यवाद कहना चाहिये। इसका अन्तिम उद्देश्य तो शोषण ही था, परन्तु साथ में पराधीन राष्ट्रों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी समझी जाती थी। इस प्रणाली में शासक देश पर यह जिम्मेदारी रहती थी कि वह सुराज्य स्थापित करे।

कुछ समय बाद अमरीकी इस मैदान में उतरे। वे अपने साथ दासता या गुलामी की परम्परा लाये थे। इसलिये, “अविकसित” देशों पर नियंत्रण रखने का उनका ढंग अंग्रेजों के ढंग से भिन्न था। अमरीकावाले आर्थिक रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें प्रजा की सुख सुविधा का लगभग कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

इसके अतिरिक्त, आजकल ससार के राष्ट्रों को दो विचारधाराओं के झण्डे के नीचे एकत्रित करने की चेष्टा की जा रही है। एक ओर प्राइवेट या निजी उद्योग की विचारधारा है, दूसरी ओर है, सामाजिक न्याय की विचारधारा। लोगों से अपने विचार मनवाने के इस सघर्ष में दुनिया दो प्रतिद्वन्दी दलों में बँटती जा रही है। अमरीका निजी उद्योग का समर्थन करता है, जिसका आधार निजी सम्पत्ति है और जिससे निजी मुनाफ़ा उत्पन्न होता है। सोवियत रूस सामाजिक न्याय का समर्थन करता है जिसका आधार मनुष्य की दुनियादी समानता और उससे उत्पन्न होनेवाली यह आवश्यकता है कि जीवन में सभी को समान अवसर हासिल होना चाहिये।

इन दो कैम्पों के कारण ससार दो दलों में विभाजित हुआ जा रहा है। रूस अपना काम एक मिशनरी की तरह करता है। जिस बात में वह विश्वास करता है, उस पर अमल करता है और अपने सिद्धान्तों को कार्यक्षेत्र में उतार कर दिखाता है, और इस प्रकार पड़ोसियों को अपनी मिसाल से समझाकर अपने अनुयायियों की तादाद बढ़ा रहा है।

किन्तु, अमरीका दूसरे देशों को अपने चंगुल में फँसाने के लिये हर तरह के हथकण्डों का प्रयोग कर रहा है, जिनमें धोखा, कपट, बल-प्रयोग, जोर-जबर्दस्ती और आर्थिक प्रपंच—सब कुछ शामिल हैं। उसके उपाय ऐसे होते हैं जिनसे देश स्वाधीन नहीं होते, बल्कि मकड़ी के जाले में फँसते जाते हैं। जाल इस होशियारी से बुना जाता है कि शिकार देश को यह पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और वह देश जितना ही छटपटाता है, उसका अन्त उतना ही नजदीक आता जाता है।

दुर्भाग्य से, लोग आजकल प्रायः इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि रुककर अपने चारों ओर की घटनाओं पर कुछ क्षण विचार करने की भी उन्हें फुरसत नहीं रहती। जिन्दगी की छीना-झपटी और भाग-दौड़ उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती कि वे बैठकर परिस्थिति का मूल्यांकन करें। और जिन्दगी के इस दबाव का इस्तेमाल, जिन्दगी को ख़तम करने के लिये किया जाता है।

अमरीका को दुनिया भर में अपना आर्थिक जाल फैलाते हुए डेढ़ सौ वर्ष से अधिक हो गये हैं। परन्तु भारत में अभी तक वह अधिक सफल नहीं हो

सका था। कारण कि अग्रेज अपने स्थिर म्वावों की रक्षा करने के लिये और ईर्ष्या की वजह से भारत को अमरीकी फन्टे से बचाये हुए थे। पर हाल में, यह बचानेवाली बाड़ निर गयी है और भारत का बेरहमी में शोपण करने का रास्ता खुल गया है। यह बड़े दुःख की बात है कि यह चीज नेहद जैसे देशभक्त नेता के नेतृत्व में हो रही है। अमरीकियों के छल छद्म—जो अपनी कामयाबी के लिये आधुनिक मनोविज्ञान का भी प्रयोग करते हैं—उन सीधे, सरल, सहज-विश्वासी राजनीतिज्ञ के लिये बड़े कठिन सिद्ध हो रहे हैं।

अतः यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि साधारण आदमी को उन तमाम कोशिशों की पूरी जानकारी करायी जाय जो उसे फेंमाने के लिये हो रही हैं। इसलिये, भारत के लिये यह एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी तमाम जानकारी, बिना अधिक वाद-विवाद में उलझे, एक छोटी सी किताब में जमा कर दी गयी है। यह पुस्तक क्या है मानो ऐसी जानकारी का भण्डार है। लेखक ने इस बहुमूल्य सामग्री को जमा करके और बड़े सरल ढंग से उसे पाठकों के सामने पेश करके हम सबको अपना ऋणी बना लिया है। लेखक ने बताया है कि पिछले सौ बरस से भी ज्यादा अरसे के दौरान में भारत को अपने आर्थिक जाल में फँसाने के लिये अमरीका ने कौन कौन से हथकण्डे चलाये हैं। यह किताब इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और वह हमें एक बड़े खतरे से आगाह करता है। यदि हमने इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो फिर लाजिमी तौर पर और शीघ्र ही हम पर भी मुसीबत का वह पहाड़ टूट सकता है जो कोरिया पर टूटा है। मेरी यह जोरदार मनोकामना है कि समय रहते ही हमारी आँखें खुल जायें और हम सजग और सतर्क हो जायें।

मगनवाही,

वर्धा, मध्य प्रदेश

३१ अक्टूबर, १९५२

जे. सी. कुमारप्पा

भूमिका

“दक्षिणी एशिया आज एशिया का राजनीतिक दृष्टि से सबसे दृढ़ भाग है। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जिनका दृष्टिकोण पश्चिम की ओर झुका हुआ है, जो आम तौर पर पश्चिम से सहयोग करते हैं, जो कम्युनिज्म की अन्दरूनी समस्याओं से परिचित हैं, और जो आक्रमण से अपनी रक्षा करने का दृढ़ निश्चय रखते हैं।

“इस भाग में ४५ करोड़ लोग रहते हैं जो दुनिया की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा और आजाद दुनिया की आबादी का तिहाई हिस्सा होते हैं।

“अगर कभी ये लोग हमसे अलग होकर कम्युनिज्म के साथ चले गये, यदि ये लोग भी उन ८० करोड़ लोगों के साथ मिल हो गये जो आज कम्युनिज्म के नियंत्रण में हैं, तो दुनिया की ज्यादातर आबादी कम्युनिज्म के नीचे चली जायगी।

“इस इलाके के अलग-अलग देशों को लिया जाय, तो जाहिर है कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों की दृष्टि से, इनमें सबसे बड़ा भारत है। भारत में ३५ करोड़ लोग रहते हैं। यह आजाद दुनिया के सब से बड़े देशों में से है। दोनों ही दृष्टि से—आबादी और खनिज पदार्थों तथा दूसरे भौतिक साधनों की दृष्टि से—भारत का पश्चिमी ससारा के लिये अत्यधिक महत्व है।”

—जॉर्ज सी मधी, सहायक विदेश-मंत्री, अमरीकी प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग समिति के सामने बोलते हुए, २४ जुलाई, १९५१।

“एशिया की कुजी अब भारत में है। यदि भारत हमारे हाथ से जाता रहा, तो सारा एशिया जाता रहेगा। फिर छोटे देशों में बचने की सामर्थ्य न रहेगी।

“तब अमरीका अकेला पट जायगा और उमर्रा कोई मददगार न रहेगा। और तब शायद लडाइं जीतने का भी नमय हाथ में निकाल जायगा।”

—जर्मिग विलियम ओ टगलन का ‘टुक’ पत्रिका में लेख,
१४ अगस्त, १९५१।

उपरोक्त दो उद्धरणों से पक्कर पाठकों की मनस में था जायगा कि अमरीकी सरकार की नजरों में भारत का आजकल कितना भारी महत्व है। अमरीकियों की दृष्टि में अब भारत अंग्रेजों की वपौती सम्पत्ति नहीं रह गयी है जिसे कोई टू नहीं सकता। न अब वह उनके लिये केवल एक गौण महत्व का क्षेत्र है। भारत एशिया में, अमरीका की एशियाई नीति का केन्द्र-बिन्दु बन गया है।

हम भारतीयों के लिये भी अमरीका केवल एक विदेशी मुल्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसका हमारे भविष्य पर भारी प्रभाव पड़नेवाला है। अमरीका को हम अपने लिये चाहे न्यायमत्त समझें या खतरा, किन्तु उस शक्तिशाली देश और उसकी सरकार के साथ हमारे देश के सम्बंधों का बुनियादी महत्व है। स्वभावतः, अमरीका के प्रति हमारी क्या नीति हो, यह एक ऐसा सवाल बन गया है, जिस पर आज भारत में सबसे अधिक और गरम बहस चल रही है।

परन्तु यह बहस या तो प्रायः एकाध तात्कालिक प्रश्नों को लेकर होती है, या समाजवाद और पूँजीवाद की आम बहस उसका आधार बन जाती है। विरोधी पक्षों में से, किसी की तरफ से भी अभी तक समस्या का सर्वांगीण अध्ययन हमारे सामने नहीं आया है। यह कमी अकारण नहीं है। एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में अमरीका ने अभी हाल ही में भारतीय चेतना में प्रवेश किया है, गोकि इसकी प्रतिक्रिया बड़ी सरल हुई है। घटना-चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि ऐसी कोई पुस्तक लिखना असम्भव है, जो चन्द्र महीने के अन्दर ही पुरानी न पड़ जाय।

इन सब कठिनाइयों को जानते हुए भी, यदि मैंने यह पुस्तक लिखने का साहम किया है तो केवल इसलिये कि इस प्रश्न का हमारे जीवन के लिये और हमारी अगली पीढ़ी के जीवन के लिये भारी महत्व है।

| | |
|--|-----|
| ४. अमरीकी पूंजी की भारत से मांग . | ५४ |
| विदेशी पूजी का भारत सरकार द्वारा स्वागत . | ५७ |
| अमरीका का चार-सूत्री कार्यक्रम .. . | ६३ |
| भारत का आत्मसमर्पण | ६९ |
| भारतीय उद्योगों पर कुठाराघात ... | ७५ |
| भारत की योजनाएँ अमरीका की सलाहों पर बनने लगीं | ७६ |
| | |
| ५. भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी | ७९ |
| १९४५ व १९४९ के बीच अमरीकी पूंजी | |
| किन क्षेत्रों में आयी .: | ८३ |
| १९५० के बाद आनेवाली अमरीकी पूंजी... | ८७ |
| भारत में अमरीकी पूंजी की हाल की प्रवृत्तियाँ . | ९३ |
| | |
| ६. भारत को अमरीकी मदद | ९६ |
| विश्व बैंक के कर्जें | ९७ |
| द्रुमन कार्यक्रम के चौथे सूत्र के मातहत | |
| मिलने वाली मदद | १०० |
| सकट-कालीन अन्न सहायता . | १०१ |
| पारस्परिक सहायता कानून के मातहत | |
| मिलने वाली मदद | १०७ |
| | |
| ७. भारत की अर्थ व्यवस्था से अमरीका को लाभ | ११५ |
| | |
| ८. अमरीका की वैदेशिक नीति और भारत | १२३ |
| प. नेहरू की अमरीकी यात्रा . . . | १२७ |
| १९५०-५१ में भारत और अमरीका के मतभेद | १३३ |
| पुनर्मिलन | १३९ |

| | |
|---|-----|
| ९. अमरीका के प्रति भारत की नीति | १४५ |
| भारत की वैदेशिक नीति के सिद्धान्त | १४६ |
| आर्थिक और सैनिक स्थिति | १४८ |
| सुदूर पूर्व के सम्बन्ध में अमरीका से मतभेद | १५२ |
| भारत का जनमत | १५७ |
| भारतीय वैदेशिक नीति की हाल की प्रवृत्तियाँ | १६० |
| | |
| १०. पाकिस्तान की वैदेशिक नीति पर एक नोट | १६३ |
| | |
| ११. दक्षिण अफ्रीका, कश्मीर और हैदराबाद | १६८ |
| दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी | १६८ |
| कश्मीर | १६९ |
| हैदराबाद | १७८ |
| | |
| १२. अमरीका की 'हिमालय सम्बंधी' नीति | १७९ |
| अफगानिस्तान | १७९ |
| सिंक्रियाग | १८२ |
| नेपाल | १८४ |
| तिब्बत | १८८ |
| | |
| १३. भारत में अमरीकी जासूस | १९७ |
| भारत में अमरीकी जासूसों का जाल | २०१ |
| युद्ध के दिनों के कारणों | २०३ |
| युद्धोत्तर-कालीन कार्रवाइयों राजदूतों के कारणों | २०५ |
| अमरीकी पत्रकार भी जासूसी करते हैं | २०६ |
| विश्वविद्यालय, खोज सस्थाएँ, आदि | २०७ |
| दूसरी सस्थाएँ और अमरीकी यात्री | २१४ |
| अमरीकी जासूसों को मिलनेवाला भारतीय सहयोग | २१५ |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| १४. भारत में अमरीकी प्रचार | ... | ... | २१८ |
| सूचना कार्य की भाँड में | .. | . | २२० |
| मनोवैज्ञानिक युद्ध | . | ... | २२३ |
| अमरीकी प्रचार में हमारी सरकार की मदद | . | .. | २२५ |
| १५. भारत में अमरीकी पादरी | .. | ... | २२७ |
| ईसाई पादरी | .. | .. | २२७ |
| ' नये ढंग ' के ' पादरी ' | . | . | २३० |
| १६. भारत में अमरीकी संस्कृति | . | . | २३७ |
| फिल्में और किताबें | . | . | २३७ |
| भारत पर अमरीकी विचारों का प्रभाव | | | २३९ |
| १७. अमरीकी सरकार के भारतीय मित्र | | | २४६ |
| १८. उपसंहार | .. | ... | २५३ |
| परिशिष्ट | | | |
| भारत और पाकिस्तान में काम करनेवाली कुछ | | | |
| ऐसी कम्पनियाँ जो अमरीकी नियंत्रण में हैं | | | २५७ |



प्राक्कथन

पिछली शताब्दियों में, प्रत्येक देश को अपनी परम्पराओं, रहन-सहन के अपने विशेष टग, अपनी सस्कृति, और अपनी विशेष विचारधारा के अनुसार अपना जीवन ढालने की स्वतंत्रता थी। समय-समय पर पड़ोस के सरदार इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते थे और अपने समृद्धिशाली पड़ोसियों को लूटने के लिये उतर आते थे। उनके अनुयायी देश में ही रह जाते थे, और कभी कभी तो नये राजवंश भी कायम कर देते थे।

औद्योगिक क्रान्ति के बाद इन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की जगह निर्वर्लों के संगठित शोषण ने ले ली। यह शोषण सीधे-सादे लोगों के समूहों को, देशों को या पूरे राष्ट्रों को पराधीन रख कर किया जाता है। इसके लिये जो तरीके अपनाये जाते हैं, वे विभिन्न ढंग के हैं और उनके नाम भी अलग-अलग हैं, परन्तु उन सबका असर एक सा ही होता है। उनका वास्तविक उद्देश्य बड़े पैमाने के मशीनोंवाले उद्योगों के वास्ते कच्चा माल और मजदूर प्राप्त करना है। व्यक्तिगत दासता, अर्द्ध-गुलाम अथवा कम्मी प्रथा, या सामन्तवाद की तुलना में यह एक उन्नत अवस्था है।

ब्रिटेन भारत में अपने साथ सामन्ती पृष्ठभूमि लेकर आया था। इसलिये, अपने उपनिवेशों के साथ उसके जो सम्बंध स्थापित हुए, उनके साथ एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था कायम हुई जिसे राजनीतिक साम्राज्यवाद कहना चाहिये। इसका अन्तिम उद्देश्य तो शोषण ही था, परन्तु साथ में पराधीन राष्ट्रों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी समझी जाती थी। इस प्रणाली में शासक देश पर यह जिम्मेदारी रहती थी कि वह सुराज्य स्थापित करे।

कुछ समय बाद अमरीकी इस मैदान में उतरे। वे अपने साथ दासता या गुलामी की परम्परा लाये थे। इसलिये, “अविकसित” देशों पर नियंत्रण रखने का उनका ढंग अंग्रेजों के ढंग से भिन्न था। अमरीकावाले आर्थिक रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें प्रजा की सुख-सुविधा का लगभग कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

इसके अतिरिक्त, आजकल ससार के राष्ट्रों को दो विचारधाराओं के झण्डे के नीचे एकत्रित करने की चेष्टा की जा रही है। एक ओर प्राउवेट या निजी उद्योग की विचारधारा है, दूसरी ओर है, सामाजिक न्याय की विचारधारा। लोगों से अपने विचार मनवाने के इस संघर्ष में दुनिया दो प्रतिद्वन्दी दलों में बँटती जा रही है। अमरीका निजी उद्योग का समर्थन करता है, जिसका आधार निजी सम्पत्ति है और जिससे निजी मुनाफा उत्पन्न होता है। सोवियत रूस सामाजिक न्याय का समर्थन करता है जिसका आधार मनुष्य की बुनियादी समानता और उससे उत्पन्न होनेवाली यह आवश्यकता है कि जीवन में सभी को समान अवसर हासिल होना चाहिये।

इन दो कैम्पों के कारण ससार दो दलों में विभाजित हुआ जा रहा है। रूस अपना काम एक मिशनरी की तरह करता है। जिम बात में वह विश्वास करता है, उस पर अमल करता है और अपने सिद्धान्तों को कार्यक्षेत्र में उतार कर दिखाता है, और इस प्रकार पड़ोसियों को अपनी मिसाल से समझाकर अपने अनुयाइयों की तादाद बढ़ा रहा है।

किन्तु, अमरीका दूसरे देशों को अपने चंगुल में फँसाने के लिये हर तरह के हथकण्डों का प्रयोग कर रहा है, जिनमें धोखा, कपट, बल-प्रयोग, जोर-जबर्दस्ती और आर्थिक प्रपंच—सब कुछ शामिल हैं। उसके उपाय ऐसे होते हैं जिनसे देश स्वाधीन नहीं होते, बल्कि मक्की के जाले में फँसते जाते हैं। जाल इस होशियारी से बुना जाता है कि शिकार देश को यह पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और वह देश जितना ही छटपटाता है, उसका अन्त उतना ही नज़दीक आता जाता है।

दुर्भाग्य से, लोग आजकल प्रायः इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि रुककर अपने चारों ओर की घटनाओं पर कुछ क्षण विचार करने की भी उन्हें फुरसत नहीं रहती। जिन्दगी की छीना-झपटी और भाग-दौड़ उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती कि वे बैठकर परिस्थिति का मूल्यांकन करें। और जिन्दगी के इस दबाव का इस्तेमाल, जिन्दगी को खतम करने के लिये किया जाता है।

अमरीका को दुनिया भर में अपना आर्थिक जाल फैलाते हुए षेढ़ सौ वर्ष से अधिक हो गये हैं। परन्तु भारत में अभी तक वह अधिक सफल नहीं हो

सका था । कारण कि अग्रेज अपने स्थिर स्वार्थों की रक्षा करने के लिये और ईर्ष्या की वजह से भारत को अमरीकी फन्टे से वचाये हुए थे । पर हाल में, यह वचानेवाली वाइ गिर गयी है और भारत का बेरहमी से शोषण करने का रास्ता खुल गया है । यह बड़े दुख की बात है कि यह चीज नेहरू जैसे देशभक्त नेता के नेतृत्व में हो रही है । अमरीकियों के छल छद्म—जो अपनी कामयाबी के लिये आधुनिक मनोविज्ञान का भी प्रयोग करते हैं—इस सीधे, सरल, सहज-विश्वासी राजनीतिज्ञ के लिये बड़े कठिन सिद्ध हो रहे हैं ।

अतः यह और भी जरूरी हो जाता है कि साधारण आदमी को उन तमाम कोशिशों की पूरी जानकारी करायी जाय जो उसे फँसाने के लिये हो रही हैं । इसलिये, भारत के लिये यह एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी तमाम जानकारी, बिना अधिक वाद-विवाद में उलझे, एक छोटी सी किताब में जमा कर दी गयी है । यह पुस्तक क्या है मानो ऐसी जानकारी का भण्डार है । लेखक ने इस बहुमूल्य सामग्री को जमा करके और बड़े सरल ढंग से उसे पाठकों के सामने पेश करके हम सबको अपना ऋणी बना लिया है । लेखक ने बताया है कि पिछले सौ बरस से भी ज्यादा अरसे के दौरान में भारत को अपने आर्थिक जाल में फँसाने के लिये अमरीका ने कौन कौन से हथकण्डे चलाये हैं । यह किताब इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और वह हमें एक बड़े खतरे से आगाह करता है । यदि हमने इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो फिर लाजिमी तौर पर और शीघ्र ही हम पर भी मुसीबत का वह पहाड़ टूट सकता है जो कोरिया पर टूटा है । मेरी यह जोरदार मनोकामना है कि समय रहते ही हमारी आँखें खुल जायें और हम सजग और सतर्क हो जायें ।

मगनवाडी,

वर्धा, मध्य प्रदेश

३१ अक्टूबर, १९५२

जे. सी. कुमारप्पा

भूमिका

“ दक्षिणी एशिया आज एशिया का राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जिनका दृष्टिकोण पश्चिम की ओर झुका हुआ है, जो आम तौर पर पश्चिम से सहयोग करते हैं, जो कम्युनिज्म की अन्दरूनी समस्याओं से परिचित हैं, और जो आक्रमण से अपनी रक्षा करने का दृढ़ निश्चय रखते हैं।

“ इस भाग में ४५ करोड़ लोग रहते हैं जो दुनिया की कुल आबादी का पाचवा हिस्सा और आजाद दुनिया की आबादी का तिहाई हिस्सा होते हैं। ..

“ अगर कमी ये लोग हमसे अलग होकर कम्युनिज्म के साथ चले गये, यदि ये लोग भी उन ८० करोड़ लोगों के साथ मिल द्यो गये जो आज कम्युनिज्म के नियंत्रण में हैं, तो दुनिया की ज्यादातर आबादी कम्युनिज्म के नीचे चली जायगी।

“ इस इलाके के अलग-अलग देशों को लिया जाय, तो जाहिर है कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों की दृष्टि से, इनमें सबसे बड़ा भारत है। भारत में ३५ करोड़ लोग रहते हैं। यह आजाद दुनिया के सब से बड़े देशों में से है। दोनों ही दृष्टि से—आबादी और खनिज पदार्थों तथा दूसरे भौतिक साधनों की दृष्टि से—भारत का पश्चिमी ससारा के लिये अत्यधिक महत्त्व है।”

—जोर्ज सी मघी, सहायक विदेश-मन्त्री, अमरीकी प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग समिति के सामने बोलते हुए, २४ जुलाई, १९५१।

“ एशिया की कुर्जी अब भारत में है। यदि भारत हमारे हाथ से जाता रहा, तो सारा एशिया जाता रहेगा। फिर छोटे देशों में बचने की सामर्थ्य न रहेगी। ..

“ तब अमरीका अकेला पड जायगा और उसका कोई मददगार न रहेगा । और तब शायद लडाई जीतने का भी समय हाथ से निकाल जायगा । ”

—जस्टिस विलियम ओ डगलस का ‘लुक’ पत्रिका में लेख,
१० अगस्त, १९५१ ।

उपरोक्त दो उद्धरणों को पढ़कर पाठकों की समझ में आ जायगा कि अमरीकी सरकार की नजरों में भारत का आजकल कितना भारी महत्व है । अमरीकियों की दृष्टि में अब भारत अप्रैजों की वपौती सम्पत्ति नहीं रह गयी है जिसे कोई छु नहीं सकता । न अब वह उनके लिये केवल एक गौण महत्व का क्षेत्र है । भारत एशिया में, अमरीका की एशियाई नीति का केन्द्र-बिन्दु बन गया है ।

हम भारतीयों के लिये भी अमरीका केवल एक विदेशी मुल्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसका हमारे भविष्य पर भारी प्रभाव पड़नेवाला है । अमरीका को हम अपने लिये चाहे न्यायत समझें या खतरा, किन्तु उस शक्तिशाली देश और उसकी सरकार के साथ हमारे देश के सम्बन्धों का दुनियावी महत्व है । स्वभावतः, अमरीका के प्रति हमारी क्या नीति हो, यह एक ऐसा सवाल बन गया है, जिस पर आज भारत में सबसे अधिक और गरम बहस चल रही है ।

परन्तु यह बहस या तो प्रायः एकाध तात्कालिक प्रश्नों को लेकर होती है, या समाजवाद और पूँजीवाद की भ्रामक बहस उसका आधार बन जाती है । विरोधी पक्षों में से, किसी की तरफ से भी अभी तक समस्या का सर्वांगीण अध्ययन हमारे सामने नहीं आया है । यह कमी अकारण नहीं है । एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में अमरीका ने अभी हाल ही में भारतीय चेतना में प्रवेश किया है, गौकि इसकी प्रतिक्रिया बढ़ी सख्त हुई है । घटना-चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि ऐसी कोई पुस्तक लिखना असम्भव है, जो चन्द महीने के अन्दर ही पुरानी न पड़ जाय ।

इन सब कठिनाइयों को जानते हुए भी, यदि मैंने यह पुस्तक लिखने का साहस किया है तो केवल इसलिये कि इस प्रश्न का हमारे जीवन के लिये और हमारी अगली पीढी के जीवन के लिये भारी महत्व है ।

पहले दो अध्यायों में इतिहास के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं, जिनकी जानकारी होना मौजूदा बहस के लिये जरूरी है। उनके बाद दूसरे महायुद्ध के बाद के दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बंधों का विस्तृत विश्लेषण आता है। यद्यपि इस पुस्तक का सम्बन्ध चास तौर पर भारत से है, परन्तु कुछ चर्चा पाकिस्तान की भी की गयी है।

ऐसे आरोपों से, जिन्हें विपक्षी बिना किसी सबूत के एक-दूसरे पर लगाया करते हैं, मैंने अपने को अलग रखने की कोशिश की है। मेरी कोशिश यह रही है कि केवल तथ्यों पर विचार करें और सोचें कि हमारे राष्ट्रीय हितों के लिये उनसे क्या अवश्यम्भावी परिणाम निकलते हैं। तथ्य एकत्र करने में काफी समय और मेहनत लगी है। यदि दूसरे अनेक मित्रों का सहयोग और सहायता मुझे न मिलती तो मैं यह काम कभी पूरा न कर पाता। विशेष रूप से, मैं एक अमरीकी मित्र का बड़ा कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ अखबारों की कतरने, सरकारी प्रकाशन, और दूसरी बहुत सी बहुमूल्य सामग्री मेजी, बल्कि मेरे अनगिनत सवाल्यों के जवाबों का पता लगाने में अपना बहुत सा समय खर्च किया। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि यह मित्र अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और इसके लिये तैयार नहीं हैं कि सह-लेखक के रूप में उनका नाम भी किताब पर प्रकाशित हो। इस देश के कई मित्रों ने परामर्श और अपनी राय देकर मेरी बड़ी मदद की है, जिसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और अन्त में, अमरीकी सूचना विभाग को भी उस सहयोग के लिये धन्यवाद देना आवश्यक है जो उसने अनजाने में मुझे दिया है।

एल. नटराजन

दिल्ली,

१५ जून, १९५२

दूसरे महायुद्ध के पहले भारत-अमरीका सम्बंध

भारत और अमरीका के बीच व्यापार

अमरीका ने सबसे पहले १७८५ में भारत से सीधे व्यापार करना शुरू किया। उस साल ग्रैण्ड टर्क नामक एक अमरीकी जहाज कलकत्ते के सफर को भेजा गया। अमरीका अभी हाल में ही आजाद हुआ था। उसके व्यापारियों ने पूर्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कम्पनियों के झगड़ों से फायदा उठाया और दोनों से सुविधाएँ ऐंठी। अमरीका की फेडरल (सघ) सरकार ने इस व्यापार को बढ़ाने के लिये कदम उठाने शुरू किये। १७९१ के चुंगी के कानून (टैरिफ ऐक्ट) के द्वारा इस प्रकार के कर लगाये गये जिनसे अमरीकी जहाजों में आनेवाले आयात को बढ़ावा मिलता था। भारत से व्यापार करने के लिये उदारतापूर्वक कर्ज दिये गये। १७९४ में अमरीका की ब्रिटेन से एक संधि हुई जिसे जे-संधि के नाम से पुकारा जाता है। उसके मुताबिक अमरीका को भारत में व्यापार की विशेष सुविधाएँ मिल गयीं। १८०० में अकेले कलकत्ता से वारह जहाज माल भर कर बोस्टन के लिये रवाना हुए। इसी साल भारत से अमरीका-जानेवाले सामान की कीमत तीस लाख डालर थीकी गयी।

इंस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों ने बहुत सी दौलत गैर-कानूनी ढंग से जमा कर ली थी और उसे वे सीधे इंग्लैण्ड न ले जा सकते थे। अमरीकियों ने इस दौलत को ढो-ढो कर काफ़ी पैसा कमाया। जे-संधि के मुताबिक अमरीकावाले केवल भारत और अमरीका के बीच व्यापार कर सकते थे। परन्तु नेपोलियन के युद्धों के काल में अमरीकी व्यापारियों ने इस संधि को ताक पर उठाकर रख दिया और वे भारत का सामान योरप पहुँचाने लगे। इससे उनका व्यापार खूब बढ़ा। भारतीय कपड़े और मसाले के आयात ने अमरीका को,

“अनेक प्रकार के कारखाने खोलने में मदद की, जैसे रेशम कातने के कारखाने, मोरक्को चमड़ा तैयार करने के कारखाने और ‘उन

बड़ी सम्पत्तियों की नींव डाली जिनसे न्यू इंग्लैण्ड के अनेक पुराने परिवारों की दौलत की शुरुआत हुई थी।” (एमेरी आर० जॉन्सन की पुस्तक “अमरीका का देशी और विदेशी व्यापार” से उद्धृत)

इस व्यापार की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उस जमाने के वोस्टन में भारत से व्यापार करनेवालों की शान ही निराली थी। रई का व्यापार करनेवाले करोड़पति भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बहुत से वन्दरगाह वाले शहरों में ‘इंडिया रो’ नाम से शानदार मकानों की पात ही अलग हुआ करती थी। उस पॉत में यदि किसी का घर हो, या वोस्टन की इंडिया व्हार्फ में दफ्तर हो तो बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी।

परन्तु नेपोलियन के युद्धों के बाद भारतीय व्यापार का अमरीका के लिये महत्व जाता रहा। शुरू में उससे फ़ायदा हुआ था क्योंकि उससे अमरीका में उद्योग-धंधे शुरू करने के लिये कुछ पूंजी जमा हो गयी थी। परन्तु बाद में उससे नुकसान ही होता था। अंग्रेजों की बात दूसरी थी। उन्हें भारत को और भी तरह-तरह से लूटने की छूट मिली हुई थी। मगर अमरीकावालों को तो केवल व्यापार से ही सतोष करना पड़ता था। गोकि उससे व्यक्तिगत रूप से अमरीकी व्यापारियों को बहुत लाभ भी होता था, परन्तु अमरीका के पास कोई ऐसी चीज़ न थी जिसे वह भारत भेज सकता। इसलिये भारत से आये हुए माल के बदले में उसे खजाना भेजना पड़ता था। इससे उस देश का नुकसान हो रहा था। इसलिए, न्यू इंग्लैण्ड (अमरीका के एक इलाके का नाम) के नये कपड़ा-उद्योग की मदद करने के लिये १८१६ में भारतीय कपड़े पर चुगी लगा दी गयी। यदि अमरीका से अब भी लकड़ी और बर्क का निर्यात न होता रहता और अमरीकी व्यापारी भारतीय अफीम को चोरी से चीन ले जाने का व्यापार न करते रहते, तो १८१६ के बाद भारत में व्यापारिक दृष्टि से अमरीका की कोई दिलचस्पी न रह जाती।

पर अफीम का व्यापार भी कुछ दिन बाद वन्द हो गया। १८६१-६५ में अमरीका में गृहयुद्ध छिड़ गया। इन दोनों कारणों से भारत-अमरीका का व्यापार नहीं के बराबर रह गया। साथ ही, अमरीकी उद्योग-धंधों के लिये एक नया युग आरम्भ हो गया। पिछली शताब्दी के अन्तिम पचाम वर्षों में अमरीका में उद्योग-धंधों की जितनी उन्नति हुई उतनी और

किसी देश में नहीं हुई। बहुत जल्द अमरीका ताल ठोक कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मैदान में कूद पडा, और उसके मुक्तावले में औरों का ठहरना मुदिकल मालूम पडने लगा। उसे अपने उद्योग-धर्मों के लिये बेशुमार कच्चा माल चाहिये था, तैयार माल बेचने के लिये उसे बाजारों की जहरत थी और पूजी लगाने के लिये दूसरे देशों में सुविधाओं की आवश्यकता थी। उसने दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों की मिसाल पर चलने की कोशिश की और फिलीपाइन्स आदि देशों में साम्राज्यवादी कार्रवाइयाँ शुरु कर दी। २७ अप्रैल, १८९८ को सेनेटर एलवर्ट जे. बेवरिज ने शान बघारते हुए यह कहा

“ अमरीका के कारखाने अब इतना माल पैदा कर रहे हैं कि अमरीकी जनता उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती। अमरीका की धरती इतनी उपज पैदा कर रही है कि यहाँ के लोग उसे खर्च नहीं कर सकते। विधाता ने स्वयं हमारी नीति निर्धारित कर दी है। दुनिया का व्यापार हमारे हाथ में होना चाहिये और वह हमारा होकर रहेगा। और हम उसी ढंग से उस पर अधिकार करेंगे जो ढंग हमारी माँ, इंग्लैण्ड हमें बता चुका है। हम दुनिया भर में अपनी कोठियाँ खोलेंगे ताकि वहाँ अमरीकी माल का वितरण हो सके। हम समुद्र की छाती पर अपने जहाजों का जाल बिछा देंगे। हम अपनी शान के मुताबिक एक विशाल जहाजी बेड़ा बनायेंगे।”

(‘ हमारे जमाने के इतिहास ’ में क्विन्सी हो द्वारा उद्धृत)

लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अग्रेज उद्योगपतियों ने अमरीका को भारत के बाजार में घुसने नहीं दिया। भारत की अग्रेजी सरकार ने इस काम में उनकी मदद की। १९०० में भारत के आयात का केवल १०७ प्रतिशत भाग अमरीका से आया। अमरीकी अफसरों ने यह शिकायत की

“ अमरीका बराबर ब्रिटिश हिन्दुस्तान से आनेवाले आयात को बढाता जा रहा है, लेकिन उसके निर्यात में कोई बढती नजर नहीं आती और उसका मूल्य भारत से आनेवाले आयात के मूल्य से बहुत कम होता है।” (“ विदेशी व्यापार का मासिक विवरण, ” वाशिंगटन, दिसम्बर १९०२)

बीसवीं सदी के शुरु में व्यापार के मामले में, अंग्रेजों और अमरीकियों की प्रतिद्वंद्विता बहुत बढ़ गयी। भारत की भूमि भी इस संघर्ष से अछूती न रही। नाम को भारत में हर देश का माल आने की आजादी थी, पर असल में अंग्रेज व्यापारियों को अनेक विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं। एक यह नियम था कि सरकारी जहरत का तारा सामान या तो भारत में, या इंग्लैण्ड में खरीदा जायगा। इससे अमरीकी व्यापारियों को मुश्किल होती थी। फिर भी १९०० और १९११ के बीच भारत के आयात में अमरीका का हिस्सा १७ में बढ़ कर ३८ प्रतिशत हो ही गया।

अमरीका को पहली महत्वपूर्ण सफलता देशी राज्यों में मिली। मैसूर और बड़ौदा की सरकारें विशेष रूप से अमरीकियों की मित्र थीं। मैसूर में कावेरी प्रपात के बिजली पैदा करने के केन्द्र में अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी की मशीनें अमरीकी इंजीनियरों द्वारा लगायी गयीं। सी एफ. वीम्स नामक एक अमरीकी, राज्य का चीफ इंजीनियर नियुक्त कर दिया गया। १९०७ में आर सी व्हाइटनेक नामक एक अमरीकी, बड़ौदा सरकार के आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। एक और अमरीकी को राज्य का शिक्षा सम्बंधी सलाहकार बना दिया गया। अमरीका में शिक्षा प्राप्त करके लौटे कई हिन्दुस्तानियों को भी बड़ौदा सरकार में ऊँचे ओहदों पर तैनात किया गया। महाराजा बड़ौदा ने स्वयं अमरीका का खूब दौरा किया और उनके युवराज जैसिह राव ने १९११ में अमरीका के हरवर्ड कालिज से बी ए पास किया। सैम्युअल हिगिनबौटेम नामक एक अमरीकी पादरी ग्वालियर, रतलाम, कोटा, झालावाड़, वार और जाओड़ा की रियासतों का खेती-सम्बन्धी सलाहकार बन गया और उसकी कोशिशों के फलस्वरूप अमरीका की बनी हुई खेती की बहुत सी मशीनें हिन्दुस्तान आयीं।

प्रथम महायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान के बाजार में अमरीका ने इन चीजों की चिक्री में खास तरक्की की मिट्टी का तेल और पेट्रोल, सीने की मशीनें, टाइप-राइटर और छापे की मशीनें, और कुछ वातु का सामान। अमरीका से सबसे अधिक माल स्टैण्डर्ड ऑयल कम्पनी भारत लाती थी।

परन्तु ब्रिटिश भारत में अमरीका की इस काल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि टाटा के मशहूर लोहे और इस्पात के कारखाने,—टाटा आयरन

एण्ड स्टील वर्क्स—की स्थापना में उसका बड़ा हाथ रहा। टाटा ने अमरीकी मशीनें खरीदने और अमरीकी विशेषज्ञों को मगाने पर छ करोड़ डालर खर्च किये और १९३७ तक उसके उद्योग का संचालन अमरीकी इंजीनियरों के हाथों में रहा।

पहले महायुद्ध में ब्रिटेन से माल आना कम हो गया। अब अमरीका के पौवारह थे। उसने दोनों हाथों से भारत के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। १९०९-१४ में भारत के आयात व्यापार में अमरीका का हिस्सा ३ प्रतिशत था। १९१४-१९ में वह बढ़कर ७ प्रतिशत हो गया। भारत के निर्यात में अमरीका का हिस्सा इसी दौरान में ८ से बढ़कर १२ प्रतिशत हो गया। भारत से व्यापार करनेवाले देशों में अब दूसरा नम्बर अमरीका का था। अमरीका की अनेक व्यापारिक कम्पनियों ने भारतीय शहरों में अपने दफ्तर खोल दिये और बहुत सी अग्रेजों द्वारा संचालित कम्पनियों भी अमरीकी कारखानेदारों की एजेन्ट बन गयीं। अमरीकी व्यापारी भारत में दौरा करने के लिये आने लगे। भारत में विज्ञापन करने पर बड़ी-बड़ी रकमें खर्च हुईं। भारत और अमरीका के बीच वाकायदा जहाज चलने लगे।

अग्रेजों के लिये अमरीका का मुकाबला इतना सख्त हो गया कि युद्ध के कुछ दिन बाद ही एक अमरीकी पत्रिका ने इस आशय चेतावनी दी

“ जॉन बुल को सावधान हो जाना चाहिये। यदि उसे अग्रेजी माल के सबसे बड़े और सबसे अधिक मुनाफा देनेवाले बाजार को बचाना है, तो जान बुल को जाग जाना चाहिये, क्योंकि भारत में अमरीकी व्यापार ने जो तरक्की की है, उससे सचमुच अग्रेजों के कान खड़े हो जाने चाहिये।” (“ लिटरेरी डाइजेस्ट”, १८ दिसम्बर १९२०, पृष्ठ २३)

भारत में ब्रिटेन के ट्रेड कमिश्नर ने कहा कि “ इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अब हिन्दुस्तान में हमें हमेशा ही अमरीका का मुकाबला करना पड़ेगा।”

इसके बाद अग्रेजों ने खूब जोर के साथ जवाबी हमला शुरू किया। इम्पीरियल प्रीफरेंस एग्रीमेण्ट (ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने मालपर कम

चुंगी लगाने का समझौता—अनु०) जैसे तरीकों के जरिये कुछ हद तक ब्रिटेन अमरीकी हमले को रोकने में सफल भी हो गया। दो महायुद्धों के बीच के काल में, दुनिया की बदलती हुई आर्थिक परिस्थिति के साथ-साथ अमरीका का भारत के साथ व्यापार भी घटता-बढ़ता रहा, परन्तु भारत के पूरे विदेशी व्यापार की तुलना में उसकी मात्रा एक सी रही। और मोटरों, टाइप-राइटरों और दूसरी छोटी मशीनों की बिक्री में अमरीका ने खास तरक्की की। हालीवुड के फिल्मों ने भारतीय सिनेमा पर से पाथे-फ्रेरेज कम्पनी के कायम एकाधिकार को नष्ट कर दिया।

भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी

दूसरे महायुद्ध के पहले कुछ अमरीकी पूंजी भी भारत में आयी।

इण्टरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन ने (जिसे बाद में नेशनल सिटी बैंक आफ न्यू यॉर्क ने खरीद लिया) १९०३ में बम्बई में और १९०४ में कलकत्ता में अपनी एक शाखा खोली। अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी ने भी भारत में दो शाखाएँ स्थापित कर ली।

जूट (चटकल) उद्योग में इन अमरीकी कम्पनियों का हाथ था। अमेरिकन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लुडलौ जूट कम्पनी, एंगस कम्पनी, क्लीवलैण्ड-ऐक्रोन बैग कम्पनी (बाद में यह चेन्नै बैग कम्पनी के हाथ बिक गयी) और रीगल सैक कम्पनी।

क्रिडर, पीबडी एण्ड कम्पनी को चपड़े में दिलचस्पी थी। मेलौन ने भारत में अल्यूमीनियम के कारखानों को खरीद लिया।

फायरस्टोन रबर कम्पनी ने बम्बई में एक बड़ा टायर बनाने का कारखाना खोला। रेमिंगटन रैण्ड कम्पनी ने कलकत्ता में टाइप-राइटर बनाने का एक कारखाना खोला। १९३६ में अमरीका की नेशनल कार्बन कम्पनी ने ब्रिटेन की एवरेडी बैटरी कम्पनी को खरीद लिया। एवरेडी के कारखाने में सूखी बैटरियाँ बनायी जाती थीं। कनाडा फोर्ड मोटर कम्पनी की एक शाखा १९२६ में यहा खोली गयी जिसका प्रधान दफ्तर और कारखाना बम्बई में था। १९२८ में जनरल मोटर कम्पनी ने बम्बई में मोटरकारों और ट्रकों के हिस्सों को जोड़ने का काम शुरू किया। १९३९ में उसने इसी ढंग का एक नया कारखाना खोला जिसका नाम था कमर्शियल वौही ब्रिलिंडग कार्पोरेशन।

इसके अलावा कई अमरीकी कम्पनियों ने आयात-निर्यात तथा विक्री की एजेंसियों का काम करना भारत में शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड-वैकुअम ऑयल कम्पनी और काल्टेक्स कम्पनी पेट्रोल वितरण करने लगी।

यद्यपि सीधे ढग से भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी, ब्रिटिश पूंजी से काफी कम थी, परन्तु वास्तव में, भारत में अमरीकी पूंजी इससे कहीं अधिक थी। इसका सही अन्दाज पाने के लिये ब्रिटेन और कनाडा की कम्पनियों के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दुस्तान में आयी अमरीकी पूंजी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

उदाहरण के लिये, अमरीका के धन-कुवेर जे पी मौर्गन की कम्पनी को लीजिये। इस कम्पनी के मातहत एक ब्रिटिश कम्पनी थी जिसका नाम 'मौर्गन, ग्रेनफेल एण्ड कम्पनी' था। इस कम्पनी के कुछ हिस्सेदार—सर टामस (वाद में लार्ड) केटो और तीन अन्य व्यक्ति—'यूल, केटो एण्ड कम्पनी' में भाग ले रहे थे, जो कलकत्ता में एण्ड्र्यू यूल एण्ड कम्पनी के नाम से काम करती थी। यह हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मैनेजिंग एजेंसी थी। इसके नियंत्रण में अनेक कम्पनियाँ थीं जो तरह-तरह का व्यापार कर रही थीं—जैसे जूट, चाय, जहाजों से माल ढोना, कोयला खाने, आटा, तेल, मकान बनाना, रबड़, चीनी, कागज, छापखाने, बिजली पैदा करना और बीमा। भारत में मौर्गन का प्रतिनिधि केटो था। वह मर्केन्टाइल बैंक ऑफ इण्डिया का भी उपाध्यक्ष और डायरेक्टर था। इस अग्रेजी बैंक की शाखाएँ सिर्फ़ सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि चीन, पूर्वी उच्च द्वीप-समूह, स्याम और मौरिशस में भी फैली हुई थीं।

भारत में अमरीकी पादरी

साहसी अमरीकी व्यापारियों के पीछे-पीछे हिम्मतवाले ईसाई पादरी भी हिन्दुस्तान आये। बल्कि सच तो यह है कि अमरीका ने जब सबसे पहले अपने पादरियों को विदेशों में भेजने का निश्चय किया, तब इन पादरियों ने भारत को अपने क्षेत्र के रूप में चुना और १८१२ में वे कलकत्ता पहुँच भी गये। वहाँ से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जब उन्हें निकाल दिया तो वे बम्बई पहुँच गये। वहाँ उन्होंने १८१५ में अमरीकी मराठी मिशन खोला। १८३३ में ब्रिटेन की सरकार ने हुक्म निकाला कि

ईस्ट इण्डिया कम्पनी से इजाजत लिये विना भी पादरी लोग भारत में बस सकते हैं। इसके बाद अमरीकी पादरियों ने यहाँ अपना काम बढ़ाना शुरू किया। १८५७ के विद्रोह के समय तक वे बम्बई, उत्तर प्रदेश (यू पी), मद्रास और आसाम में अपने केन्द्र खोल चुके थे।

उस समय अमरीकी पादरी प्रायः धार्मिक स्कूल खोला करते थे और ईसाई धर्म के साहित्य को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया करते थे। बहुत कम लोग उनके उपदेश सुनकर ईसाई बनना स्वीकार करते थे। जो थोड़े बहुत बन जाते थे, वे मिशन में ही नौकरी कर लेते थे। पादरियों का अधिकतर समय चौराहों पर खड़े होकर या गिरजा घरों में उपदेश देने में बीतता था।

पर, लगभग १८८० से ईसाई बननेवालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम २५ बरसों में हमारे देश में जो बार बार अकाल पड़े, उनसे पादरियों का काम आसान हो गया। वे अकाल-पीड़ितों की सहायता करते। जनता उनका अहसान मानकर ईसाई बन जाती। अब प्रत्येक मिशन की सफलता इस बात से नापी जाने लगी कि किसने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया है। पादरियों को रुपये-पैसे की कमी न रही। यह बात भी मतलब से खाली नहीं है कि ठीक इन्हीं दिनों अमरीका के उगते हुए एकाधिकारी (इंजोरदार) पूजापतियों ने विदेशों में काम करनेवाले मिशनों के कामों में दिलचस्पी लेना और उन्हें धन की सहायता देना शुरू किया। माइरन एच फेल्ट्स नामक एक अमरीकी ने, जो बरसों तक भारत का तथा हिन्दू धर्म का अध्ययन कर चुका था, १९१० में लिखा था

“यह धन अधिकतर (पादरियों को) इसलिये दिया जाता है कि व्यापार में उससे फायदा होने की उम्मीद रहती है। आप में से बहुतों ने जौन डी रौकफेलर का नाम ज़हर सुना होगा। वह स्टैण्डर्ड ऑयल कम्पनी का मालिक और दुनिया का सबसे धनी आदमी है और विदेशी मिशनों को बड़ी-बड़ी रकम दान में देता है। कुछ वर्ष हुए मैंने न्यू यॉर्क के एक दैनिक पत्र में रौकफेलर के सेक्रेटरी मि गेट्स से एक भेंट का वृत्तान्त पढ़ा था। उसमें गेट्स ने बताया था कि रौकफेलर साहब विदेशी मिशनों को जो रुपया दान में देते हैं,

उससे उनके व्यापार में बड़ा लाभ होता है, क्योंकि जिन देशों की जनता के बीच ये मिशन काम करते हैं, उनके साथ व्यापारिक लेन-देन बढ़ जाता है।” (“ हिन्दू आदर्श व उनकी सुरक्षा ” से, पृष्ठ १५-१६)

उन्नीसवीं सदी का अन्त होते-होते अमरीकी पादरियों ने शिक्षा और डाक्टरी के क्षेत्र में अपनी कार्यवाहियों काफ़ी बढ़ा ली। उन्होंने अनेकों कालिज और अस्पताल खोले। उन्होंने नीचे लिखे कालिज खोले वैलोर का वृहज कालिज, मदुरा का अमेरिकन कालिज, गुण्टूर का आंध्र क्रिश्चियन कालिज, इलाहाबाद का ईर्विंग क्रिश्चियन कालिज, लखनऊ में लखनऊ क्रिश्चियन कालिज और इसाबेला योवर्न कालिज, लाहौर का फ़ोरमैन क्रिश्चियन कालिज और रावलपिण्डी का गौर्डन कालिज। मद्रास के वीमेन्स क्रिश्चियन कालिज और क्रिस्टोफर्स ट्रेनिंग कालिज अग्रेज और अमरीकी पादरियों के संयुक्त प्रयत्नों से खुले थे। बम्बई के विल्सन कालिज तथा मद्रास क्रिश्चियन कालिज को अमरीका से सहायता मिलती थी।

पादरियों के काम का क्षेत्र बढ़ा तो उनकी तादाद भी बढ़ गयी। १८८५ में भारत में अमरीकी पादरियों की संख्या १३९ थी, बीसवीं सदी के प्रथम दशक के शुरु के सालों तक वह १,५०० तक पहुँच गयी। अब धर्मोपदेशकों के अलावा डाक्टर, नर्स, सम्पादक और शिक्षक भी अमरीका से आने लगे। इन लोगों का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता था। प्रसिद्ध भारत-हितैषी पादरी जे टी सण्डरलैण्ड ने इस बारे में यह लिखा है

“ विदेशों में छोट-छोट कर सबसे ‘ ठोस ’ लोग, यानी सबसे कम प्रगतिशील विचारों के लोग भेजे जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन लोगों को सरकार के विदेशी विभाग में नौकरियाँ न मिल सकीं, उन्हें पादरियों के पद पर भर्ती होने में कोई कठिनाई न हुई। ” (“ न्यू वर्ल्ड ” नामक पत्रिका के मार्च १८९८ के अंक में छपे “ भारत में ईसाई मिशन ” शीर्षक लेख से, पृष्ठ ४२)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के उभार से सभी पादरियों को, विशेष कर अमरीकावालों को, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमरीकी पादरी अभी तक हमेशा अंग्रेजी सरकार के घनिष्ठ सहयोग से काम करते आये थे। वे अंग्रेजों की नीति के गुण गाया करते थे और अपने अन्यायों को

हिन्दुस्तानियों, भारतीय वर्गों और भारतीय परम्पराओं को नीची दृष्टि से देखना सिखाते थे। किसी हद तक उन्होंने अपने हिन्दुस्तानी अनुयाइयों की भारतीयता भी नष्ट कर दी थी। १८५७ के विद्रोह के बाद एक अमरीकी पादरी ने गुमान के साथ यह कहा था

“ एक भी देशी (यानी हिन्दुस्तानी) ईसाई, विद्रोह में शामिल नहीं हुआ...कई जगह तो इन देशी ईसाइयों ने उचित समय पर खबर देकर (विद्रोह के वारे में) पड्यंत्रों को रोकने में मदद दी। ” (रे वि बटलर की पुस्तक “ दी लैण्ड आफ दि वेदाज ” से, पृष्ठ ४६४)

एक दूसरे अमरीकी सज्जन ने इस शताब्दी के शुरू में लिखा था

“ आजकल ब्रिटिश सरकार पादरियों की, विशेषकर अमरीकी पादरियों की मदद के लिये कुछ उठा नहीं रखती। धन, जमीन, हर चीज जो सरकारी तौर पर मिशनों को दी जा सकती है, उन्हें दी जाती है। ”

“ लार्ड कर्जन, विभिन्न प्रान्तों के गवर्नर, और दूसरे सरकारी अफसर इस बात के गवाह हैं कि जनता में असतोष बढ़ने और विद्रोह फैलने के जब-जब अवसर आये, तब-तब उन्होंने (अमरीकी पादरियों ने) शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में और सरकार की मदद के लिये भारी काम किया। ” (विलियम एलरौय कर्टिस की पुस्तक “ मौडर्न इंडिया ” से, पृष्ठ ४६१-६४)

अतः स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय चेतना के बढ़ने के साथ-साथ भारत के लोग पादरियों की कार्रवाइयों को नापसन्द करने लगे। भारतीयों को अंग्रेज नौकरशाहों और अमरीकी पादरियों में कोई अन्तर नहीं जान पड़ता था। देश की ईसाई जनता पर भी राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव पड़ना लाजिमी था। उसके बीच से माग उठने लगी कि गिरजा घरों पर से विदेशी नियंत्रण खतम होना चाहिये।

कुछ वर्षों के बाद अमरीकी मिशनों ने अपनी नीति बदल दी। अब वे ईसाई धर्म को ‘ स्वदेशी ’ रूप देने की कोशिश करने लगे। भारतीय ईसाइयों को कुछ जिम्मेदारी के पद दिये गये। अंग्रेज सरकार से तो मित्रता कायम रही, पर अब कुछ राष्ट्रवादी नेताओं से भी मेल-जोल बढ़ाया गया। परन्तु जाहिर है, राष्ट्रीय विद्रोह के समय दो नावों पर पैर रखना संभव न था।

१९३० या १९४२ में जिन चन्द अमरीकी पादरियों ने भारतीय मार्गों का समर्थन किया, उन्हें तुरन्त अमरीका वापिस बुला लिया गया।

राष्ट्रीय आन्दोलन से उत्पन्न विरोध के बावजूद अमरीकी मिशनों का काम बराबर बढ़ता ही गया। १९३८ में भारत के अन्दर अमरीका और कनाडा के मिशनों में २,००६ विदेशी कर्मचारी काम करते थे। और उस वर्ष तक वे ७,६८,४३८ हिन्दुस्तानियों का वर्ग परिवर्तन कर चुके थे। अमरीका से उनके केन्द्रीय कार्यालयों ने एक वर्ष के अन्दर तीस लाख डालर उनकी सहायता के लिये भेजे थे और स्वयं भारत में उन्हें दस लाख डालर से अधिक की आमदनी हुई थी। भारत में विदेशी मिशनों का कुल जितना काम था, उसका एक-तिहाई से अधिक १७ अमरीकी सस्थाएँ करती थीं। उनके नियंत्रण में ४,३५७ स्कूल चलते थे जिनमें १५२,६९० विद्यार्थी पढ़ते थे। वे १८ अनायालय, ९३ अस्पताल, और २०० से अधिक दवाखाने चलाते थे।

भारत की स्वतंत्रता के प्रति अमरीका का रुख

अभी हाल तक, सरकारी तौर पर भारत का अमरीका से कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था। परन्तु भारत में एक राजनीतिक सवाल ऐसा था जिसकी ओर से दुनिया का कोई देश आँखें नहीं मूंद सकता था। वह था भारत की स्वतंत्रता का सवाल। भारत के लोग विदेशी सरकारों और सस्थाओं को इसी कसौटी पर परखते थे कि उनका भारत की आजादी की मांग के बारे में क्या कहना है। हम यह देखें कि अमरीका का इस मामले में क्या रुख था ?

कुछ दिनों से अमरीका के सरकारी प्रतिनिधि यह दावा करने के आदी हो गये हैं कि उनका देश भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का सदा समर्थक और शुभचिन्तक रहा है और उसने लगातार भारत की मदद की है। कुछ भारतीय अफसरों ने भी ' इस पुरानी मदद ' के लिये अमरीकी कर्णधारों को, धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिये भारतीय राजदूत बी. रामा राव ने २३ सितम्बर, १९४८ को न्यू यॉर्क में कहा था

“ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय अमरीका ने जो नैतिक सहायता हमें दी थी, उसके लिये भारत उसका जितना कृतज्ञ हो, उतना ही थोड़ा है। ” (हिन्दुस्तान टाइम्स, २४ सितम्बर, १९४८)

भारतीय राजदूत वी. आर. सेन ने १९ दिसम्बर, १९५१ को राष्ट्रपति ट्रुमन के सामने अपना अधिकार-पत्र पेश करते हुए कहा था कि “ भारत ” उस हमदर्दी और मदद को कमी नहीं भूल सकता जो उसे अमरीका की जनता तथा सरकार से “ अपनी आजादी की लड़ाई के समय मिली थी । ” यह बात भी काफी अजीब है कि भारत सरकार की ओर से यह कृतज्ञता उन दो सज्जनों ने जाहिर किया जिन्होंने स्वयं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कमी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई थी । वल्कि सेन साहब ने तो अपने अग्रज मालिकों की तरफ से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने में काफी नाम ही कमाया था ।

यह सच है कि विभिन्न अवसरों पर अनेक अमरीकी सस्थाओं एवं व्यक्तियों ने जोरों से भारत की आजादी की माग का समर्थन किया है । भारतीयों ने सदा उनका अहसान माना है और इस समर्थन से बल प्राप्त किया है । परन्तु इस चीज का जितना जोरदार प्रचार हिन्दुस्तान में हुआ है, उससे लोगों के दिमाग में एक गलत तसवीर बन गयी है । उसमें भारत के मित्र तो बहुत उभर कर सामने आते हैं, परन्तु विरोधियों पर और उन पर जो ‘ तटस्थ ’ रहना चाहते थे, एक पर्दा सा पड़ जाता है ।

इसलिये पहले यह देखना चाहिये कि अमरीका में कौन लोग हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का समर्थन कर रहे थे, और कौन उसके विरोधी थे, उनके हित क्या थे और उनका प्रभाव कितना था ।

इस शताब्दी के प्रथम दशक में कुछ अमरीकी बुद्धिजीवियों ने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का समर्थन किया था । उन्होंने माइरन एच० फेलप्स के नेतृत्व में “ सोसायटी फार दि एडवांसमेण्ट आफ इंडिया ” नामक एक समिति भी बनायी थी जो लन्दन के कांग्रेस दफ्तर से सम्बन्ध रखती थी । असल में, उस समय बहुत से अमरीकी बुद्धिजीवी क्यूबा और फिलीपाइन में अमरीकी सरकार की कार्रवाइयों की निन्दा कर रहे थे । इन्हीं में से कुछ लोग भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में भी दिलचस्पी रखते थे । परन्तु अमरीकी सरकार की नीति बिल्कुल इसकी उल्टी थी । अमरीकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने तो ऐसे शब्दों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया था कि उनका उपयोग करने में शायद अग्रज भी सकोच करते । १८ जनवरी, १९०९ को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक भाषण में कहा था

“योरपीय नस्ल के लोगों द्वारा एक दूसरे महाद्वीप के घने वसे हुए देशों पर सफलतापूर्वक राज करने का सबसे महान उदाहरण हमें हिन्दुस्तान में मिलता है। सचमुच यह तो रोमन साम्राज्य से भी बड़ा कार्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय साम्राज्य का सफलता से शासन चलाकर अग्नेजों ने वह काम किया है जो पिछली दो शताब्दियों की श्वेत जाति की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रशसनीय सफलताओं में गिना जायगा। अधिकतर जनता बहुत सुख में है। सच तो यह है कि यदि अग्नेजी शासन हिन्दुस्तान से हटा लिया जाय तो पूरे देश में खून-खराबी और लूटमार मच जायगी, और वे तमाम लोग जो निर्बल हैं, जो सबसे अधिक मेहनती हैं और कानून को मान कर चलते हैं—वे सब लूट लिये जायेंगे और उन पर तरह-तरह के जुल्म डायेंगे, और देशी लोगों में फायदा सिर्फ उनका होगा जो कानून को नहीं मानते और जो हिंसक और खून के प्यासे हैं। मानवता के प्रत्येक शुभचिन्तक को . . . समझना चाहिये कि भारत में इंग्लैण्ड ने जो कुछ किया है, उससे भारत का अतुलित लाभ हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा बढी है और उसकी सभ्यता फली-फूली है। वहाँ अग्नेजी शासन स्थायी और शक्तिशाली बना रहे—हमें इसीसे गहरा सतोष होना चाहिये। ”

दूसरे महायुद्ध के पहले अमरीकी सरकार के ऊँचे पदाधिकारियों की ओर से सिर्फ एक बार ही हिन्दुस्तान की आजादी के बारे में कुछ कहा गया था। उसे हमने ऊपर दे दिया है। ध्यान रहे कि यह और किसी का नहीं, स्वयं अमरीका के राष्ट्रपति का बयान था।

बात बयानों पर ही खतम न हुई। कुछ दिन बाद भारतीय क्रान्तिकारी हरदयाल को, जिन्होंने अमरीका में शरण ली थी, देश से निकालने की कार्रवाई शुरू हो गयी।

पहले महायुद्ध के काल में, भारतीय स्वतंत्रता के समर्थकों पर अमरीका में सख्त दमन हुआ। गदर पार्टी के जो सदस्य अमरीका में रहते थे, पुलिस उनके पीछे लग गयी। बहुतों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। और अमरीका के युद्ध में शामिल होने के बाद फौरन ही उनके खिलाफ

षडयंत्र के मुकदमे चलाये गये । इन मुकदमों में अग्रेज अधिकारी गुलेआम दखल देते थे । इस स्थिति से क्षुब्ध होकर रावर्ट मौर्स लोवेट (जिन्होंने अपना जीवन नागरिक अधिकारों के संघर्ष में होम कर दिया था) ने “ न्यू रिपब्लिक ” नामक अखबार में १ अप्रैल, १९३१ को यह लिखा

“ इन मुकदमों के सिलसिले में अमरीकी अधिकारियों ने अग्रेजों की जिस तरह खुशामद की है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता । ”

प्रथम महायुद्ध का अन्त होने के बाद भारत की आजादी की माग को पहले से अधिक समर्थन मिलने लगा । १९२० में अमरीका की सोशलिस्ट पार्टी और फार्मर-लेबर (किसान-मजदूर) पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किये । ये दोनों ही उग्रवादी संगठन थे । सोशलिस्ट पार्टी ने उस समय तक समाजवाद को त्याग नहीं था और उसका नेता यूजीन डेबम युद्ध का विरोध करने के कारण जेल में बन्द था । कुछ उदारवादी व्यक्तियों और पादरियों ने भी यही रुख लिया । इनमें रेवरेण्ड सण्डरलैण्ड और रेवरेण्ड जौन हेन्स होम्स प्रमुख थे । ये लोग गांधीवाद से प्रभावित थे । दिसम्बर १९२० में न्यू यौर्क में “ भारत की स्वतंत्रता के प्रेमी ” नामक एक संस्था भी कायम की गयी ।

परन्तु जब भारत की ओर से माग की गयी कि राष्ट्रपति विल्सन की प्रसिद्ध १४ बातें भारत पर भी लागू की जायें, तो विल्सन ने इस गुलाम देश की पुकार की ओर कोई ध्यान न दिया । उल्टे, उनकी सरकार ने हिन्दुस्तानियों पर दमन जारी रखा । शैलेन्द्रनाथ घोष ने भारतीय जनता की ओर से अमरीकी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखने की हिम्मत की थी । उन्हें एक विदेशी सरकार का एजेन्ट बताकर जेल में डाल दिया गया । “ भारत की स्वतंत्रता के प्रेमी ” नामक उपरोक्त संस्था की संगठनकर्ता श्रीमती एग्नेस स्मैडले को भी जेल में बन्द कर दिया गया ।

इन्हीं दिनों, अमरीका के घोर प्रतिक्रियावादियों ने भी भारत में दिलचस्पी लेना शुरू किया । ये लोग अग्रेजों के विरोधी थे और वारसाई की सधि की मुखालफत करते थे । अग्रेजों को बदनाम करने के लिये- उन्होंने आयरलैण्ड और हिन्दुस्तान का सवाल उठाना शुरू किया । परन्तु एक बार विल्सन को हराने और वारसाई की सधि को अमरीका से अस्वीकार कराने

मे उन्हें सफलता मिल गयी, तो फिर उन्होंने हिन्दुस्तान का कभी नाम तक न लिया ।

१९२१ से १९३० तक अमरीका में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के समर्थन में बहुत कम प्रचार हुआ । सन तीस के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय भी कुछ इने-गिने अमरीकियों ने ही भारत के समर्थन में आवाज उठायी । महात्मा गांधी को यह बात मालूम थी । इसीलिये, गोलमेन्ड सम्मेलन के बाद जब कई लोगों ने उन्हें अमरीका आने का निमन्त्रण दिया, तो वह वहा जाने के लिये तैयार नहीं हुए । बाद में गांधीजी ने इसका कारण बताते हुए कहा था

“ मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कि वहाँ जाकर मे भारत के लिये कुछ कर सकूँगा । अमरीका के लोग दूसरों की बात नहीं सुनते । वे दूसरों का आदर-सत्कार तो खूब करते हैं, पर करते अपने मन की है । ” (टी. ए. रमन द्वारा लिखी गयी किताब “ गांधीजी क्या चाहते हैं, ” में पृष्ठ ६५ पर उद्धृत)

भारत का सच्चा समर्थन केवल कुछ पादरियों, उदारवादियों, हब्शी नेताओं और उग्रवादी सगठनों तक ही सीमित था । कभी-कभी कुछ प्रतिगामी और अन्तर्राष्ट्रीयता-विरोधी लोग भी ब्रिटेन को गाली देने के लिये शिकागो ट्रिब्यून और न्यू यॉर्क डेली न्यूज में लेख लिखते समय हिन्दुस्तान की याद कर लिया करते थे । लेकिन, अमरीकी सरकार न हिन्दुस्तान के बारे में कभी कुछ कहती थी और न भारतीय आन्दोलन में कोई दिलचस्पी ही प्रकट करती थी ।

अतः अमरीकी सरकार का भारत के प्रति रुख यदि बहुत अच्छा हुआ तो तटस्थता का रुख रहता था, वरना कभी-कभी सक्रिय विरोध का रुख बन जाता था । आज यदि अमरीकी सरकार, अमरीकी जनता के एक भाग की साम्राज्य-विरोधी भावनाओं का श्रेय स्वयं लेना चाहे, तो यही कहना ही पड़ेगा कि यह एक बेईमानी की बात है । जब कि यह बात भी सर्वों को मालूम है कि अमरीकी जनता के इस भाग की साम्राज्यवाद-विरोधी भावनाएँ, स्वयं उस समय की अमरीकी सरकार के भी खिलाफ थीं और उसके कारण एग्नेस स्मेडले जैसी प्रमुख महिलाओं को जेल तक जाना पड़ा था ।

गांधीजी के मशहूर अनुयायी डाक्टर भारतन कुमारप्पा ने यह ठीक ही कहा था

“ हिन्दुओं (यानी हिन्दुस्तानियों—अनु) के प्रति...अमरीका ने तटस्थता का रुख अपनाया। उसकी समझ है कि भारत ब्रिटेन का निजी मामला है, उसके बारे में चुपचाप दर्शक बन कर रहना ही उचित है। यदि अमरीका ने भारत में कभी कोई दिलचस्पी दिखायी तो यह समझ कर कि वह जादूगरों और साधुओं का ऐसा देश है जहाँ के योगी कदराओं में समाधि लगाये बैठे रहते हैं, नाखून बढ़ा लेते हैं, क्रीलों के बिलौने पर सोते हैं और लोगों के हाथ देखते हैं। ”
(‘ अमरीका में मेरा विद्यार्थी जीवन,’ पृष्ठ ६)

अमरीका में हिन्दुस्तानी

किसी देश की जनता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के पहले उस देश के लोगों के साथ हमदर्दी का बरताव किया जाता है। यहाँ यह देखना चाहिये कि अमरीकी सरकार और अमरीकी जनता हिन्दुस्तानियों के साथ कैसा व्यवहार करती थी ?

इस शताब्दी के पहले दशक में बहुत से हिन्दुस्तानी रोजगार की तलाश में अमरीका चले गये थे। १९०७ और १९१० के बीच उनकी संख्या पाच हजार तक पहुँच गयी थी। इनमें से अधिकतर सिख थे। वे अमरीका के पश्चिमी समुद्र तट पर जाकर बस गये और फार्मों, रेलों, और लकड़ी के कारखानों में काम करने लगे।

यदि कोई आज यह कहे कि इन लोगों का अमरीका में स्वागत हुआ था, तो यही कहना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि मारी गयी है। इन सिखों का अमरीका में हर जगह अपमान हुआ। कालों-गोरों के दंगों में उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा गया। कुछ जगहों में उन्मत्त भीड़ों ने कई सिखों को लगभग कत्ल ही कर दिया। इस तरह की एक घटना ५ सितम्बर १९०७ को वाशिंगटन राज्य के त्रेलिंगम नामक स्थान में हुई थी जिसका वर्णन एक उस समय के समाचार पत्र ने दून् शब्दों में किया था

“ .. लकड़ी के कारखानों के छ सौ मजदूरों की एक भीड़ ने पुरवियों के मुहल्ले पर हमला किया और पूरी तरह से आतंकित करके उन्हें शहर के बाहर सटेड दिया। बहुत से हिन्दुओं (अमरीका में सभी हिन्दुस्तानियों को प्राय हिन्दू कहते हैं — अनु०) को चोटे आर्यी, पर कोई मरा नहीं। शहर के सबसे गरीब इलाके में बने इन लोगों के गन्दे घरों पर हमला किया गया। उनका सारा सामान सड़कों पर फेंक दिया गया और कुछ जगहों पर बहुमूल्य वस्तुएँ चुरा ली गयीं। अधिकारियों ने परिस्थिति को अपने कावू के बाहर समझा और चेतावनी देने से अधिक कुछ न किया। . ” (“ दि वर्ल्ड टुडे ” नामक पत्र के नवम्बर १९०७ के अंक में, वर्टर डौड का लेख)

अमरीका जानेवाले हिन्दुस्तानियों के बारे में जाँच करने के लिये अमरीकी सरकार की ओर से जो कमीशन नियुक्त किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पश्चिमी (प्रशान्त महासागर के) तट पर,

“ हिन्दुओं को सब से कम पसन्द किया जाता है, या कहना चाहिये कि हमारे देश में पूर्वी एशियाई देशों के जितने लोग भी आये हैं, उनमें सबसे खराब हिन्दुओं को समझा जाता है। ” (जून, १९१२)

उन्मत्त भीड़ ने जो काम शुरू किया था, उसे सरकार ने पूरा कर दिया। १९१० के बाद सरकारी अफसरों ने सरकारी कानून को उठाकर ताक पर रख दिया। वे सभी हिन्दुस्तानियों को देश में आने से रोकने लगे। हजारों ऐसे लोग जो अपनी सारी जमीन-जायदाद बेचकर रोजगार की तलाश में अमरीका आये थे, समुद्र तट से ही लौटा दिये गये। सैकड़ों लोग जो पहले आ गये थे, देश से निकाल दिये गये। हजारों हिन्दुस्तानी, अत्याचार के भय से खुद अमरीका छोड़ कर चले गये।

१९१७ में सरकार ने एक कानून बना कर हिन्दुस्तानियों का आना रोक दिया। इसके छ वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने भगत, सिंह ठिण्ड के मुकदमे में फैसला सुनाया कि हिन्दुस्तानी अमरीका के नागरिक नहीं बन सकते। इस फैसले से कई ऐसे हिन्दुस्तानियों से भी नागरिकता का अधिकार छीन लिया गया जो वरसों पहले उसे प्राप्त कर चुके थे। कुछ की अमरीकन पत्नियों तक की अमरीकी नागरिकता जाती रही।

१९२४ में एक और कानून बना जिसके द्वारा अमरीका में प्रवेश करने और वहाँ का नागरिक बनने का अधिकार विशेष रूप से हिन्दुस्तानियों से छीन लिया गया। भारत अपमान की इस कड़वी धूँट को पीकर रह गया। श्री विठ्ठलभाई पटेल ने इसके जवाब में भारत की केन्द्रीय असेम्बली में एक बिल पेश किया। इससे अमरीकी नागरिकों से वे तमाम विशेष अधिकार छीन लिये जाते जो उन्हें फ़ौजदारी के मुकदमों आदि के सिलसिले में भारत में मिले हुए थे। स्वराज्य पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। उधर महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्रोध इन शब्दों में प्रकट किया

“ अमरीका में तो ईसा को भी नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि एक तो उनके पास काफी पैसे न निकलते, दूसरे वह एशियाई थे। ”

लेकिन, १९२४ के कानून से ही इस दुर्व्यवहार का अन्त नहीं हुआ। इस शताब्दी के तीसरे दशक में उटाह राज्य में हिन्दुस्तानियों पर बमबारी की गयी। देश से निकालना भी जारी रहा। १९२० और १९४० के बीच अमरीका में रहनेवाले ६,००० हिन्दुस्तानियों में से लगभग आधे को अपना कारबार, नौकरी और परिवार छोड़कर अमरीका से निकल जाना पड़ा। भारतीय विद्यार्थियों पर तरह-तरह के बंधन लगाये गये। उन्हें केवल उसी विद्यालय में पढ़ना पड़ता था जिसे अमरीकी श्रम-मंत्री उनके लिये तै कर दे। पढ़ाई के साथ-साथ वे कोई काम करके जीविका नहीं कमा सकते थे। और शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें अमरीका छोड़ देना पड़ता था। भारतीय व्यापारियों पर भी अमरीका में अनेक ऐसी बन्दिशें लगा दी गयीं जिनसे दूसरे देशों के व्यापारी मुक्त थे।

इसके अलावा राज्य के कानूनों में भी वहा हिन्दुस्तानियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। अमरीकी जनता के नाम एक अपील में श्रीमती कमलादेवी चटोपाध्याय और डी पी पड्या ने लिखा था

“ हिन्दू अपने नाम से न सम्पत्ति खरीद सकते हैं और न बेच सकते हैं। इसलिए प्रायः वे किसी अमरीकी मित्र के नाम से खरीद या बिक्री करते हैं। कई ऐसा उदाहरण सामने आया है जब कि उन अमरीकी मित्रों ने हिन्दुओं के साथ विश्वासघात करके उनकी सम्पत्ति को ले लिया है। ”

इसी व्यवहार को देखकर पी कोदडा राव ने, जो विदेशों में रहनेवाले भारतीयों के बारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं, अपनी किताब में लिखा है

“ ऐसा मालूम होता है कि अमरीका की नजरों में हिन्दुस्तान को सबसे लुच्छ समझा जाता है। इसका कारण कुछ हदतक यह मालूम होता है कि अमरीका के प्रभावशाली क्षेत्रों में हिन्दुस्तानियों के बारे में अनुचित राय घर बनाये बैठे हैं। उदाहरण के लिये ६ जनवरी १९१९ के कैलीफोर्निया के स्टेट लेबर ब्यूरो की एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया था कि ‘ हिन्दुओं में कोई नैतिकता नहीं होती ’ और वे ऐसे विदेशी हैं जिन्हें ‘ यहाँ कोई नहीं चाहता ’। ” (मई, १९४४)

अमरीका और रवीन्द्रनाथ टैगोर

यहां तक कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी अमरीका ने यही व्यवहार किया। उनकी पहली तीन यात्राओं में जो कुछ हुआ, उससे गुरुदेव के मन को ऐसी ठेस पहुँची कि उन्होंने प्रण कर लिया कि भविष्य में वह कभी अमरीका नहीं जायगे। अपनी पहली यात्रा के बारे में उन्होंने यह लिखा

“ खुफिया एजेंसी के कुछ लोग मेरे पास आये और बोले कि सान फ्रांसिस्को की हिन्दू क्रान्तिकारी पार्टी ने मुझे जान से मार डालने का निश्चय किया है क्योंकि वह मेरे राजनीतिक विचारों को पसन्द नहीं करती। जाहिर था कि इन लोगों को किसी ने पैसे देकर भेजा था। यह गप्प अखबारों में भी छाप दी गयी और जब मैंने इसका खण्डन करना चाहा कि ऐसी बात सम्भव नहीं है, तो अखबारों ने उसे छापने से इनकार कर दिया। यह शायद इसलिये कि थोड़े दिनों में ही वहाँ एशियाइयों के खिलाफ कानून बननेवाला था और इस प्रकार की झूठी खबरों को प्रचारित करने से अमरीका में बसे हुए हिन्दुओं के खिलाफ वातावरण तैयार होता था ।

“ हिन्दुस्तान लौटने के बाद मुझे जापानी समाचार पत्रों के द्वारा खबर मिली कि उपरोक्त पार्टी के खिलाफ (अमरीका में) भारत के ब्रिटिश शासन को उलटने के लिये गुप्त प्रयत्न करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मुकदमे में मेरा नाम भी लिया गया और

१९२४ में एक और कानून बना जिसके द्वारा अमरीका में प्रवेश करने और वहाँ का नागरिक बनने का अधिकार विशेष रूप से हिन्दुस्तानियों से छीन लिया गया। भारत अपमान की इस कड़वी घूँट को पीकर रह गया। श्री विठ्ठलभाई पटेल ने इसके जवाब में भारत की केन्द्रीय असेम्बली में एक बिल पेश किया। इससे अमरीकी नागरिकों से वे तमाम विशेष अधिकार छीन लिये जाते जो उन्हें क़ौजदारी के मुकदमों आदि के सिलसिले में भारत में मिले हुए थे। स्वराज्य पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। उधर महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्रोध इन शब्दों में प्रकट किया

“अमरीका में तो ईसा को भी नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि एक तो उनके पास काफी पैसे न निकलते, दूसरे वह एशियाई थे।”

लेकिन, १९२४ के कानून से ही इस दुर्व्यवहार का अन्त नहीं हुआ। इस शताब्दी के तीसरे दशक में उटाह राज्य में हिन्दुस्तानियों पर बमबारी की गयी। देश से निकालना भी जारी रहा। १९२० और १९४० के बीच अमरीका में रहनेवाले ६,००० हिन्दुस्तानियों में से लगभग आधे को अपना कारवार, नौकरी और परिवार छोड़कर अमरीका से निकल जाना पड़ा। भारतीय विद्यार्थियों पर तरह-तरह के बंधन लगाये गये। उन्हें केवल उसी विद्यालय में पढ़ना पड़ता था जिसे अमरीकी श्रम-मन्त्री उनके लिये तै कर दे। पढाई के साथ-साथ वे कोई काम करके जीविका नहीं कमा सकते थे। और शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें अमरीका छोड़ देना पड़ता था। भारतीय व्यापारियों पर भी अमरीका में अनेक ऐसी बन्दिशें लगा दी गयी जिनसे दूसरे देशों के व्यापारी मुक्त थे।

इसके अलावा राज्य के कानूनों में भी वहाँ हिन्दुस्तानियों के साथ अस्मानता का व्यवहार किया जाता था। अमरीकी जनता के नाम एक अपील में श्रीमती कमलादेवी चटोपाध्याय और डी पी पड्या ने लिखा था

“हिन्दू अपने नाम से न सम्पत्ति खरीद सकते हैं और न बेच सकते हैं। इसलिये प्रायः वे किसी अमरीकी मित्र के नाम से खरीद या विक्री करते हैं। कई ऐसा उदाहरण सामने आया है जब कि उन अमरीकी मित्रों ने हिन्दुओं के साथ विश्वासघात करके उनकी सम्पत्ति को ले लिया है।”

इसी व्यवहार को देवदर भी रोडंडा राव ने, जो विदेशों में रहनेवाले भारतीयों के बारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं, अपनी किताब में लिखा है

“ऐसा मालूम होता है कि अमरीका की नजरों में हिन्दुस्तान को सबसे तुच्छ समझा जाता है। इसका कारण कुछ हद तक यह मालूम होता है कि अमरीका के प्रभावशाली क्षेत्रों में हिन्दुस्तानियों के बारे में अनुचित राय घर बनाये गये हैं। उदाहरण के लिये ६ जनवरी १९१९ के कैलीफोर्निया के स्टेट लिबररियूरो की एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया था कि ‘हिन्दुओं में कोई नैतिकता नहीं होती’ और वे ऐसे विदेशी हैं जिन्हें ‘यहाँ भेजे नहीं चाहता’।’ (मउ, १९४४)

अमरीका और रवीन्द्रनाथ टैगोर

यदा तक कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी अमरीका ने यही व्यवहार किया। उनकी पहली तीन यात्राओं में जो कुछ हुआ, उससे गुरुदेव के मन को ऐसी टप पहुँची कि उन्होंने प्रण कर लिया कि भविष्य में वह कभी अमरीका नहीं जायेंगे। अपनी पहली यात्रा के बारे में उन्होंने यह लिखा

“युफिया एजेंसी के कुछ लोग मेरे पास आये और बोले कि गान फ्रांसिस्को की हिन्दू कान्तिकारी पार्टी ने मुझे जान से मार डालने का निश्चय किया है क्योंकि वह मेरे राजनीतिक विचारों को पसन्द नहीं करती। जाहिर था कि इन लोगों को किसी ने पैसे देकर भेजा था। यह गप्प अखबारों में भी छाप दी गयी और जब मैंने इसका खण्डन करना चाहा कि ऐसी बात सम्भव नहीं है, तो अखबारों ने उसे छापने से इनकार कर दिया। यह शायद इसलिए कि बीस दिनों में ही वहाँ एशियाइयों के खिलाफ कानून बननेवाला था और उस प्रकार की झूठी खबरों को प्रचारित करने से अमरीका में बसे हुए हिन्दुओं के खिलाफ वातावरण तैयार होता था।

“हिन्दुस्तान लौटने के बाद मुझे जापानी समाचार पत्रों के द्वारा खबर मिली कि उपरोक्त पार्टी के खिलाफ (अमरीका में) भारत के ब्रिटिश शासन को उलटने के लिये गुप्त प्रयत्न करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मुकदमे में मेरा नाम भी लिया गया और

कहा गया कि मैंने जर्मनों से रुपया लिया था और बदले में मैं अमरीका में उनका कुछ काम करना चाहता था। इसके साथ, यह आरोप भी लगाया गया कि मैं अपने देश के लिये अमरीका में कुछ गुप्त राजनीतिक साजिश करने गया था। मैंने राष्ट्रपति विल्सन को एक तार भेज कर इस प्रकार के इल्जामों को वापिस लेने का अनुरोध किया। लेकिन मुझे तार का कोई जवाब तक नहीं मिला।.. ” (‘एटलान्टिक मंथली’ नामक पत्र के जून १९२७ के अंक में लेख, पृष्ठ ७३०)

उनकी दूसरी यात्रा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद पर भाषण दिये थे, विशेष सफल नहीं हुई। १९२१ में वह तीसरी बार गये तो उनके साथ बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार हुआ। उन्हीं के शब्दों में सुनिये अमरीकावालों को,

“शक था कि मैं एक राजनीतिक घड़यत्रकारी था जो उनके देशवासियों के सरल स्वभाव से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरे कुछ घनिष्ठ मित्रों ने मुझे बताया कि हिन्दुस्तान छोड़ने से पहले मैंने जलियाँवाला बाग के अत्याचारों के खिलाफ जो वयान दिया था, शायद उसी के फल-स्वरूप मेरे खिलाफ अमरीका में जबरदस्त प्रचार हो रहा था।” (उपरोक्त लेख)

बार-बार निमंत्रण पाने पर गुरुदेव ने १९२२ में फिर अपनी कनाडा यात्रा के बाद अमरीका जाने का प्रयत्न किया। परन्तु सरकारी अफसरों ने उन्हें, रोक कर तरह-तरह से तग किया और उन्हें लौट आना पड़ा। इस सम्भव में उन्होंने अमरीकी सरकार के वर्वर कानूनों की निन्दा करते हुए एक वयान भी अखबारों को दिया था। १९३० में अमरीका को वदनामी से बचाने के लिये हैनरी मौरगंथो के नेतृत्व में एक प्रभावशाली स्वागत समिति का संगठन किया गया। उसके निमंत्रण पर रवीन्द्रनाथ टैगोर अन्तिम बार १९३० में अमरीका गये।

दूसरा अध्याय

दूसरे महायुद्ध के दौर में भारत-अमरीका सम्बंध

दूसरे महायुद्ध के काल में भारत और अमरीका के बीच गीना और घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुआ। युद्ध के कारण ब्रिटेन भारत में सामान्य व्यापारिक सम्बंध नहीं रख पा रहा था। उसी अमरीका को भारत के साथ आर्थिक सम्बंध बढ़ाने का अवसर मिला। अमरीका के लड़ाई में शामिल होने के बाद ब्रिटेन जैसे-जैसे अमरीका पर निर्भर होता गया, जैसे-जैसे भारत पर अमरीका का असर बढ़ता गया। हिन्दुस्तान में एक लान में भी अधिक अमरीकी फौज पहुँच गयी। अमरीकी समाचार समितियों के दस्तर गुल गये। अमरीका के सरकारी समाचार केन्द्र कायम हुए। तरह-तरह के अमरीकी प्रतिनिधि और दूत-मण्डलियाँ भारत आने लगीं। इस सबसे भारत-अमरीका सम्बंधों का एक विलकुल नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय जनता के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों में अब अमरीका का स्थान गौण नहीं रहा।

अमरीकी कर्ज और व्यापार

इस नये अध्याय का परिचायक १९४०-४५ के बीच भारत-अमरीका के बीच व्यापार का बहुत अधिक बढ़ जाना था।

| वर्ष | अमरीका से भारत को निर्यात | भारत से अमरीका को आयात |
|------|---------------------------|------------------------|
| | (हजार डालरों में) | |
| १९४० | ६८,४२८ | १०२,२०४ |
| १९४१ | ९८,१६२ | १३१,५१० |
| १९४२ | ३७७,७९३ | १०५,१३७ |
| १९४३ | ५५३,८६५ | १२५,७८४ |
| १९४४ | ७७७,५५७ | १४४,८९२ |
| १९४५ | ४९१,२५१ | १७३,१५७ |

(फॉरेन कॉमर्स वीकली, वाशिंगटन, १० अक्टूबर १९४६)

परन्तु यह सामान्य ढंग का व्यापार न था। निर्यात में जो वढती हुई वह अधिकतर उस सामान के कारण हुई थी जो अंग्रेज-अमरीकी समझौते की शर्तों के अनुसार १९४० से लड़ाई के कर्जों (लैण्ड-लीज) के रूप में हिन्दुस्तान भेजा जा रहा था। आयात का कुछ भाग भी इसी प्रकार बदले में हिन्दुस्तान द्वारा दिया गया लड़ाई का कर्जा था।

अमरीकी सरकार के ऑफ़रों के अनुसार 'लैण्ड-लीज' के मातहत भारत को भेजे गये सामान की कीमत १ अक्टूबर, १९४५ तक २,१२८,८०३,००० डालर हो गयी थी। बदले में, भारत ने १ जुलाई, १९४५ तक ६३९,४४३,००० डालर का सामान दिया। भारत में आनेवाले सामान का बड़ा भाग गोला-बारूद का था, जिसकी कीमत १,२८८,४९८,००० डालर होती थी। बाकी में, १६१,७२१,००० डालर का पेट्रोल आदि, ४९४,६७३,००० का औद्योगिक सामान, और १८३,९११,००० डालर की खेती की उपज थी।

इस सारे सामान का बहुत छोटा भाग हिन्दुस्तान के इस्तेमाल के लिये था। उन दिनों भारत मित्र राष्ट्रों की दक्षिणी-पूर्वी एशियाई कमान का सामान जमा करने का केन्द्र था। चीन को गोला-बारूद भी यहीं से भेजा जाता था। इसलिये 'लैण्ड-लीज' के मातहत जो सामान भारत आता था, उसमें से अधिकतर दूसरे देशों को चला जाता था। भारत-सरकार हिसाब-किताब इस तरह रखती थी कि पता नहीं लग सकता था कि आये हुए सामान में से कितना बाहर चला गया और कितना देश में इस्तेमाल हुआ। परन्तु, इतना मालूम है कि ज्यादातर गोला-बारूद यहाँ तैनात अंग्रेज सिपाहियों को दिया जाता था। खेती की उपज में भी अंग्रेज सिपाहियों के लिये भोजन का ही सामान होता था। औद्योगिक सामान में वे चीजें होती थीं जिनकी भारत के आवाजाही के साधनों और बन्दरगाहों आदि को सुधारने के लिये जरूरत थी। लड़ाई के सामान को ढोने के लिये उन्हें सुधारना अत्यंत आवश्यक था।

इसके बदले में भारत ने जो सामान दिया, उसकी मात्रा बहुत ही अधिक थी और वह ऐसे समय दिया गया था जब स्वयं भारत को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने वैशुमार रबड़, चाय,

अवरक, मैगनीज और दूसरा कच्चा माल, फौजी सामान, और ऋग्गों गज कपड़ा बदले में दिया। इसके अलावा, भारत ने अमरीकी फौजों और जहाजियों को तरह-तरह से आराम पहुँचाया। इन सब चीजों के दाम बाजार भाव से बहुत कम रग्ये गये और हिसाब भी ठीक तरह से नहीं रग्या गया। अक्सर तो अन्दाज से ही हिमाव की खानापूरी कर ली जाती थी।

इस बदले की 'लैण्ड लीज' में भारत में मुद्रा-प्रसार बहुत बढ़ गया और लड़ाई के जमाने में लोगों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गयी। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि भारत को किस तरह अपना पेट काट कर अमरीकी और ब्रिटिश सरकारों की जरूरतें पूरी करनी पड़ी थीं। बड़ा अजीब सा सौदा था। हिन्दुस्तान चूँकि अग्रेजों के शासन में था, इसलिए उसे अपना बहुमूल्य सामान और मदद अमरीका को देना पड़ती थी, बदले में, अग्रेज सरकार को लड़ाई का सामान मिलता था, जिसके एक भाग को वह भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचलने के लिये इस्तेमाल करती थी। मीथे शब्दों में "लैण्ड-लीज" हिन्दुस्तान को लूटने का साधन बन गया था।

और लूटनेवाले कभी यह तक नहीं सोचते थे कि हिन्दुस्तान की जनता पर क्या वीत रही है। जैसा कि डाक्टर आर्थर उपहम पोप ने न्यू यॉर्क टाइम्स के १३ दिसम्बर, १९४७ के पत्र में लिखा था

“मिसाल के लिये, उससे (भारत से) कहा गया कि अनाज की पैदावार कम करके फौज के लिये जूट की खेती करो। भारत ने आज्ञापालन की, परन्तु डरते-डरते कि अनाज की पैदावार कम करने पर कहीं अकाल न आ जाय। वही हुआ भी—अकाल आया, और बहुत ही भयकर रूप में आया।”

अमरीका की मजदूर सस्था, “कांग्रेस ऑफ़ इण्डस्ट्रियल आर्गनाइजेशनस” (सी आई ओ) ने १९४३ में अमरीका तथा ब्रिटेन की सरकारों को हिन्दुस्तान में अकाल पड़ने की आशका से आगाह किया और सुझाव रखा कि गोला-बारूद ले जानेवाले अमरीकी जहाजों में थोड़ा-थोड़ा करके अनाज भी भारत भेजा जाय। पर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ५ नवम्बर, १९४३ को मजदूर नेता हैरी ब्रिजेस ने सी आई ओ के सम्मेलन में यह कहा

“ हमारी बात नहीं सुनी गयी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी गयी। अमरीकी सरकार की तरफ से एडमिरल लैण्ड ने और ब्रिटेन की ओर से सर आर्थर स्लेटर ने हमसे कहा ‘ देखिए, अब आप लोग गहरे सामाजिक प्रश्नों में जा रहे हैं; आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ’ मतलब सिर्फ यह था कि युद्ध में सहायता पहुँचाने की दृष्टि से ही हमने जो सुझाव रखा था, उसे मानने पर उन्हें भारतीय जनता को बचाने के लिये, चन्द आना फ्री हफ्ता और खर्च करना पड़ जाता। ”

नतीजा यह हुआ कि भारत के पचास लाख निवासी बेमौत मर गये। उस सब को ध्यान में रख कर देखा जाय तो मालूम होगा कि १९४६ में “ लैण्ड-लीज ” का जिस तरह हिसाब किया गया, वह भारत के साथ सरामर अन्याय करना था। जापान के साथ युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी, भारत जो सामान सप्लाई करता रहा था, उसके एवज में उसे अमरीका से साढ़े ४ करोड़ डालर मिलना था। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। भारत में जो “ लैण्ड लीज ” का फौजी सामान अभी पड़ा हुआ था, अमरीका को उसे उठा लेने का अधिकार दे दिया गया। अमरीका या अमरीकी सैनिकों के नाम १ जून, १९४६ के पहले का जो भी हिसाब निकलता था, उसे चुकाने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने सिर ले ली। भारत सरकार से कहा गया कि देश में पड़े हुए “ लैण्ड-लीज ” के अमरीकी सामान को नीलाम करके जो कुछ मिले, उसका आधा अमरीका को सौंप दे, बाकी से गुद सतोप करे। पर “ लैण्ड-लीज ” के मात्रहत अमरीका से २२ करोड़ ६० लाख आउंस जो चादी आयी थी, उसे लौटाने की जिम्मेदारी ने भारत चरी न हुआ। ३१ मार्च, १९४९ को सारा हिसाब होने पर मालूम हुआ कि भारत के यहा अब भी अमरीकावालों का १७८,४०५, ६४८ ०० डालर बचाया है जो भारत को चुकाना पड़ेगा।

“ लैण्ड-लीज,” सहायता, या पारस्परिक सहायता की मदों में आने वाले सामान के अलावा, १९४० और १९४५ के बीच भारत और अमरीका का जो व्यापार रहा, उसके आँकड़े इस प्रकार दिये गये हैं

वर्ष भारत को अमरीका से निर्यात भारत से अमरीका को आयात

(हजार डालरों में)

| | | |
|------|--------|---------|
| १९४० | ६८,४२८ | १०२,२०६ |
| १९४१ | ८९,६०० | १३१,५१० |
| १९४२ | ९०,५२१ | १०५,१३७ |
| १९४३ | २९,४४९ | १२५,८३७ |
| १९४४ | ४९,०८३ | ११०,९८८ |
| १९४५ | ६८,८९६ | १४६,१७० |

(फ्रॉरेन कौमर्स वीकली, वाशिंगटन, १० अक्टूबर, १९४९)

भारत के व्यापार में ब्रिटेन और अमरीका का हिस्सा कितना कितना प्रतिशत था, यह नीचे के आँकड़ों से पता चलेगा

| वर्ष | भारत का आयात | | भारत का निर्यात | |
|---------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | ब्रिटिश भाग | अमरीकी भाग | ब्रिटिश भाग | अमरीकी भाग |
| १९४१-४२ | २११ | २०१ | ३२३ | १९७ |
| १९४२-४३ | २६८ | १७३ | ३०६ | १४८ |
| १९४३-४४ | २५१ | १५८ | ३०६ | २०२ |
| १९४४-४५ | १९८ | २५७ | २९० | २१२ |

(भारत के व्यापारिक सम्बंध और व्यापारिक नीतियों— विशेष कर अमरीका के सम्बंध में, लेखक डॉ वी एन गागुली, साइक्लोस्टाइल किया हुआ लेख, पृष्ठ ८)

१९३७-३८ में भारत के आयात में अमरीका का भाग केवल ७४ प्रतिशत, और निर्यात में केवल १०१ प्रतिशत था। उसकी तुलना में, जाहिर है, काफी तेज बढ़ती हुई। इतिहास में पहली बार ब्रिटेन और अमरीका के भाग बराबर हो गये, और १९४४-४५ में तो अमरीका भारतीय आयात में ब्रिटेन से भी आगे निकल गया।

भारत से मैगनीज, अवरक, लाख, और दूसरी ऐसी वस्तुओं के निर्यात में काफी तेज बढ़ती हुई जिनकी अमरीका में लडाई का सामान तैयार करने वाले कारखानों को सख्त जरूरत थी। इससे भारत से जानेवाले माल की मात्रा अमरीका से आनेवाले माल की तुलना में बढ़ गयी। ७ अक्टूबर, १९४६ को भारत सरकार के अर्थ विभाग ने एक वयान में बताया

“ युद्ध के आरम्भ से ३१ मार्च, १९४६ तक भारत ने ४०५ करोड़ रुपये के बराबर अमरीकी डालर कमाये और २४० करोड़ रुपये खर्च किये, और इस तरह १६५ करोड़ रुपये की वचत हुई। ”

परन्तु, ब्रिटिश सरकार ने इसका इन्तजाम कर दिया था कि ये डालर भारत को न मिलने पायें। उसने व्यवस्था की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल देश जितने डालर कमायें, वह सब लन्दन में एक “ साम्राज्य डालर कोष ” में जमा रहें। इस प्रकार भारत के लगभग ५० करोड़ डालर लन्दन में रोक लिये गये। और लडाई के बाद भारत के पास इतने डालर भी न रहे कि वह अपनी जरूरत का सामान अमरीका में खरीद सकता। मजबूर होकर उसे ब्रिटेन का मुँह ताकना पड़ा।

भारत में अमरीका की आर्थिक कार्रवाइयाँ

चूँकि ब्रिटेन, अमरीकी सहायता पर निर्भर करने लगा था, इसलिये उसे मन मारकर धीरे-धीरे भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार के मामले में अमरीका को भी अपना हिस्सेदार बनाना पड़ा।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण सयुक्त अवरक मिशन था जो भारत की अवरक की सारी पैदावार को खरीद लेने के लिये बनाया गया था। इस मिशन में तीन सदस्य अंग्रेज थे और तीन अमरीकी। ये सभी व्यापारी थे। भारतीय खान मालिक और व्यापारी भाव आदि के वारे में रोज अपना रोना रोया करते थे, पर उनकी सुनता कौन था? होता वही था, जो ये ब्रिटेनी व्यापारी तै करते थे।

जहाजों तथा डम्पात के उद्योग के वारे में भी अंग्रेजों तथा अमरीकियों के सयुक्त मिशन बनाये गये। बगलौर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी भी अमरीकी हवाई सेना को अपने जहाजों की मरम्मत करने के लिये किराये

श्री बिड़ला जैसे पूंजीपति भी सरकार के भेजे हुए मण्डलों में शामिल होकर विदेश गये हैं, और वे कहीं विदेशों के साथ कोई अनुचित वादा या सौदा न कर लें। जब बिड़ला ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, तब कहीं जाकर महात्मा गांधी ने अपना विरोध त्यागा।

भारतीय मरचेण्ट्स चैम्बर (व्यापारी सघ) ने तो और भी स्पष्ट शब्दों में इन हरकतों का विरोध किया। २ मई, १९४५ को उसने एक वयान में कहा

“भारत पसन्द करेगा कि उसका औद्योगिक विकास न हो, परन्तु वह यह नहीं चाहेगा कि इस देश में नयी ईस्ट इण्डिया कम्पनियाँ कायम हो जायें। उनसे न केवल भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सकट में पड जायगी, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी मुश्किल हो जायगा।”

मालूम पडता था कि इस प्रश्न पर पूंजीपति वर्ग में दो मत थे। एक दल प्रमुख और शक्तिशाली उद्योगपतियों का था। ये लोग अपनी बढी हुई दौलत का इस्तेमाल सयुक्त कम्पनियाँ खोलकर ब्रिटेन और अमरीका का साझीदार बनने के लिये करना चाहते थे। दूसरा दल उन लोगों का था जो पूंजीपति वर्ग के अन्दर राष्ट्रीय एवं स्वदेशी आन्दोलन के मुख्य आवार थे और जिनमें अधिकतर छोटे उद्योगपति और छोटे व्यापारी शामिल थे। उनके पास इतने अधिक साधन न थे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सौदे कर सकें। परन्तु दो दलों का यह मतभेद बहुत दिन तक नहीं चला—कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही दिखाई दिया। भारत तथा ब्रिटेन के बीच राजनीतिक वार्ताचीत फिर से आरम्भ होने पर दूसरे सबालों ने उसे पीछे ढकेल दिया।

इसी बीच भारतीय पूंजीपतियों तथा अमरीकी पूंजीपतियों के बीच कई नौदे हुए जिनके द्वारा उन्होंने साझे में कम्पनियाँ खोलीं। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं

मोटर गाड़ियाँ बिड़ला की हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी ने अमरीका की स्टुडबेकर कार्पोरेशन में, वालचन्द हीराचन्द की प्रीमियर ऑटोमोबाइलस कम्पनी ने क्राइस्लर कार्पोरेशन में, और मोटर हाउस (गुजरात) लिमिटेड ने कैमर फ्रेजर एक्मपोर्ट कार्पोरेशन से साझा किया।

रेडियो और बिजली का सामान कजलभाई फोटोफोन इक्विपमेण्ट कम्पनी ने रेडियो कार्पोरेशन ऑफ अमरीका में साझा किया।

रेयॉन (नरुली रेशम) नेशनल रेयॉन कार्पोरेशन ने, जिसे सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर आर्देगिर दलाल, ए डी श्रॉफ, वालचन्द हीराचन्द आदि ने बनाया था, अमरीका की स्केनाण्डोआ रेयॉन कारपोरेशन ऑफ उटिका और लौकवुड, ग्रीन एण्ड कम्पनी ऑफ न्यू यौर्क से समझौता किया। लौकवुड ग्रीन कम्पनी सलाहकार इंजीनियरों की फर्म है।

इस जमाने में अंग्रेजों के मुकाबले में अमरीकी फर्मों से याज्ञा करना ज्यादा पसन्द किया जाता था, क्योंकि खयाल था कि उनसे बेहतर शर्तों पर समझौता हो सकता है। परन्तु, अमरीकी धनकुत्रेयों के सामने भारतीय उद्योगपतियों की क्या विस्तात थी। और अमरीकी पूंजीपतियों के लिये पूंजी लगाने के वास्ते सारी दुनिया पड़ी हुई थी—सोवियत रूस और पूर्वी योरप को छोड़ कर। जाहिर है कि वे मुंहमागी शर्तों पर ही हिन्दुस्तानियों से साझा करने को राजी हो सकते थे। इसलिये अमरीकी कम्पनियों ने जो शर्तें भारतीय पूंजीपतियों के सामने रखीं, वे ऐसी नहीं थीं जो बराबर के दर्जे के साझीदारों के बीच होनी हैं। १६ नवम्बर १९४५ को ईस्टर्न इकोनोमिस्ट ने लिखा

“ भारत ने जो शर्तें पेश की हैं, वे ऐसी नहीं हैं कि अधिकतर अमरीकी पूंजी लगानेवालों को पसन्द आ सकें, वे लोग (यानी अमरीकी पूंजीपति) उत्पादन में, हिसाब-किताब में, पैदावार कैसी हो यह तै करने में और माल की विक्री किस ढंग से की जाय, यह निश्चय करने में अपना हाथ चाहते हैं। इसके बिना वे साझा करने को तैयार न होंगे। ”

शुरु में, भारतीय पूंजीपति हर चीज पर अमरीकी नियंत्रण को मानने के लिये तैयार न थे। परन्तु अन्त में, अमरीकी पूंजीपति अपनी अधिकतर शर्तें मनवाने में कामयाब हो गये। मिसाल के लिये, रेयॉन वाले समझौते में यह तै पाया कि भारतीय कम्पनी को केवल टेकनिकल मदद देने के बदले में (इसमें मशीनों के दाम शामिल नहीं थे) भारतीय साझीदार, ४ लाख रुपये तुरन्त, ११ लाख हर साल तनखाओं के रूप में और सवा लाख रुपये वार्षिक रायल्टी के रूप में अमरीकी कम्पनी को, १० साल तक लगातार देते रहेंगे। दूसरे समझौतों की शर्तें गुप्त रखी गयीं।

मोटर गाड़ियोंवाले समझौतों में बिड़ला व स्टुडबेकर का समझौता केवल पुर्जों को जोड़कर मोटर गाड़ी बनानेवाले कारखाने से सम्बन्धित था।

प्रीमियर-काइस्लर समझौते में हिन्दुस्तान में मोटर बनाने की भी बात थी, परन्तु अभी तक इस मिलसिले में कोई कामयाबी नहीं मिली है। मोटर हाउस-कैसर समझौते में शुरू में बाहर से मोटर मंगाने, फिर पुर्जे मंगाकर जोड़ने और अन्त में मोटर बनाने की बात थी। परन्तु, यह योजना भी सफल नहीं हुई और यह अधबना कारखाना १९४९ में एक अग्रज कम्पनी के हाथ बेच दिया गया।

सच पूछा जाय तो इन समझौतों के द्वारा कदम पीछे ही हटाया गया था। १९३६ में वालचन्द हीराचन्द, एम० विद्देश्वरैया आदि ने एक मोटर बनाने का कारखाना खड़ा करने के लिये एक कम्पनी खोली थी और उसके लिये वाल्टर काइस्लर तथा हैनरी फोर्ड से सहयोग के वचन ले लिये थे। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने नयी कम्पनी को टैक्स के मामले में कोई सुविधा देना जल्द नहीं समझा और १९४२ में पूरी योजना त्याग दी गयी। युद्ध के काल में जो समझौते हुए, उनसे भारत के औद्योगीकरण में सहायता नहीं मिली, बल्कि उनके जरिये भारत के बड़े से बड़े उद्योगपति भी अमरीकी कम्पनियों के अदना एजेण्ट बन गये। इनमें से एक भी समझौता ऐसी नहीं था जिससे किसी मुख्य उद्योग की नींव पड़ती हो। ध्यान में रखने की बात है कि किसी देश की स्वतंत्रता अन्त में बुनियादी उद्योगों पर ही निर्भर करती है।

भारतीय मामले में अमरीकी हस्तक्षेप

लड़ाई के जमाने में हिन्दुस्तान की आजादी का सवाल बड़े जोरों से दुनिया के सामने आया। अमरीका ने भी इन्हीं दिनों पहली बार इस सवाल में दिलचस्पी ली। राष्ट्रपति रूजवेल्ट भली भाँति जानते थे कि युद्ध उद्योग और भारत में तैनात अमरीकी सेनाओं की सुरक्षा के लिये भारतीय जनता के रुख का कितना भारी महत्व है। उन्हें इस बात की भी चिन्ता थी कि युद्ध के बाद एशियाई देशों में अमरीका की प्रतिष्ठा और इज्जत कितनी रहेगी। साथ ही वह यह बात भी अच्छी तरह समझते थे कि अब ब्रिटेन चूँकि अमरीका की सहायता पर निर्भर करता है, इसलिये अमरीका ब्रिटेन के हर मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।

अमरीकी सरकार ने १९४१ से भारत के साथ सीधा सम्पर्क बनाना शुरू किया। दस वर्षों के दोनों देशों के बीच दूतों की बदला-बदली हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि इसके पहले तक वाशिंगटन में भारतीय दूत सर गिरिजाशंकर वाजपेयी, ब्रिटिश राजदूत लार्ड हैलीफैक्स के आधीन थे। इसके पहले तक भारत में अमरीकी दूत के लिये भी ऐसा कोई काम न था जो साधारणतः राजदूतों के हुआ करते हैं, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था।

इसके बाद अमरीकी सरकार ने भारत से एक व्यापारिक संधि की बातचीत शुरू की। यह भी एक असाधारण प्रस्ताव था क्योंकि उस समय तक भारत सरकार को किसी विदेशी सरकार से संधि करने का अधिकार न था। प्रस्तावित संधि का उद्देश्य, वास्तव में, तो उस व्यवस्था की हटाना था जिसके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में बने माल पर भारत कम चुगी लगाता था और अमरीका आदि दूसरे देशों के माल पर अधिक। इससे अमरीकी व्यापार को नुकसान पहुँच रहा था। अटलांटिक चार्टर का मसौदा तैयार करते समय भी अमरीकी सरकार ने इस बात पर जोर दिया था। परन्तु, अंग्रेजों ने डट कर उसके प्रस्ताव का विरोध किया और बात जहाँ की तहाँ रह गयी थी।

पहले हारवर पर जापानियों के हमले के बाद भारत की राजनीतिक परिस्थिति में भी अमरीका दिलचस्पी लेने लगा। एक अमरीकी अफसर को राजदूत बना कर भारत भेजा गया। भारत के मुख्य शहरों में अमरीका के युद्ध समाचार विभाग की शाखाएँ खुल गयीं। कृष्णनीतिक सम्मेलनों में भारत की अक्सर चर्चा होने लगी। हिन्दुस्तान के सवाल को लेकर ब्रिटिश तथा अमरीकी सरकारों के बीच पेंतरेवाजी चलने लगी।

चर्चिल अमरीकी हस्तक्षेप से नाराज थे। उनकी राय में अमरीकियों को भारत के मामले में टांग अढ़ाने का कोई अधिकार न था, और इसका उद्देश्य केवल अंग्रेजों के हितों को काटकर अमरीका का उल्लंघन करना था। यह शर्त निरावार भी न था। साम्राज्यी चुगी व्यवस्था को, जिसका हमने जिक्र किया है, खतम कराने की कोशिशें इसकी सवृत्त थीं। ३ मार्च, १९४३ को भारत में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि विलियम फिलिप्स ने सुझाव रखा कि भारत तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन अमरीकी प्रतिनिधि की अध्यक्षता में हो और ब्रिटेन उसमें जो कुछ चाहे करे, अमरीका उनका जामिन बनना कबूल करे। भला चर्चिल यह कैसे भूल सकता था कि ब्रिटेन ने भी इसी तरह दूसरों का जामिन बन-बन कर अपना साम्राज्य बढ़ाया था! १४ मार्च को फिलिप्स ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा।

“ राष्ट्रपति महोदय, मेरा दृढ मत है कि भारत में हमारी सैनिक स्थिति को देखते हुए, इन तमाम मामलों में हमारा हाथ रहना जरूरी है। जब जापान के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भाग हमें ही लेना पड़ेगा, तब अंग्रेजों का यह कहना किसी प्रकार भी उचित नहीं है कि इन मामलों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। ”

उधर चर्चिल की यह कोशिश थी कि अमरीका से जोर डलवा कर हिन्दुस्तान को रास्ते पर लाया जाय। अप्रैल १९४२ के शुरु में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कर्नल लुई जौन्सन को निमन्त्रण दिया कि कांग्रेस कार्य-समिति के साथ बातचीत के दौरान में वह गैर-सरकारी तौर पर मध्यस्थ का काम करे और अंग्रेजों के इस प्रस्ताव का समर्थन करें कि एक भारतीय को देश का रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया जाय, किन्तु रक्षा विभाग का कोई काम उसके हाथ में न रहे। भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को तो नहीं माना, परन्तु इस बातचीत का एक परिणाम यह ज़रूर हुआ कि भारतीय नेता अमरीका से मदद की आशा करने लगे, और इससे ब्रिटेन की वजाय अमरीका का ही फायदा हुआ।

उपर ब्रिटिश सरकार को भी अमरीका की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वह हिन्दुस्तान में जो कुछ भी करती थी, पहले अमरीकी सरकार को उसकी मूचना दे देती थी। १८ जून १९४२ को ही लार्ड हैलीफैक्स ने अमरीकी सरकार के वैदेशिक विभाग को बताया कि ब्रिटिश सरकार गांधी और कांग्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ८ अगस्त १९४२ को उप प्रधान मंत्री एटली ने अमरीकी प्रेसीडेंट रूजवेल्ट को सूचित कर दिया कि ब्रिटिश सरकार गांधी तथा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करनेवाली है।

अमरीकी सरकार भारत में अपने समर्थकों की सख्या बढ़ाना चाहती थी। अमरीका के आम लोगों को भारत में तैनात अमरीकी सिपाहियों की सुरक्षा की चिन्ता थी। अंग्रेजों ने अमरीका में भारत के खिलाफ बहुत प्रचार किया, परन्तु जनता को दमन की नीति पसन्द न आयी। अमरीकी सरकार इस समय शीघ्र नीति पर चल् रही थी। एक तरफ उसकी कोशिश यह थी कि ब्रिटेन को नुकसान न हो, उजा कर उसमें गांधी तथा दूसरे नेताओं के साथ समझौते

का कोई कदम उठवाये। इसके लिये अमरीकी सरकार के नेता और प्रतिनिधि भारतीय नेताओं से अच्छे सम्बंध रखने की कोशिश करते थे और गांधी ही इस बात का भी खयाल रखते थे कि ब्रिटेन नाराज न हो जाय। ब्रिटिश दमन का तो अमरीका खुलेआम विरोध न करता था, परन्तु इस बात पर जोर देता कि भारत से सम्झौते की बातचीत जारी रखी जाय और उम्मीद आ-वार हूँ कि अग्रेज यह वचन दें कि कौरन तो नहीं, पर युद्ध के बाद जल्द भारत को स्वतंत्रता दे दी जायगी। इस सम्बंध में बार-बार फिलीपाईन का उदाहरण दिया जाता था।

दूसरी तरफ, अमरीकी सरकार अपने देश की जनता को चुपचाप रखने की कोशिश भी कर रही थी। अग्रेजों ने अमरीका में एक बड़ी भारी प्रचार की मशीन खड़ी कर रखी थी। अमरीकी सरकार ने उसकी सहायता की। अमरीका के विदेश मंत्री कोर्डेल हल ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेउन से मार्च १९४३ में लिखा

“ भारत को लेकर इस देश (अमरीका) में कहीं ब्रिटिश-विरोधी भावना न बढ़ जाय, हमने इसकी सचमुच बड़ी कोशिश की है। . ”

यहाँ तक कि अमरीका में भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करनेवाले कई लोग गिरफ्तार कर लिये गये। रैफ टैम्पलिन और डॉ॰ जे॰ होम्स मिथ नामक दो अमरीकी पादरी इसी अपराध पर भारत से वापस बुला लिये गये थे। फरवरी १९४३ में, महात्मा गांधी के उपवास के समय उन्होंने वाशिंगटन में ब्रिटिश दूतावास पर धरना दिया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सदा अमरीका का प्रचार करनेवाले सरदार जे॰ जे॰ सिंह को भी मातना पड़ा कि अमरीकी सरकार की भारत की आजादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जून १९४७ में प्रकाशित एक पुस्तिका में उन्होंने लिखा है

“ अपने देशवासियों के साथ-साथ मुझे भी १९४२ में अमरीकी सरकार की पूर्ण निष्कियता को देखकर घोर निराशा हुई थी। उस जमाने में मैंने हरेक-के दरवाजे-की कुड़ी सटखटाई, उपराष्ट्रपति हैनरी वैलेस से लेकर नीचे तक सैकड़ों व्यक्तियों से मिला, पर मैं आपको बताऊँ, अमरीकी सरकार का रुख देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई और खेद हुआ। दिन रात दीवार से सिर टकराते रहना अच्छा नहीं लगता था। ”

यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अमरीका ने सबसे पहले अपने जिस ऊंचे अधिकारी को भारत भेजा, वह कर्नल जौन्सन था जो बाद में चल कर अमरीका का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। जौसन पहले “अमरीकन लीजन” नामक अर्द्ध सैनिक सस्था का नेता था और राजनीति में उसका सम्बंध अमरीका के सबसे प्रतिक्रियावादी दलों से था। अमरीकी सेनेट की एक कमिटी के सामने बयान देते हुए जौसन ने १५ जून, १९५१ को भारत में अपनी कार्रवाइयों के बारे में एक अजीब चीज बतलायी। सेनेट में सवाल-जवाब इस प्रकार हुआ

“सेनेटर ब्र्यूस्टर मेरे खयाल में आप किसी समय सरकार के प्रतिनिधि बन कर भारत गये थे ? ठीक है न ?

“मि० जौसन जी, हाँ।

“सेनेटर ब्र्यूस्टर भारत में उस वक्त हमारी जो प्रचार करने वाली सस्था काम करती थी, ‘अमरीका की आवाज’ या जो कुछ भी उसका नाम रहा हो, आप उसके काम से तो परिचित थे ?

“मि० जौसन मैं जब वहा था तो एक प्रचार करने वाली सस्था वहां थी, लेकिन वह अमरीकी सस्था नहीं थी। थोड़े से लोग थे, बड़े भले लोग, जो चीन से और दूसरी जगहों से आये थे और मुझ से भारत में मिले थे, और हम “जगली विल” डोनोवन के साथ काम कर रहे थे।

“सेनेटर ब्र्यूस्टर उस वक्त डोनोवन तो सरकार में था न ?

“मि० जौसन जी, हाँ।

“सेनेटर ब्र्यूस्टर यही सस्था थी जिम्का मैं जिक्र कर रहा था।...

“मि० जौसन हाँ, यही सस्था थी जिम्ने, जब मैं भारत में था, तो मेरी सहायता की थी।”

डोनोवन का पूरा नाम मेजर जनरल विलियम जोसेफ स्माने में वह अमरीका के जामूम विभाग का प्रधान था।

जौसन के बाद विलियम फिलिप्स को भारत में अमरीकी प्रतिनिधि नियत किया गया। यह सज्जन भी पहले जासूस विभाग के बड़े अफसर थे।

अमरीका की इस नीति से कि गुप्त रूप से तो वह ब्रिटेन को सलाह देना है पर सार्वजनिक रूप से भारत के मामले में मदा चुप्पी साधे रहता है, हिन्दुस्तान में असतोष पैदा होना स्वाभाविक था। शायद गाधीजी को अमरीका के बारे में सबसे कम भ्रम था। उन्होंने १९४२ में ही च्याग काई-शोक से कह दिया था कि “ये लोग (ब्रिटेन और अमरीका) हम हिन्दुस्तानियों के साथ कभी खुशी से बराबरी का व्यवहार न करेंगे।” कुछ समय बाद उन्होंने एक अमरीकी से बात करते हुए इस बात में बड़ा शक जाहिर किया कि अमरीकी सरकार ईमानदारी से चार स्वतंत्रताओं का समर्थन करती है। उन्होंने पूछा “ इनमें स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता भी शामिल है या नहीं ? ” १९४३ और १९४४ में अक्सर अखबारों में यह वनावटी खबर निकलती थी कि अमरीका गुप्त रूप से भारत का समर्थन कर रहा है। परन्तु कोई ठोस नतीजा लोगों को नजर न आता था। इससे अमरीका के बारे में काफी नाराजगी का भाव भारत में फैला और उससे अमरीकी अधिकारियों को काफी चिन्ता हुई।

परन्तु १९४४ के खतम होते-होते सैनिक परिस्थिति सुधर गयी और भारत में अमरीका की कौरी दिलचस्पी भी कम हो गयी। १९४५ में श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित अमरीका गयीं जहर, परन्तु भाषण देने के अतिरिक्त वह कोई राजनीतिक काम न कर सकीं। सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में अमरीकी अधिकारियों ने उनको कोई महत्व नहीं दिया और सम्मेलन के अन्दर यदि किसी ने भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठायी तो केवल सोवियत के विदेश मंत्री मोलोटोव ने। इसके बाद अमरीकी सरकार का काम सिर्फ यह रह गया कि भारतीय नेताओं से बातचीत के सिलसिले में ब्रिटेन जो भी कदम उठाये, उसके समर्थन में वह बयान निकाल दे। भारतीय जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह फरवरी १९४६ में जहाजियों की बगावत के समय बम्बई में दिखाई दिया जब यूनियन जैक के साथ ही वहा अमरीकी झण्डा भी जलाया गया।

भारत के आयात तथा निर्यात का मासिक औसत

| वर्ष | भारत के आयात | | | | भारत के निर्यात | | | |
|------|-----------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| | लायत रुपयों में मूल्य | | कुल आयातका प्रतिशत भाग | | लायत रुपयों में मूल्य | | कुल निर्यातका प्रति भाग | |
| | अमरीका से | ब्रिटेन से | अमरीका से | ब्रिटेन से | अमरीका को | ब्रिटेन को | अमरीका को | ब्रिटेन को |
| | १९३८ | १९४६ | १९४९ | १९५० | १९५१ | १९५२ | १९५२ | (जनवरी) |
| | ९५ | ६०१ | ७३ | ३०६ | ११० | ६२६ | ८३ | ३५५ |
| | ३८६ | ८६१ | १४६ | ३१८ | ५८१ | ५८५ | २५१ | २५१ |
| | ८६० | १,४४८ | १६० | २७६ | ५७० | ९३५ | १६१ | २-३ |
| | ८३८ | ९७९ | १९९ | २३ | ८३५ | ९९४ | १५२ | ३०८ |
| | १,६७४ | १,१९२ | २६० | १८७ | १,०८५ | १,५६२ | १८१ | २-३ |
| | ३,७०० | १,५९९ | ६६५ | २०० | १,००५ | १,६३८ | १६३ | २६५ |

("मंथली ऐन्सट्रैक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स," नयी दिल्ली, मार्च, १९५२)

तीसरा अध्याय

दूसरे महायुद्ध के बाद के काल में भारत-अमरीका का व्यापार

हमने देखा कि युद्ध काल में अमरीका ने भारत में अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया और भारत के वैदेशिक व्यापार में उसका भाग अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया। युद्ध के बाद उसने अपनी इस कामयाबी को पुख्ता किया।

लडाई के पहले की तुलना में अमरीका में भारत का निर्यात बहुत बढ़ गया। भारत के वैदेशिक व्यापार में अमरीका का स्थान दूसरे नम्बर का हो गया। केवल ब्रिटेन उसके ऊपर था। भारत के आयात व्यापार में, १९५१ में अमरीका का हिस्सा ब्रिटेन से भी बहुत बढ़ गया। अब भारत में सबसे अधिक माल अमरीका से ही आता है। (पृष्ठ ४२ का टेबुल देखिये)

पाकिस्तान के साथ भी अमरीका का व्यापार बढ़ा है, पर इतना नहीं। १९५१ में पाकिस्तान के आयात में अमरीका का तीसरा स्थान था और निर्यात में आठवा। परन्तु, अमरीका द्वारा अधिकृत जापान वहा ब्रिटेन का चश्मा प्रतिद्वन्दी बन गया था।

अमरीका की जहाजी कम्पनियों ने भारत के व्यापार में घुसने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। युद्ध के पहले अमरीकी जहाज भारत के वैदेशिक व्यापार के केवल २७ प्रतिशत भाग को ढोते थे। १९४९ तक वे भारतीय निर्यात के ५२ प्रतिशत भाग को और आयात के २५ प्रतिशत भाग को ढोने लगे।

भारत-अमरीकी व्यापार में यह तरक्की अप्रेजों के तमाम विरोध और अड़गों का सामना करके हुई। १९४६ में, ब्रिटिश सरकार ने आयात निर्यात के कण्ट्रोल के द्वारा ऐसे सैकड़ों सौदों को रोक दिया जो भारतीय तथा अमरीकी व्यापारी पहिले से कर चुके थे। १५ अगस्त, १९४७ के बाद

ब्रिटेन ने इस बारे में दूसरा तरीका अख्तियार किया। उसके यहाँ भारत और पाकिस्तान का पौण्ड पावना जमा था। उसका उपयोग करते ब्रिटेन ने दोनों देशों की वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी नीति पर प्रभाव डाला। लन्डन के डालर कोष में भारत ने करोड़ों डालर जमा किये थे। परन्तु १९४७ के अन्त में ब्रिटेन ने भारत को उस कोष से डालर देना बन्द कर दिया। १९४७ और १९४८ में भारत और पाकिस्तान के साथ पौण्ड पावने के सम्बन्ध में जो समझौते हुए, उनके द्वारा ब्रिटेन ने पौण्ड पावने के उस भाग को और कम कर दिया जिसे भारत और पाकिस्तान डालरों में बदल सकते थे। ऐसा करते समय इस बात का खयाल नहीं रखा गया कि हिन्दुस्तान को डालरों की बढ़ी कमी पड़ रही थी। नतीजा यह हुआ कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेना पड़ा।

पौण्ड पावने पर ब्रिटेन का अधिकार रहने के कारण भारत को मजबूर होकर ब्रिटेन से ज्यादा सामान मगाना पड़ता था। इसके अलावा, ब्रिटेन ने दबाव डाल कर भारत को विवश कर दिया कि वह अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दे। स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य होने के कारण भारत और पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उन्हें १९४९-५० में अपने डालर आयात को २५% कम कर देना पड़ा।

पौण्ड पावने पर अंग्रेजों का अधिकार रहने से उन्हें कितना लाभ हो रहा है, इससे अमरीका अच्छी तरह परिचित था। इसलिये, उसने १९४५ से ही अंग्रेजों के इस अधिकार को कम करने की कोशिश शुरू कर दी थी। जब ब्रिटेन और अमरीका में कर्जे की बातचीत शुरू हुई, तब अमरीका ने शर्त रखी कि कर्जा लेना चाहते हो तो अधिकतर पौण्ड पावने को रद्द कर दो। अन्त में जो समझौता हुआ, उसकी १०वीं वारा में इस सम्भावना के लिये स्थान रखा गया और ऐसा करते समय भारत से पूछा तक नहीं गया। प्रधान न्यायाध्यक्ष फ्रेड एम विसन ने, जो उस समय अमरीका के अर्थ मंत्री थे, २१ मई, १९४६ को बताया कि कर्जे की बातचीत के दौरान में यह योजना तैयार हुई थी कि पौण्ड पावने के तिहाई भाग को तो काट दिया जाय और आधे भाग को पचास साल तक के लिये रोक रखा जाय। परन्तु अमरीका की योजना सफल न हो पायी। क्योंकि एक तो भारत और

पाकिस्तान में पौण्ड पावना काटने या कम करने का सख्त विरोध हुआ, दूसरे, ब्रिटेन गम्भीर आर्थिक संकट में फस गया।

अतः समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और अमरीका, ब्रिटेन से पौण्ड पावना ले लेने या व्यापार पर उसके प्रभाव को कम करने की किसी न किसी तरकीब की खोज में लगा रहा। १४ अक्टूबर, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने यह समाचार छपा कि वालस्ट्रीट में अफवाह है कि अमरीकी सरकार ने भारत को सुझाया है कि वह पौण्ड पावने से केवल अपने नोटों की सुरक्षा का काम ले और ब्रिटेन में माल खरीदने के लिये चालू व्यापार की कमाई को इस्तेमाल करे। समझा जाता था कि इस सुझाव को मान लेने से किसी की प्रतिष्ठा को भी हानि न होगी और भारत, ब्रिटेन के मुकाबले में अमरीका से ज्यादा माल खरीदने लगेगा। यह बात भी महत्वपूर्ण थी कि यह समाचार ठीक उस समय छपा गया था जब चिन्तामण देशमुख के साथ ५० नेहरू अमरीका में मौजूद थे, और ऋज पर गेहूँ लेने की तथा अमरीकी बैंकरों को भारत में पूंजी लगाने के लिये समझाने की कोशिश कर रहे थे।

पौण्ड पावने के प्रति अमरीका के रुख पर विचार करते समय यह याद रखना जरूरी है कि यह रकम भारत ने युद्ध के काल में ब्रिटेन और अमरीका को बाजार भाव से कम दामों पर तरह-तरह का माल देकर कमाया था। भारत का रिजर्व बैंक इस माल के बदले में नोट छाप-छाप कर दे देता था। साम्राज्यवादी अर्थ-नीति के इस हथकण्डे से भारत में भयानक मुद्राप्रसार फैला जिससे जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ५ अप्रैल १९४६ तक, पौण्ड पावने की रकम १७३० करोड़ रुपये तक पहुँच गयी थी। परन्तु, बाद में अनेक अनुचित बहाने बना कर ब्रिटिश सरकार ने उसे काफी कम कर दिया। जो रकम बची है, वह भी तेजी से खर्च होती जा रही है। जल्द ही वह समय आनेवाला है जब अंग्रेजों के हाथ में यह अस्त्र भी न रहेगा।

पौण्ड पावने के द्वारा भारत के वैदेशिक व्यापार में अंग्रेज अपना प्रमुख स्थान तो बनाये रहे, परन्तु यहाँ के व्यापार में अमरीका ने जो जगह बना ली थी, वहाँ से उसे निकालने में ब्रिटेन को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसलिये, कहना चाहिये कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी स्वार्थों की अमरीकी हमलों से हिफाजत करने के लिये पौण्ड पावने ने एक रक्षात्मक हथियार के रूप में काम दिया।

भारत-अमरीकी व्यापार का स्वरूप

भारत-अमरीकी व्यापार का भारत के लिये महत्व है, क्योंकि उसके वैदेशिक व्यापार का काफी बड़ा हिस्सा अमरीका के साथ होता है। परन्तु इस व्यापार का अमरीका के लिये भी भारी महत्व है। जुलाड़े, १९४८ में अमरीका की राष्ट्रीय वैदेशिक व्यापार समिति ने कहा था

“ भारत से आनेवाले माल की कीमत हमारे कुल वैदेशिक व्यापार का एक एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती है, परन्तु आठ महत्वपूर्ण चीजें हमें सिर्फ भारत से ही मिलती हैं, और पन्द्रह दूसरी वस्तुओं का ८०% भाग भी हम उसी देश से मगाते हैं। ”
(साइक्लोसटाइल किया हुआ लेख)

प्रतिनिधि सभा (अमरीकी पार्लामेण्ट की निचली सभा) की वैदेशिक मामलों से सम्बन्धित समिति ने भी यह बात मानी है कि अमरीका को सैनिक दृष्टि से जिन जिन कच्चे मालों की घोर आवश्यकता है, उनमें से अनेक माल प्रायः हिन्दुस्तान से ही आते हैं।

“ भारत के पास ऐसी कई वस्तुएँ हैं जिन्हें अमरीका सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है। गोला-बारूद विभाग की सूची के अनुसार जिन वस्तुओं के भण्डार अमरीका जमा कर रहा है, उनमें से ये चीजें काफी मात्रा में हिन्दुस्तान में पैदा होती हैं बेरिल, रेंडी के बीज, क्रोमाइट, नारियल का तेल, कायनाइट, मैगनीज, अवरक, मोनेजाइट, अफीम, काली मिर्च, प्राकृतिक रबर का दूध, रुटाईल, लाख, टैल्क और जिंकॉन। जूट, चमड़े (बकरों और बछड़ों की कच्ची खालें), और सीसेम के तेल के भण्डार तो नहीं जमा किये जाते, परन्तु अमरीका में उनकी बहुत कमी है, और ये माल भी भारत में तैयार होते हैं।

इन सभी वस्तुओं की अमरीका को सख्त आवश्यकता है।” (अमरीका की ८२ वीं कांग्रेस के पहले अधिवेशन की रिपोर्ट, १९५१, पृष्ठ ६)

अमरीका को जो सामान भारत भेजता है, उसमें ज्यादातर वैसी चीजें ही शामिल हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कच्चा माल कहा जाता है। इन वस्तुओं की माग बहुत घट-बढ़ सकती है और बहुतों की जगह दूसरी वस्तुओं को

इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीका इन वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीदार है। इसलिये, कुछ दिन के लिये इन मालों को खरीदना बन्द करके वह हिन्दुस्तान पर भारी दबाव डाल सकता है। और ऐसे दबाव का भारत के लिये गम्भीर आर्थिक परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिये, १९५२ के शुरु के महीनों में, जब अमरीका ने जूट, काली मिर्च और अबरक को बाजार भाव पर खरीदना बन्द कर दिया, तो भारत में गम्भीर आर्थिक और मुद्रा संकट शुरू हो गया। इस तरह के दबाव की बात छोड़ दी जाय, तब भी यह तो सोचना पड़ेगा कि यदि हम बिना कुछ सोचे-समझे अधाधुध मैगनीज और अबरक निकाल-निकाल कर अमरीका के हाथ बेचते रहे, तो भारत के आर्थिक विकास का क्या होगा।

भारत अमरीका से अधिकतर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और अनाज मगाता है। ब्रिटेन के साथ भी उसके व्यापार का यही रूप है। एक गुलाम मुल्क सदा साम्राज्यवादी मुल्क को कच्चा माल बेचता है और उससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की कारखानों में बनी चीजें खरीदता है। मालिक और गुलाम देशों के व्यापारिक सम्बन्ध इसी प्रकार के होते हैं।

भारत के आयात में मशीनों का स्थान बहुत नीचा है। १९४८ के पहले ६ महीनों में अमरीका से जितना सामान आया, उसमें मशीनों और गाड़ियों की कीमत ५ करोड़ ५३ लाख डालर थी जो कुल आयात का सिर्फ ३६ प्रतिशत भाग थी। और उसमें भी ६७ लाख डालर की बिजली की मशीनें थीं, ३२ लाख का दफतर का सामान था, १ करोड़ ५८ लाख की मोटरों और उनके कल-पुर्जे थे, ४९ लाख के हवाई जहाज और उनके कल पुर्जे थे और १९ लाख के पानी के जहाज थे। यानी, औद्योगिक मशीनें केवल १ करोड़ ८६ लाख डालर की आयी थीं।

१९४८ के पहले ६ महीनों में ही पाकिस्तान ने २० लाख ६२ हजार डालर की मशीनें और गाड़ियाँ अमरीका से मगायी थी। वह अमरीका से आनेवाले कुल सामान का ३६ प्रतिशत होता था। औद्योगिक मशीनें उनमें भी बहुत कम थीं। उनकी कीमत केवल ६ लाख ५७ हजार डालर होती थी।

भारत के बहुमूल्य कच्चे माल और खनिज को बाहर भेज कर जो डालर मिले, उनसे अनाज, रेलवे इंजिन, मोटर गाड़ियाँ, जहाज, अखवारी कागज,

यह बात सच नहीं है कि मार्शल योजना के कारण भारत को अमरीका से मशीनें नहीं मिल सकीं। पहली बात तो यह है कि मार्शल योजना अप्रैल, १९४८ में शुरू हुई, और भारत सरकार यह सफाई इसके पाँच महीने बाद ही देने बैठ गयी। दूसरे, मार्शल योजना का उद्देश्य योरप को मशीनें भेजना नहीं था। अप्रैल, १९४८ और दिसम्बर, १९५० के बीच, मार्शल योजना के मातहत जितना सामान योरप गया, मशीनें उसमें १० प्रतिशत भी नहीं थीं।

भारत को यदि अमरीका से मशीनें नहीं मिलीं, तो इसका कारण न तो यह था कि अमरीका के पास मशीनें नहीं थीं और न यह था कि भारत उनके दाम नहीं दे पाता। विक्टर पलों ने, जो पहले सरकारी अर्थशास्त्री थे, अपनी पुस्तक “अमरीकी साम्राज्यवाद” में लिखा है

“युद्ध काल में अमरीका के मशीन बनानेवाले कारखाने अपना उत्पादन जितना बढ़ा पाये थे, युद्ध के बाद उससे सदा बहुत कम मशीनें वे तैयार करते रहे हैं। इस काल में विदेशों के आर्डर को पूरा करना बहुत आसान था।” (पृष्ठ १०८)

और १९४९ में तो विदेशी आर्डरों का उन्हें और भी स्वागत करना चाहिये था, क्योंकि उस वर्ष स्वयं अमरीका के अन्दर मशीनों की मांग अकस्मात् बहुत कम हो गयी थी।

युद्ध समाप्त होने के बाद से ही भारतीय अधिकारी और व्यापारी अमरीकी बाजार में मशीनें खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उनको सदा असफलता ही प्राप्त हुई है। जैसा कि हिन्दुस्तान टाइम्स के एक सम्वाददाता ने जुलाई १९४८ में यह लिखा था कि अमरीकी कम्पनियों सीमेण्ट मिलाने, खेती करने और छापने की मशीनों तक के लिये हिन्दुस्तानी खरीदारों को दो-दो तीन-तीन साल तक इन्तजार करने को कहती थीं। जिन मशीनों के निर्यात पर कण्ट्रोल था, उनके लिये बार-बार दरखास्तें देने पर भी अमरीकी सरकार सिर्फ नाममात्र का कोटा हिन्दुस्तानियों को देती थी। और यह कोटा भी बेकार होता था क्योंकि भारतीय व्यापारियों को ये मशीनें केवल चोर बाजार में मिलती थीं और अमरीकी व्यापार विभाग सरकारी भाव से अधिक दामों पर निर्यात की विलकुल इजाजत न देता था।

जब भारत सरकार ने अमरीका में ६ लाख टन उपधान खरीदने की चेष्टा की तो पहले तो अमरीकी सरकार ने उसे घटा कर २ लाख टन कर दिया और फिर उसमें से भी केवल ६० हजार टन दिये। भारत सरकार के उद्योग मंत्री ने इस बारे में जून १९४८ में कहा

“ उन्नत औद्योगिक देश युद्ध आर्थिक हितों को उतना महत्त्व नहीं देते जितना वे राजनीतिक कारणों को देते हैं। ”

इसी प्रकार यह तर्क भी निराधार है कि हिन्दुस्तान के पास मशीन खरीदने के लिये पर्याप्त डालर नहीं थे। यह सही है कि अंग्रेजों की तिकड़मों के कारण हिन्दुस्तान के पास डालर सीमित मात्रा में ही रहे हैं। परन्तु, साथ ही यह भी सच है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत के पास अतिरिक्त डालर जमा थे और युद्ध के बाद भारत पहले से कहीं अधिक मात्रा में अमरीका को निर्यात करने लगा है। डालरों की मौजूदा कमी दो कारणों से है। एक तो भारत को अपने डालर, मशीनों की वजाय दूसरी चीजों को खरीदने पर खर्च करने पड़ रहे हैं। दूसरे यह कि अमरीकी सरकार ने अपने देश में आनेवाले विदेशी माल पर तरह-तरह के बंधन लगा कर दूसरे सभी देशों के लिये कठिनाई पैदा कर दी है।

१९४६ तक भारत सदा अमरीका को माल अधिक भेजता था और वहाँ से मगता कम था और इसलिये हर साल कुछ डालर कमा लेता था। किन्तु, १९४७ से आयात, निर्यात से बहुत बढ़ गया है जो नीचे के आँकड़ों से स्पष्ट है, और इसलिये व्यापार का सतुलन भारत के प्रतिकूल हो गया है

अमरीका के साथ व्यापार में भारत का मुनाफा या घाटा (लाख डालरों में)

| | | | | |
|------|---|------|-------|-------|
| १९४६ | + | ५६७ | १९४९ | -१४४ |
| १९४७ | - | १४७३ | १९५० | +४३५ |
| १९४८ | - | ३३० | १९५१* | -१०८१ |

* (जनवरी से नवम्बर तक)

(ये आँकड़े अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग के प्रकाशन, “स्टैटिस्टिकल ऐब्सट्रैक्ट ऑफ़ दि युनाइटेड स्टेट्स” १९५१ और “इण्टरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिकल सीरीज़,” जनवरी १९५२ से लिये गये हैं।)

इसके अतिरिक्त, कुछ दूसरी मदों में भी भारत को हर साल बहुत से डालर अमरीका को देने पड़ते हैं—जैसे सफर खर्च, माल का टोना, बीमा और हिन्दुस्तान में लगी हुई पूजा पर होनेवाला मुनाफा ।

पाकिस्तान की स्थिति भारत से बहुत भिन्न नहीं है, यद्यपि वहाँ की सरकार असली हालत पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश करती है ।

परन्तु, कोरिया की लड़ाई के शुरू होने के बाद कच्चे मालों के दामों में जो बढ़ती हुई और अमरीका से आनेवाले सामान में जो कमी हो गयी, उनके कारण पाकिस्तान की स्थिति कुछ सुधर गयी ।

अमरीका के साथ व्यापार में पाकिस्तान का मुनाफा या घाटा (लाख डालरों में)

| | |
|-----------------------------|-------|
| १९४८ | + ९१ |
| १९४९ | - १७९ |
| १९५० | - २१ |
| १९५१ (जनवरी से नवम्बर तक) | + ९७ |

(ये आँकड़े भी अमरीकी व्यापार विभाग के उन्ही प्रकाशनों से लिये गये हैं जिनसे भारतीय व्यापार के आँकड़े लिये गये थे ।)

व्यापार में घाटा न हो, इस उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान ने कई बार अमरीका से आनेवाले आयात पर प्रतिबंध लगाया । भारत ने अमरीका में अपना निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से रुपये का मूल्य कम कर दिया । वास्तव में, यह कार्रवाई अमरीकी दबाव के कारण ही की गयी थी । अमरीका के अर्थ मंत्री ने ब्रिटिश सरकार को पौण्ड का मूल्य कम करने का हुक्म दिया । भारत ने ब्रिटेन का अनुसरण किया । परन्तु रुपये का मूल्य कम करने से डालरों की कमी पूरी नहीं हुई । १९५० में अमरीकी आयात में सख्ती से कमी करने पर ही स्थिति में कुछ सुधार हुआ । परन्तु १९५१ में भारत को फिर घाटा रहा और अब के आयात के बढ़ने के कारण १९५२ में तो और भी अधिक घाटा रहने की आशंका है ।

डालर समस्या को हल करने के उद्देश्य से ही भारत और अमरीका ने जून १९४८ में एक चुगी सम्बंधी समझौते पर दस्तखत किया था । यह

समझौता “ चुगी और व्यापार से सम्बन्धित जेनेवा वाले समझौते ” के मानहूत किया गया था । इसके द्वारा भारत ने ८ वस्तुओं पर, ब्रिटिश साम्राज्य के बने माल पर कम चुगी लगानेवाली व्यवस्था, भंग कर दी और सोलह वस्तुओं पर अमरीका के हित में चुगी की दर में परिवर्तन कर दिया। परन्तु परिणाम आशा के विलकुल विपरीत हुआ । ६ जून, १९८८ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने लिखा कि १९३८-३९ के व्यापार के आँकड़ों के आधार पर यदि हिसाब लगाया जाय तो चुगी की नयी दरों के कारण भारत को प्रति वर्ष लगभग दस लाख डालर का नुकसान होगा । परन्तु, १९४८-४९ में व्यापार भी पहले से बहुत बढ़ गया था और अमरीका से आनेवाली वस्तुओं का मूल्य भारत से जानेवाली वस्तुओं से बहुत अधिक हो गया था । इसलिये, वास्तव में, नयी दरों से करोड़ों डालर का वार्षिक नुकसान हो रहा था ।

भारत-अमरीकी व्यापार का परिणाम

भारत-अमरीकी व्यापार के इस सक्षिप्त सिंहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि

१ इस व्यापार से भारत के औद्योगीकरण में कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि अमरीका ने उसे मशीने नहीं दी,

२ यह व्यापार असमानता के आधार पर होता रहा है जिससे भारत के लिये गंभीर आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा होती रही हैं, और

३ अमरीका चूँकि भारत से बाहर जानेवाली वस्तुओं का मुख्य खरीदार है, इसलिये वह हिन्दुस्तान पर इस कदर दबाव डाल सकता है जिससे कि व्यापारिक सकट पैदा हो जाना सम्भव है और जो बढ़कर देशव्यापी आर्थिक सकट का रूप धारण कर सकता है ।

एक चौथी विशेषता और भी है जो इस व्यापार के सम्बन्ध में महत्व रखती है ।

भारत के व्यापार पर, दूसरे औपनिवेशिक एवं अर्द्ध-औपनिवेशिक देशों की भांति, पहले महायुद्ध के पहले तक अंग्रेजों का एकाधिकार था । बाद में अमरीका, जापान और जर्मन जैसे दूसरे उन्नत देशों ने भी घुसना शुरू किया । वैदेशिक व्यापार द्वारा इन चन्द देशों से बंधे रहने के कारण हिन्दुस्तान भी

उन तमाम आर्थिक सकटों की लपेट में आता रहा है जो इस गतावृत्ति में सप्ताह में आये हैं ।

राष्ट्रीय आन्दोलन में आशा पैदा हुई थी कि जब हिन्दुस्तान की अपनी सरकार बन जायेगी तो व्यापार पर विदेशी नियंत्रण भी खत्म हो जायगा और बाहरी दुनिया में बार-बार आनेवाले आर्थिक सकटों से भारत की रक्षा हो सकेगी । परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई । व्यापार में एकमात्र परिवर्तन बस यही हुआ कि अंग्रेजों और अमरीकावालों के बीच होइ खूब चलने लगी । जर्मनी और जापान भी अब फिर मैदान में आ रहे हैं, पर वास्तव में वे दोनों भी अमरीका के ही नियंत्रण में हैं । जाहिर है कि अमरीका के हाथ में हमारे व्यापार के जाने से भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रक्षा नहीं होती, क्योंकि यह बात सर्वो को मालूम है कि पिछले वर्षों में सभी आर्थिक सकट अमरीका से ही आरम्भ हुए थे ।

प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री डॉक्टर जानचन्द ने हाल में कहा था कि भारतीय व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति और रचना ऐसी है कि हमारे आर्थिक सम्बंध लाजिमी तौर पर बहुत ही ढुलमुल और अस्थायी रहेंगे । कारण कि हमारा व्यापार मुख्यतः ब्रिटेन और अमरीका पर निर्भर करता है और भारत की अर्थ-व्यवस्था के दूसरे अंगों की तुलना में व्यापार पर विदेशी स्वार्थों का अधिक दृढ़ एकाधिकार है ।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था को और सतुलित तथा दृढ़ बनाने का एक ही उपाय है । वह उपाय यह है कि हमें ऐसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिये जिनकी अर्थ-व्यवस्था को कभी आर्थिक सकटों की बीमारी नहीं होती । इसके लिये सोवियत संघ, चीन और पूर्वी योरप के देशों से दीर्घकालीन व्यापारिक समझौते करने चाहिये । परन्तु हालत यह है कि १९४९-५० में इन सभी देशों के साथ हमारा व्यापार, हमारे कुल वैदेशिक व्यापार का मुश्किल से ३ प्रतिशत भी नहीं था ।

देशवासियों को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

अमरीकी पूंजी की भारत से मांग

जब अमरीका से मशीनें नहीं मिलीं और वैदेशिक व्यापार में भारी घाटा होने लगा तो अनेक हिन्दुस्तानी अफगर और व्यापारी इस नतीजे पर पहुँचे कि अब एकमात्र उपाय यह है कि अमरीका को किसी तरह समझा-बुझा कर भारत को आर्थिक मदद देने और अपनी पूंजी वहाँ लगाने के लिये तैयार करना चाहिये। इन महाशयों को आशा थी कि अमरीकी पूंजी मशीनों और मशीन चलानेवाले विशेषज्ञों के रूप में आयेगी। इस प्रकार, जो लोग कभी विदेशी पूंजी के आने का विरोध किया करते थे और समझते थे कि उससे देश की आर्थिक व्यवस्था का विकास नहीं हो सकेगा, वे ही अब वीरे-धीरे इस नतीजे पर पहुँच गये कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के विकास की तो बात दूर रही, उसकी पुनर्स्थापना भी अमरीकी पूंजी के बिना असम्भव है। भारत सरकार के योजना कमिशन ने भारत की आर्थिक उन्नति की जो योजना बनायी है, उसमें एक-तिहाई पूंजी विदेशों से मंगाने की बात कही गयी है।

भारत के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन युद्ध के अन्तिम दिनों में ही आना शुरू हो गया था। उस समय तक कांग्रेस की, और व्यापारी वर्ग के प्रमुख अगों की नीति का आधार राष्ट्रीय योजना समिति का प्रस्ताव था। यह समिति कांग्रेस ने बनायी थी। स्वयं प. नेहरू उसके अध्यक्ष थे और देश के बड़े बड़े उद्योगपति उसके सदस्य थे। उसके प्रस्ताव में कहा गया था कि

“जब से अंग्रेजों का राज्य कायम हुआ है, तब से इतनी अधिक विदेशी पूंजी भारत की खेती, खानों और कल-कारखानों में लग चुकी है कि अब भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर काफी हद तक विदेशी स्वार्थों का नियंत्रण कायम हो गया है। इस नियंत्रण से हमारे राष्ट्रीय विकास को क्षति पहुँची है और वह

रुक मा गया है। जरूरी है कि ऐसे विदेशी स्वयों को, जो भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर प्रभुत्व जमाये हुए हैं—और विशेषकर जिनका सम्भव कम पाये जानेवाले प्राकृतिक साधनों से है—उनको राज्य उचित मुआवजा देकर अपने अधिकार में ले ले।”

राष्ट्रीय योजना समिति की एक उप-समिति ने यह मत प्रकट किया था कि

“ यदि राष्ट्रीय योजना के मातहत बनाये जाने वाले किसी उद्योग में विदेशी पूँजी लगाना बिल्कुल लाजिमी हो जाय, तो इसकी मजूरी ऐसी शर्तों के साथ देनी चाहिये ताकि विदेशी पूँजी का प्रभाव कम से कम रहे। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी उद्योगों, और कम्पनियों पर, जो इस योजना के मातहत बनी हों और जिनमें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से विदेशी पूँजी लगी हो—ऐसे सभी उद्योगों की नीति एवं व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये।”

देश के बड़े-बड़े व्यापारियों ने १९४४ में ही इस नीति को तिलाजलि दे दी थी, जब उन्होंने बम्बई-योजना बनायी थी। इस योजना में ७०० करोड़ रुपये की पूँजी बाहर से मगाने की बात कही गयी थी। योजना प्रकाशित होने के बाद बड़े-बड़े भारतीय पूँजीपति ब्रिटेन और अमरीका की यात्रा आये। उन्होंने विदेशी पूँजी को सयुक्त कम्पनियों के रूप में भारत में आने के लिये निमंत्रण दिया और खुशामद की। श्री मनु सूत्रेदार के शब्दों में, इस प्रकार भारतीय एवं विदेशी पूँजी के अनैतिक विवाह की तैयारी हो रही थी। बड़े व्यापारियों की ओर से कहा जाने लगा कि “विदेशी विशेषज्ञों व पूँजीपतियों का सहयोग लेने पर कम खर्च में” देश का औद्योगीकरण हो जायगा।

परन्तु ब्रिटेन और अमरीका के एकाधिकारी पूँजीपति आसानी से माननेवाले नहीं थे। उनकी अपनी शर्तें थीं। अग्रज तो केवल भारी मुनाफों से ही सतुष्ट हो जाते, परन्तु अमरीकी पूँजीपति भारी मुनाफों के साथ-साथ उद्योग-वधों की प्रत्येक शाखा पर अपना पूर्ण नियंत्रण जमाना चाहते थे।

ये बातचीत चल ही रही थी कि कांग्रेस के नेता भारत की अन्तरिम सरकार में सम्मिलित हो गये। इस सरकार ने एक योजना मलाहकार बोर्ड बनाया। उसने दिसम्बर १९४६ में नयी सरकार की नीति का ऐलान किया,

जिसमें विदेशी पूजापतियों को कुछ सुविधाएँ तो दी गयी थीं, पर उनकी मनमानी शर्तों का विरोध किया गया था। बोर्ड ने कहा कि उद्योग-धंधों में सीधे विदेशी पूजा नहीं लगायी जायगी और विशेषज्ञों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिये जायेंगे। बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों में आवश्यक हो सकता है कि एक निश्चित काल के लिये उनकी व्यवस्था विदेशी हाथों में छोड़ दी जाय। परन्तु ऐसे उद्योगों में विदेशी पूजा के लगने के बाद भी “नियंत्रण भारतीय हाथों में ही रखा जायगा।” साथ ही, सरकार यह शर्त भी लगा देगी कि उद्योग की सभी शाखाओं के सभी पदों को सभालने के लिये भारतीयों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय ताकि विदेशी कम्पनी के साथ “समझौते की मियाद खतम होने पर पूरी व्यवस्था को भारतीय अपने हाथ में ले सकें।” बोर्ड ने आगे कहा था

“हमारी यह राय है कि भारतीय उद्योग-धंधों में विदेशी कम्पनियों को नहीं घुसने देना चाहिये। देश के बुनियादी उद्योगों को विदेशी नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिये और यह क्यों आवश्यक है, यह सभी जानते हैं। परन्तु, दूसरे उद्योगों पर भी, जैसे कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनानेवाले कारखानों पर भी यह बंधन लगाना (यानी विदेशी नियंत्रण नहीं होने देना—अनु०) आवश्यक है। उद्योग-धंधों की जिन शाखाओं में अभी भारतीयों ने प्रवेश नहीं किया है, उनमें यदि विदेशी कम्पनियों को पैर जमा लेने का अवसर मिला, तो फिर, हमारी राय में, इन शाखाओं में भविष्य में भी भारतीय कमी कुछ नहीं कर पायेंगे। किसी ने कोशिश भी की तो उसे विदेशी कम्पनियों के प्रबल यांत्रिक एवं आर्थिक साधनों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारी दृष्टि में, यह बेहतर होगा कि जिन वस्तुओं को हम अभी तैयार नहीं कर सकते हैं, उन्हें अभी हम बाहर से ही मंगाते रहें। विदेशी फर्मों को इन वस्तुओं को यहाँ तैयार करने की इजाजत देने से यह ज्यादा अच्छा होगा। कारण कि विदेशों से आनेवाले माल को तो कुछ दिन बाद हम कम कर सकेंगे या रोक सकेंगे, परन्तु यदि विदेशी स्वार्थ एक बार यहाँ जम गये तो उनको हटाना मुश्किल हो जायगा।”

अर्थात् अभी सरकार के मुँह से राष्ट्रीय पूजापति ही बोल रहे थे, जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी एकाधिकारी पूजापतियों का प्रभुत्व जम

जाने के खिलाफ थे। परन्तु धीरे-धीरे उनकी आवाज धीमी पड़ती गयी। भारत और विदेशों के बड़े पूंजीपतियों के दोहरे दबाव ने अन्त में इस आवाज को एकदम दबा सा दिया।

१९४७ में भारत का उत्पादन एकवारगी बहुत कम हो गया। अपने वादों को पूरा करना तो दूर रहा, नयी सरकार जनता के जीवन स्तर को नीचे गिराने से भी न बचा सकी। उसने अमरीकी सरकार के सामने हाथ फैलाना शुरू किया। अमरीकी पूंजीपतियों की ओर से और दबाव पड़ा। उन्होंने साधारण व्यापारिक शर्तों पर भारत को मशीनें देने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि यदि भारत ने आर्थिक नीति में परिवर्तन नहीं किया तो कर्ज भी न मिलेगा।

विदेशी पूंजी का भारत सरकार द्वारा स्वागत

भारत सरकार अमरीकी सरकार से कर्ज पाने की आस लगाये हुए थी। अमरीकावालों ने उस पर जोर डालना शुरू किया कि सरकारी कर्ज की आशा छोड़ कर विदेशी पूंजी का स्वागत करने के लिये भारत सरकार तैयार हो। इस काम में उन्हें विद्वला और टाटा जैसे बड़े पूंजीपतियों से मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि वे लोग पहले से ही विदेशी पूंजीपतियों के साथ गठबंधन कर चुके थे। भारत के छोटे पूंजीपतियों की मदद पाने के लिये उन्होंने एक तो उन पर बड़े पूंजीपतियों से जोर डलवाया, दूसरे भारत सरकार से माग की कि मजदूरों तथा आम खरीदारों की जेब काट कर पूंजीपतियों की जेब भरनेवाली औद्योगिक नीति पर सरकार अमल करे।

अमरीकी पूंजीपतियों के प्रधान वक्ता का काम स्वयं राजदूत हैनरी प्रेडी कर रहा था। वह देश भर में दौरा कर रहा था और जगह जगह भाषण और बयान देकर कह रहा था कि भारत को अपनी आर्थिक नीति बदलनी चाहिये और अमरीकी पूंजीपतियों को सुविधाएँ देनी चाहिये। अप्रैल, १९४७ में उसने कहा कि विदेशी कम्पनियों को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें तुरन्त दूर करना चाहिये—उदाहरण के लिये भारत की “पेचीदा टैक्स व्यवस्था” में सुधार होना चाहिये। अगस्त में, उसने बम्बई में ऐलान किया कि अमरीकी पूंजी यहाँ भारतीय शर्तों पर नहीं आयेगी। नवम्बर में, कलकत्ता के भाषण में उसने धमकी दी कि जब तक राष्ट्रीयकरण की बातें बन्द नहीं होंगी, तब तक अमरीका से कर्ज नहीं मिलेगा।

इन धमकियों का अमर पडा और १५ दिसम्बर, १९४७ को प नेहरू ने कलकत्ता में एसोसियेटेड चैम्पर्स ऑफ कौमर्स के मामले बोलते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार " विदेशी पूंजी और टेक्निकल सहायता का स्वागत करेगी । " उधर अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग ने अमरीकी पूंजीपतियों को यह आश्वासन दिया कि

" यद्यपि, १९४७ में (भारत में) उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने तथा विदेशी निजी (प्राइवेट) पूंजी पर नियंत्रण लगाने के पक्ष में प्रचार होता रहा, फिर भी वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में सरकार ने प्राइवेट पूंजी के प्रति, और किसी कदर विदेशी पूंजी के प्रति, समझौते का रस्ख दिखाया है ।

" हाल में खान और शक्ति विभाग के मंत्री ने विदेशी पूंजी तथा टेक्निकल सहायता की आवश्यकता स्वीकार की है । उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि कुछ हल्कों में विदेशी पूंजी और टेक्निकल सहायता के उपयोग करने के विरुद्ध कुछ मिथ्या वारणाएँ हैं । ' इन वारणाओं का १५ अगस्त के पहले तो कुछ औचित्य था पर अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तो हम आजाद हो गये हैं, और जो भी विदेशी विशेषज्ञ या पूंजी अब यहाँ आयेगी वह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में रहेगी और हमारी शर्तों पर आयेगी । ' प्रधान मंत्री नेहरू ने भी अपने एक हाल के बयान में विदेशी पूंजी की सहायता मांगने की आवश्यकता का जिक्र किया और इशारा किया है कि सरकार ऐसा करने को राजी है ।

" आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री और राष्ट्रीय आय के विशेषज्ञ, प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया है कि भारत को अपनी वास्तविक आय में प्रति वर्ष २ प्रतिशत बढ़ती के लिये, लडाई के पहले के डालरों में हर साल ५०० करोड़ की विदेशी पूंजी मगानी पड़ेगी । " (' इकोनोमिक रिव्यू ऑफ इंडिया,' १९४७—जुलाई १९४८)

इस प्रकार, माउण्टबैटन फैमला मिलने के चन्द्र हपते के अन्दर ही राष्ट्रीय आन्दोलन के एक आवारभूत सिद्धान्त को एक " मिथ्या वारणा " करार दे दे दिया गया । सुझाव पेश होने लगे कि अंग्रेजों ने सौ साल में भारत में अपना जितनी पूंजी लगायी थी, उससे अधिक पूंजी हर साल

विदेशों से मंगानी चाहिये । और कुछ दिन बाद पता चला कि यह “ हमारी शर्तों ” की बातें भी बोरी बातें ही थीं, क्योंकि शीघ्र ही अमरीकी शर्तों को मंजूर करने की तैयारियाँ भी होने लग गयी थी ।

इस पहली विजय के बाद अमरीकी पूंजीपति आगे बढ़े । विदेशी पूंजी का आम तौरपर स्वागत होने लगा तो उन्होंने अपने लिये और अधिक अधिकारों की माग करना शुरू किया ।

नवम्बर १९४७ में ही राजदूत ग्रेडी ने फरमाया था कि अमरीकी पूंजीपतियों को यह जानने की चिन्ता है कि मजदूरों तथा प्राइवेट पूंजी के प्रति भारत सरकार की साफ-साफ क्या नीति रहेगी । अमरीका के कुछ भारतीय मित्रों ने, जैसे बंगाल के प्रधान मंत्री डॉक्टर विवानचन्द राय ने, इस सवाल को और भी साफ कर दिया । अमरीका के दौरे से लौटने के बाद डा० राय ने १० दिसम्बर को कलकत्ता में ‘ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कौमर्स ’ के सामने कहा कि

“ जहाँ तक मैं अपने दौरे से समझ सका, वे लोग (अमरीकावाले) वन-जन से हमारी सहायता करने को तो उत्सुक हैं, पर शर्त यह है कि उन्हें भारत में कोई खतरा न दिखाई दे । यह खतरा भारत और पाकिस्तान के आपसी झगड़े के कारण नहीं, बल्कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति के कारण उन्हें दिखाई देता है । औद्योगिक नीति से मेरा मतलब राष्ट्रीकरण की नीति और मजदूरों-मालिकों के झगड़ों को सुलझाने के सरकारी ढंग से है । ”

३० अप्रैल १९४८ को, सत्रह अमरीकी पूंजीपतियों के एक दल ने दुनिया भर का दौरा करने के बाद न्यू यॉर्क में कहा

“ हमारे विचार में (पूंजी लगाने का) सबसे अच्छा अवसर भारत में है क्योंकि वह सब से बनी देश है । वहाँ सिर्फ एक ही सवाल है । वह है शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का सवाल जो विदेशी पूंजी लगाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है । ”

अमरीकी पूंजी की बुनियादी शर्तें साफ थीं राष्ट्रीकरण का विचार छोड़ो, मजदूरों को सुविधाएँ देना बन्द करो, हड़ताल रोको, और पूंजीपतियों को नये अधिकार दो !

इन धमकियों का असर पडा और १५ दिसम्बर, १९४७ ने फलकत्ता में एसोसियेटेड चैम्पर्स ऑफ कौमर्स के सामने बोल किया कि उनकी सरकार “ विदेशी पूंजी और टेकनिकल सह, त करेगी । ” उधर अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग ने अमरीका को यह आश्वासन दिया कि

“ यद्यपि, १९४७ में (भारत में) उद्योगों का र. -द्रीकर विदेशी निजी (प्राइवेट) पूंजी पर नियंत्रण लगाने के पद होता रहा, फिर भी वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में सरका पूंजी के प्रति, और किसी कदर विदेशी पूंजी के प्रति, समझ दिखाया है ।

“ हाल में खान और शक्ति विभाग के मंत्री ने विदेशी टेकनिकल सहायता की आवश्यकता स्वीकार की है । उन्होंने वह जानते है कि कुछ हल्कों में विदेशी पूंजी और टेकनिक के उपयोग करने के विरुद्ध कुछ मिथ्या वारणाएँ हैं । ‘ इन ५ १५ अगस्त के पहले तो कुछ औचित्य या पर अब बिल्कुल क्योंकि अब तो हम आजाद हो गये हैं, और जो भी विदेशी पूंजी अब यहाँ आयेगी वह पूरी तरह हमार नियंत्रण में र हमारी शर्तों पर आयेगी । ’ प्रधान मंत्री नेहरू ने भी अपने वचनान मे विदेशी पूंजी की सहायता मागने की आवश्यकता किया और इशारा किया है कि सरकार ऐसा करने को राजी है

“ आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री और राष्ट्रीय आय के प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया है कि भारत को वास्तविक आय मे प्रति वर्ष २ प्रतिशत बढ़ती के लिये, लडाई के ५ टालरों में हर साल ५.०० करोड़ की विदेशी पूंजी मगानी देना (‘ इकोनोमिक रिव्यू ऑफ इंडिया,’ १९४७—जुलाई १९४८)

इस प्रकार, माउण्टबैटन फैसला मिलने के चन्द हफते के अन्दर राष्ट्रीय आन्दोलन के एक आधारभूत सिद्धान्त को एक “ मिथ्या वारणा करार दे दे दिया गया । सुझाव पेश होने लगे कि अग्रेजों ने सौ साल भारत में अपनी जितनी पूंजी लगायी थी, उसमे अधिक पूंजी हर सा

विदेशों से मगानी चाहिये। और कुछ दिन बाद पता चला कि यह "हमारी शर्तों" की बात भी बोरी बात ही थी, क्योंकि शीघ्र ही अमरीकी जतों को मंजूर करने की तैयारियाँ भी होने लग गयी थी।

इस पहली विजय के बाद अमरीकी पूजीपति आगे बढ़े। विदेशी पूजी का आम तौरपर स्वागत होने लगा तो उन्होंने अपने लिये और अधिक अधिकारों की माग करना शुरु किया।

नवम्बर १९४७ में ही राजदूत ग्रेडी ने फरमाया था कि अमरीकी पूजीपतियों को यह जानने की चिन्ता है कि मजदूरों तथा प्राइवेट पूजी के प्रति भारत सरकार की साफ-साफ क्या नीति रहेगी। अमरीका के कुछ भारतीय मित्रों ने, जैसे बगाल के प्रधान मंत्री डॉक्टर विद्यानचन्द्र राय ने, इस सवाल को और भी साफ कर दिया। अमरीका के दौरे से लौटने के बाद डा० राय ने १० दिसम्बर को कलकत्ता में 'इस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स' के सामने कहा कि

"जहाँ तक मैं अपने दौरे से समझ सका, वे लोग (अमरीकावाले) जन-जन से हमारी सहायता करने को तो उत्सुक हैं, पर शर्त यह है कि उन्हें भारत में कोई खतरा न दिखाई दे। यह खतरा भारत और पाकिस्तान के आपसी झगड़े के कारण नहीं, बल्कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति के कारण उन्हें दिखाई देता है। औद्योगिक नीति से मेरा मतलब राष्ट्रीकरण की नीति और मजदूरों-मालिकों के झगड़ों को सुलझाने के सरकारी ढंग से है।"

३० अप्रैल १९४८ को, सत्रह अमरीकी पूजीपतियों के एक दल ने दुनिया भर का दौरा करने के बाद न्यू यॉर्क में कहा

"हमारे विचार में (पूजी लगाने का) सबसे अच्छा अवसर भारत में है क्योंकि वह सब से बनी देश है। वहाँ सिर्फ एक ही सवाल है। वह है शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का सवाल जो विदेशी पूजी लगाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।"

अमरीकी पूजी की बुनियादी शर्तें साफ थीं राष्ट्रीकरण का विचार छोड़ो, मजदूरों को सुविधाएँ देना बन्द करो, हड़तालें रोको, और पूजीपतियों को नये अधिकार दो!

भारत सरकार बहुत जल्द झुक गयी। दिसम्बर १९४७ में (मजदूरों और मालिकों के बीच) एक 'औद्योगिक संधि' की व्यवस्था की गयी। १७ फरवरी, १९४८ को पं नेहरू ने पार्लामेंट में ऐलान किया

“ आर्थिक व्यवस्था में यकायक कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। जहाँ तक सम्भव होगा, वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं होगा। ”

मार्च और अप्रैल में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता और कम्युनिस्ट नेता व कार्यकर्ता नजरबन्दी कानून के मातहत पकड़कर जेलों में डाल दिये गये। उत्पादन बढ़ाने के वहाने, मजदूरों की मागों का सरकार विरोध करने लगी। जब विदेशी कम्पनियों के मजदूर हड़तालें करते थे, तो उनके खिलाफ विशेष रूप से हिंसा का प्रयोग किया जाता था। इस दमन के पीछे अमरीका को खुश करने की भी खाहिश थी। इसका सबूत न्यू यॉर्क टाइम्स का वह समाचार है जो उसने १ अप्रैल, १९४८ के अंक में बगाल की विधान सभा सरकार द्वारा ४०० कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने तथा कम्युनिस्ट पार्टी को गैर-कानूनी करार देने के बाद छपा था। समाचार इस प्रकार था

“ हाल में जो हिंसापूर्ण उपद्रव हुए हैं, उनके पीछे कम्युनिस्टों का प्रचार मालूम होता है। नेशनल कारबन कम्पनी की, जो एक अमरीकी कम्पनी है, कलकत्ता वाले कारखाने में जो गड़बड़ हुई थी, उसके पीछे भी यही बात थी .

“ अमरीका का जो अतिरिक्त फौजी सामान वहाँ रह गया है, उसकी व्यवस्था करनेवाले (केन्द्रीय सरकार के) विभाग के ४,५०० कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। ”

६ अप्रैल, १९४८ को अमरीका की मागें सरकारी तौरपर मान ली गयीं। उस रोज पार्लामेंट ने औद्योगिक नीति पर एक प्रस्ताव पास किया। उससे यह स्पष्ट था कि वह प्रस्ताव अमरीकी पूँजीपतियों को खुश करने के लिये पाम किया गया था। इस प्रस्ताव के मातहत सरकार का स्वामित्व उद्योग के केवल तीन क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया अन्न शस्त्र बनाने के कारखाने, रेलवे, और (एटम) अणु-शक्ति। यह सन्धी को मालूम है कि पहले दो क्षेत्रों पर अर्थव्यवस्था के काल में भी सरकार का स्वामित्व था। विजली के

उद्योग को सरकार के नियंत्रण में रखने की बात भी कही गयी। लेकिन, वाक्री सभी क्षेत्रों को पूजापतियों के लिये खुला छोड़ दिया गया। ऐलान किया गया कि अगले दस साल तक किसी उद्योग का राष्ट्रीकरण नहीं किया जायगा।

सरकार ने इस प्रस्ताव के द्वारा विदेशी पूजा को निमंत्रण दिया और शर्त सिर्फ यह लगायी कि “साधारण रूप से, स्वामित्व और नियंत्रण प्रधानत भारतीय हाथों में रहेंगे।” परन्तु, साथ ही यह भी जोड़ दिया गया कि सरकार को यह अधिकार रहेगा कि खास मामलों में वह जैसा देश के हित में समझेगी, वैसा करेगी। प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए एक सरकारी स्मृतिपत्र में बताया गया था

“प्रस्ताव में भारतीय उद्योग-धर्मों में विदेशी पूजा को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। इसके साथ-साथ देश के हित में उस पर नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था कर ली गयी है। प्रस्ताव के इस अंश से जाहिर होता है कि भारत सरकार अब पूजा और व्यवस्था तथा टेकनिकल शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी सहायता की आवश्यकता स्वीकार करती है और भारतीय उद्योगों की मदद के वास्ते विदेशी पूजा एवं विशेषज्ञों को यहाँ बुलाने को दूरदेशी और बुद्धिमानी का काम समझती है।”

पाकिस्तान में मुस्लिम लीगी सरकार के सबसे पहले कामों में से एक यह भी था कि उसने अमरीका को काफी बड़ी आर्थिक सुविधाएँ दे दी। पाकिस्तान को बने अभी दो महीने भी नहीं हुए थे कि १३ अक्टूबर, १९४७ को न्यू यॉर्क टाइम्स के कर्ोंची सवाददाता ने लिखा

“पाकिस्तान और अमरीका के भावी सम्बंधों पर विचार प्रकट करते हुए एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह बात महत्व से खाली नहीं है कि किसी राजनीतिज्ञ अथवा बड़े सरकारी कर्मचारी की जगह एम ए इस्फहानी जैसे एक बड़े व्यवसायी को वाशिंगटन में राजदूत पद के लिये चुना गया है। अमरीका में पाकिस्तान का इस समय जो काम है, उसमें सबसे अधिक महत्व का काम व्यवसायिक सम्पर्क है।

“वल्लचिस्तान और कलात में अमरीकी कम्पनियों को तेल निकालने की सुविधाएँ देने के बारे में विचार हो रहा है। उत्तरी पश्चिमी

सीमाप्रान्त में तेल निकालने और खनिज पदार्थों का विकास करने तथा मिचाई की बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में भी कहा जाता है कि अमरीकी क्षेत्रों से वातचीत शुरू की गयी है ।

“ पाकिस्तान के अर्थ मंत्री गुलाम सुहम्मद ने कहा है कि अपने राष्ट्रीय विकास के इस वाल्य-काल में पाकिस्तान को निश्चय ही अमरीकी कारीगरों और इंजीनियरों की आवश्यकता है ।

“ एक दूसरे सूत्र से मालूम हुआ है कि चटगाँव के विकास में अमरीकी पूजी से मदद ली जाने वाली है सूचना देने वाले की राय थी कि अमरीका को एक मित्र जहाजी अट्टे के रूप में चटगाँव में खासी दिलचस्पी होगी । ”

२२ अप्रैल १९४८-को पाकिस्तान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति का ऐलान किया । उसने देशी पूंजी, और नये उद्योगों में आनेवाली विदेशी पूजी दोनों को कर आदि के सम्बन्ध में कई बड़ी-बड़ी सुविधाएँ दे दी । ऐसे उद्योगों की सख्या बहुत कम कर दी जिनका भविष्य में कमी राष्ट्रीकरण किया जा सकेगा । विदेशी पूजी का हार्दिक स्वागत किया गया । उस पर शर्तें केवल तीन लगायी गयीं (१) पाकिस्तानियों को नौकर रखा जायगा और उनकी टेकनिकल शिक्षा का इन्तजाम किया जायगा, (२) विदेशी कम्पनियों पाकिस्तान में अपनी मातहतती में जो व्यापार करनेवाली कम्पनियों खोलेंगी वे सब सरकार के यहाँ अपने को रजिस्टर्ड करायेंगी, और (३) कुछ उद्योगों में पाकिस्तानियों को ५१% तक पूजी लगाने का अधिकार रहेगा और कुछ में ३० प्रतिशत तक ।

पाकिस्तानियों को शिक्षा देने की बात किननी खोखली है, यह ईरान में ईरानियन ऑयल कम्पनी के अनुभव से मावित हो चुकी है ।- दूसरी शर्त केवल व्यापार करनेवाली कम्पनियों तक सीमित थी । औद्योगिक कम्पनियों पर वह लागू नहीं होती थी । तीसरी शर्त के साथ यह जोड़ दिया गया था कि यदि देशी पूजी न मिलती हो, तो सरकार और भी अधिक विदेशी पूजी के आने की इजाजत दे सकती है ।

इस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों में अमरीकी पूजीपतियों के स्वागत में ये ग्लेग मालाएँ लेकर खड़े हो गये । गुलाम देशों से साम्राज्यवादी

डेग जितनी सुविधाएँ वसूल कर सकता है, उन सब को अमरीका ने हासिल कर लिया है। केवल एक बंधन बचा—वह यह कि कुछ उद्योगों में ५१ प्रतिशत पूजा देशी होगी। परन्तु, असल में इससे कुछ बनने-बिगड़ने वाला न था, क्योंकि विदेशी पूंजीपतियों को दोनों देशों में आसानी से जाली साज्जीदार मिल सकते थे। १५ अप्रैल १९४८ के अंक में कैपिटल ने लिखा था

“यह समझने का कोई कारण नहीं है कि इस नियम के कारण कम्पनियों का नियंत्रण विदेशी पूंजीपतियों के हाथों से निकल जाने का कोई खतरा है। यदि विदेशी कम्पनी के पास ४९ प्रतिशत हिस्से भी रहे, तब भी उसके पाम इतनी बोटें होंगी कि नियंत्रण कभी उसके हाथ से नहीं निकलने पायेगा।”

अमरीका का चार-सूत्री कार्यक्रम

१९४८ के अन्त तक अमरीका भारत सरकार को झुकाने के लिये राबबर दवाव डालता रहा, परन्तु पूजा या मदद के नाम पर हिन्दुस्तान में कुछ नहीं आया। /

१९४९ में अमरीका ने अपनी योजना सामने रखी। यह राष्ट्रपति ट्रूमन का प्रसिद्ध चार-सूत्री कार्यक्रम था। भारत और पाकिस्तान के ऊँचे सरकारी क्षेत्रों में तुरन्त उसके स्वागत में ढोल बजने लगे। दोनों देशों के धान मंत्रियों ने नयी योजना की प्रशंसा की। अमरीका में भारतीय राजदूत भीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस योजना से शिया में कम्युनिज्म का मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलेगी।

इस चार सूत्री कार्यक्रम की असलियत को समझने के लिये पहले प्रचार में कोहरे को छँटना पड़ेगा।

कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रूमन का यह कार्यक्रम एक “नवीन और सहसी” योजना है। पर वास्तव में यह न तो नवीन है और न साहसी। खड़े हुए देशों में चन्द विशेषज्ञ भेज देना कोई साहस की बात नहीं है। यही ही एक योजना १९४२ से दक्षिणी अमरीका में कार्यान्वित हो रही है। उसका परिणाम क्या हुआ है? यही कि तेल के कुँओं, केले के बागानों,

और खानों से अमरीकी पूंजी हर साल करोड़ों का मुनाफा कमाती जा रही है, और दक्षिण अमरीका आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है जितना दस वर्ष पहले था।

दूसरे, यह चार-सूत्री कार्यक्रम एक राजनीतिक योजना है। अमरीकी शासक स्वयं बार-बार यह दावा कर चुके हैं कि यह पिछड़े हुए देशों में कम्युनिज़्म की बाढ़ को रोकने का नुस्खा है। राष्ट्रपति ट्रुमन ने भी जनवरी १९४९ में चार-सूत्री कार्यक्रम की तारीफ में कहा था कि उससे “दृष्टे सिद्धान्तों” को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इस चार-सूत्री कार्यक्रम के पहले सचालक मि. वेनिक ने उसे “ठण्डे युद्ध का अस्त्र” बताया था।

तीसरे, यह चार-सूत्री कार्यक्रम औद्योगीकरण की योजना नहीं है। उससे सम्बंधित एक सरकारी प्रकाशन में साफ-साफ कहा गया है

“ये इलाके (पिछड़े हुए देश) चूकि आजकल अधिकतर खेतिहर देश हैं और उनके निवासी खाने के लिये अपनी खेती की उपज पर और घरों के लिये अपने जंगलों की पैदावार पर निर्भर करते हैं, इसलिये इन इलाकों में जो योजनाएँ चलायी जायें, उनमें खेती और जंगलों की व्यवस्था को सुधारने पर ही अधिक जोर देना चाहिये।”
(‘चार-सूत्री कार्यक्रम,’ पृष्ठ २१)

अमरीका और संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से कार्यान्वित किये जानेवाले चार-सूत्री कार्यक्रम के लिये, अमरीकी सरकार के वैदेशिक विभाग ने पहले साल में ५,७०,८०,००० डालर खर्च करने का प्रस्ताव किया था। उद्योगों के लिये उसमें से केवल ५०,६३,६९४ डालर खर्च होनेवाला था।

जब कभी किसी पिछड़े हुए देश ने तेजी से अपना औद्योगीकरण करना या भारी उद्योगों को बढ़ाने का इरादा जाहिर किया, तभी अमरीका ने नाक-भौं चढ़ा लिया और गलाह दी कि पहले खेती और हलके उद्योगों को ओर ध्यान देना चाहिये।

अमरीकी पूंजीपतियों का भी ऐसा ही रुख है। यह इससे जाना जा सकता है कि १९४६ और १९४९ के बीच विदेशों में उन्होंने किन चीजों में पूंजी लगायी है। इन काल में विदेशों में कुल ४ अरब १० करोड़ डालर की

पूंजी लगायी गयी। उसमें से आधे से अधिक तेल के कुँओं में लगायी गयी। सभी प्रकार के उद्योगों में ३० प्रतिशत से भी कम पूंजी लगायी गयी है।

पाकिस्तान सरकार के सामने अमरीका की स्टील एक्सपोर्ट कम्पनी ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अमरीका यह बिलकुल नहीं चाहता कि पिछड़े हुए देशों का औद्योगीकरण हो। कम्पनी ने अपनी रिपोर्ट में “अधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं के खिलाफ चेतावनी दी।” वह इस परिणाम पर पहुँची कि पाकिस्तान में “इस्पात बनाने के किसी बड़े कारोबार को शुरू करने का कोई ऐसा आधार नहीं है जो आर्थिक या सैनिक दृष्टि से सही हो।” इसलिये, उसने सलाह दी कि पाकिस्तान के लिये “बुद्धिमानी इसी बात में है कि वह अपनी ज़रूरत का अधिकतर इस्पात विदेशों से मगाता रहे।”

चौथे, यह चार-सूत्री कार्यक्रम, वास्तव में, उन कच्चे मालों की पैदावार बढ़ाने की योजना है जिनकी अमरीका को सदा ज़रूरत रहती है। अमरीकी पाक्षिक पत्र **दि रिपोर्टर** ने चार-सूत्री कार्यक्रम के बारे में अपना एक विशेषांक निकाला था। उसमें यह बात इन शब्दों में समझायी गयी थी

“आवश्यकता इस बात की है कि कच्चे माल हमें ज़रूरत के मुताबिक मिलते रहें, पर इसके लिये हमें उन देशों को जीतना या उन पर शासन न करना पड़े जिनमें ये कच्चे माल मिलते हैं।”
(२६ अप्रैल, १९४९)

चार-सूत्री कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रपति ट्रुमन को सलाह देने के लिये एक “अन्तर्राष्ट्रीय विकास सलाहकार बोर्ड” बनाया गया था। उसके अध्यक्ष रौकफेलर ने २१ मार्च १९५१ में एक भाषण देते हुए कहा था

“इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो पूंजी बाहर जा रही है... वह वास्तव में, देश रक्षा के लिये आवश्यक कच्चे माल में लगायी जा रही है, क्योंकि हमारे उत्पादन के लिये जो बुनियादी सामान चाहिये, वे दूसरे देशों में मिलते हैं।” (‘न्यू यौर्क टाइम्स’)

रौकफेलर बोर्ड की रिपोर्ट में जो मार्च १९५१ में ही प्रकाशित हुई थी, पिछड़े हुए देशों के उत्पादन में पहला स्थान खाने की चीजों को दिया

गया था। बोर्ड की दूसरी सिफारिश यह थी कि पिछड़े हुए देशों में अगले चन्द वर्षों में २०० करोड़ डालर की प्राइवेट पूंजी इस उद्देश्य को सामने रखकर लगायी जाय कि इन देशों से सैनिक दृष्टि से आवश्यक जो कच्चा माल योरप और अमरीका को आता है, उसमें १०० करोड़ डालर प्रति वर्ष के मूल्य की वृद्धि हो जाय।

अन्त में, यह चार-सूत्री कार्यक्रम बुनियादी तौर पर विदेशों में अधिकाधिक निजी अमरीकी पूंजी लगाने का कार्यक्रम है। जैसा कि अमरीकी सरकार के वैदेशिक विभाग के प्रकाशन की पुस्तिका में कहा गया था

“ परन्तु, (इस योजना में) विशेष ध्यान विदेशों में पहले से बहुत अधिक अमरीकी प्राइवेट पूंजी भेजने की ओर दिया गया है। ”
(चार-सूत्री कार्यक्रम, पृष्ठ ४)

वैदेशिक विभाग आगे कहता है कि विदेशों में अधिक पूंजी भेजना

“ इस बात पर निर्भर है कि वे खतरे मिट जायें या कम हो जायें जिनके कारण पूंजी लगाने वाले लोग कई दूसरे देशों में उद्योग-धंधे खोलने या उनमें भाग लेने से घबराते हैं।

“ वे चीजें जो उन्हें पूंजी लगाने से रोकती हैं, ये हैं वर्तमान सप्ताह की दुलमुल राजनीतिक परिस्थिति, पूंजी को और मुनाफे को विदेशों से हटाने के रास्ते में आनेवाली रुकावटें, बिना मुआवजा सम्पत्ति के छिन जाने का खतरा, और विदेशी कम्पनियों पर सरकारों द्वारा लगाये गए तरह-तरह के बंधन।

“ इन क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुरक्षा की परिस्थिति पैदा करने के लिये जो कोशिशें हो रही हैं, उनके द्वारा उपरोक्त खतरों को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी सरकारों के साथ ऐसी दो-पक्षी संधियां करने के लिये बातचीत चल रही है जिनके द्वारा एक-दूसरे को उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार का आश्वासन मिलेगा और पूंजी लगानेवाला दुहरे करों के बोझ से मुक्त हो जायगा। इन संधियों से विदेशों में पूंजी लगाने के लिये आवश्यक घातावरण तैयार होगा और पूंजी लगानेवालों के मन में विश्वास पैदा होगा। ” (वही पुस्तिका, पृष्ठ ६)

अतः चार-सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध “ वर्तमान सत्कार की अस्थिर हालत ” से है, और उसका सम्बन्ध है — दृढ सिद्धान्त, मार्शल योजना, अटलान्तिक गुट, प्रशान्त सधि जैसी अमरीका की सैनिक एवं राजनीतिक योजनाओं से। उसके लिये भी विदेशी सरकारों से विभिन्न प्रकार के आश्वासन पाना आवश्यक होता है ताकि “ विदेशों में पूजा लगाने के लिये आवश्यक वातावरण तैयार हो जाय । ”

ये आश्वासन किस प्रकार के होते हैं ? इसका कुछ आभास उस बातचीत के दौरान में मिलता है जो नवम्बर १९४७ से भारत और अमरीका के बीच “ मित्रता, व्यापार और जहाजरानी की सधि ” करने के उद्देश्य से चल रही है। अमरीका ने माग की कि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने भालपर कम चुगी लगाने की व्यवस्था खतम की जाय, क्योंकि उससे अमरीकी प्रतियोगिता के मुकाबले में ब्रिटिश हितों की रक्षा होती है। इसके अलावा

“ सधि के मसविदे में ये बातें हैं एक देश में दूसरे देश के नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, व्यापारिक सम्बन्धों, व्यापार के रास्ते में आनेवाली रुकावटों और विनिमय नियंत्रण के बारे में एक देश दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, विदेशियों पर देशी अदालतों का कितना अधिकार रहेगा, विदेशियों की सम्पत्ति की रक्षा का क्या प्रबन्ध होगा और उन पर लगनेवाले करों की क्या व्यवस्था होगी। ”
(“ हिन्दुस्तान टाइम्स ” २८ जून, १९४८)

अखबारों में छपे समाचारों से पता चला कि इन बातों के बारे में अमरीका ऐसी शर्तें लगा रहा है कि भारत सरकार उन्हें मानने में असमर्थ है।

चार-सूत्री कार्यक्रम के रूप में अमरीका ने खुलेआम अपनी शर्तों का ऐलान कर दिया है। दो-पक्षी सधियों के द्वारा अमरीकी पूजा को क्या क्या आश्वासन चाहिये, यह और भी स्पष्ट रूप में अमरीका के उद्योगपतियों के राष्ट्रीय सघ (नेशनल एसोसियेशन ऑफ मैनुफैक्चरर्स) ने २४ मई, १९४९ को बता दिया था

“ १ सधि करनेवाली सरकारों की मुद्राओं को सुदृढ बनाने के लिये क्या किया जायगा, इसके बारे में स्पष्ट आश्वासन मिल जाना चाहिये ।

गया था। बोर्ड की दूसरी सिफारिश यह थी कि पिछड़े हुए देशों में अगले चन्द वर्षों में २०० करोड़ डालर की प्राइवेट पूंजी इस उद्देश्य को सामने रखकर लगायी जाय कि इन देशों से सैनिक दृष्टि से आवश्यक जो कच्चा माल योरप और अमरीका को आता है, उसमें १०० करोड़ डालर प्रति वर्ष के मूल्य की वृद्धि हो जाय।

अन्न में, यह चार-सूत्री कार्यक्रम बुनियादी तौर पर विदेशों में अधिकाधिक निजी अमरीकी पूंजी लगाने का कार्यक्रम है। जैसा कि अमरीकी सरकार के वैदेशिक विभाग के प्रकाशन की पुस्तिका में कहा गया था

“ परन्तु, (इस योजना में) विशेष ध्यान विदेशों में पहले से बहुत अधिक अमरीकी प्राइवेट पूंजी भेजने की ओर दिया गया है। ”
(चार-सूत्री कार्यक्रम, पृष्ठ ४)

वैदेशिक विभाग आगे कहता है कि विदेशों में अधिक पूंजी भेजना

“ इस बात पर निर्भर है कि वे खनारे मिट जायें या कम हो जायें जिनके कारण पूंजी लगाने वाले लोग कई दूसरे देशों में उद्योग-धंधे खोलने या उनमें भाग लेने से घबराते हैं।

“ वे चीजें जो उन्हें पूंजी लगाने से रोकती हैं, ये हैं वर्तमान ससार की दुलमुल राजनीतिक परिस्थिति, पूंजी को और मुनाफे को विदेशों से हटाने के रास्ते में आनेवाली रुकावटें, बिना मुआवजा सम्पत्ति के छिन जाने का खतरा, और विदेशी कम्पनियों पर सरकारों द्वारा लगाये गए तरह-तरह के बंधन।

“ इन क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुरक्षा की परिस्थिति पैदा करने के लिये जो कोशिशें हो रही हैं, उनके द्वारा उपरोक्त खतरों को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी सरकारों के साथ ऐसी दो-पक्षी सधिया करने के लिये बातचीत चल रही है जिनके द्वारा एक-दूसरे को उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार का आश्वासन मिलेगा और पूंजी लगानेवाला दुहरे करों के बोझ से मुक्त हो जायगा। इन सधियों से विदेशों में पूंजी लगाने के लिये आवश्यक वानावरण तैयार होगा और पूंजी लगानेवालों के मन में विश्वास पैदा होगा। ” (वही पुस्तिका, पृष्ठ ९)

और यदि अमरीकी पूंजी अधिकतर व्यापार में न लगी हो, तो भी उससे भारत की अर्थ-व्यवस्था का कोई लाभ न होगा। दक्षिणी अमरीका के देशों में, फ़िलीपाइन में, और मध्य-पूर्व के देशों में अमरीकी पूंजीपतियों ने अरबों की पूंजी, लगायी, मगर उससे इन देशों की जनता के रहन-सहन में जरा भी सुधार नहीं हुआ। हरवर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, जे कें गॉलब्रेथ ने लिखा है

“ विदेशों में पूंजी वही लगायी गयी है, जहाँ अमरीकी उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी, जैसे तेल, ताबा, कच्चा लोहा, रबड़ आदि। उससे योड़ी कम, फिर भी बहुत काफ़ी पूंजी अमरीकी माल बेचने की व्यवस्था करने और अमरीकी कारखानों की शाखाएँ खोलने के सिलसिले में लगी है। .. कनाडा को छोड़ कर, और किसी देश में अमरीका ने ऐसे उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगायी है जिसे उस देश की अर्थ-व्यवस्था का लाभ होता हो। ” (‘ चार-सूत्री कार्यक्रम के बारे में,’ पृष्ठ ५१)

यदि अमरीकी पूंजीपतियों ने उतनी पूंजी पिछड़े हुए देशों में लगाना पसन्द नहीं किया जितनी कुछ लोग चाहते थे, तो उसका कारण यह नहीं है कि उन्हें कम मुनाफ़ा होने का अन्देश था। साधारणतः विदेशों में लगी हुई पूंजी पर देश में लगी हुई पूंजी से ज़्यादा ही मुनाफ़ा होता है। अमरीकी पूंजी की हिचकिचाहट का केवल एक ही कारण था, वह अधिक से छुविधाएँ वसूल कर लेना चाहती थी। यह चार-सूत्री कार्यक्रम बेहतर सुविधाएँ पाने का तरीका था।

इसलिये कोई आश्चर्य नहीं यदि अमरीका के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मुक्त कंठ से इस कार्यक्रम का स्वागत किया। अमरीका की सबसे बड़ी कम्पनियों के सच, ‘ नेशनल एसोसियेशन ऑफ मैनुफैक्चरर्स ’ ने एक बार बड़ी शान के साथ दावा किया था कि उसने सबसे पहले ट्रुमन के चार-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया था।

भारत का आत्म-समर्पण

चार-सूत्री कार्यक्रम का दबाव पड़ने पर भारत सरकार को झुकने में बहुत देर न लगी। १९४९ में जो मन्दी आयी और अमरीका ने मदद दे-

से जिस तरह इनकार करना शुरू किया, उससे भारत सरकार का हाथ पैर और फूल गया ।

अमरीका के कहने के अनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीकरण के कार्यक्रम को एक तरह से तिलाजलि दे दी । पंडित नेहरू ने ४ मार्च, १९४९ को 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कौमर्स' की बैठक में कहा कि अखशख्तों के कारखानों, अणु-शक्ति से सम्बंधित उद्योगों और रेलों के सिवा और सभी उद्योगों के राष्ट्रीकरण का विचार अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

५ अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि सरकार मौजूदा कारखानों को दस साल के बाद भी नहीं छुएगी । २१ अगस्त को अमरीका में "नार्थ अमरीकन न्यूज़पेपर अलायेंस" के सामने बोलते हुए नेहरू ने कहा कि "मुख्य उद्योगों को राज्य की सम्पत्ति बनाने के बारे में पहले हमारी जो भी योजना रही हो, लेकिन कम से कम अगले दस साल तक किसी तरह की कार्रवाई करने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।" २७ अगस्त को उन्होंने कहा कि बहुत लम्बे अरसे के बाद कहीं राष्ट्रीकरण का वक्त आयेगा ।

अगस्त में ही सेठ घनश्यामदास विड्डला ने अमरीकी पूजा को भारत के मुख्य उद्योगों में घुसने की दावत दी । भारत-अमरीका सम्मेलन में एक निवचन पढते हुए उन्होंने कहा

"मेरी राय में (दोनों देशों के पूजापतियों का) सहयोग केवल बड़ी-बड़ी चीजों में होना चाहिये, जैसे इस्पात, भारी कैमिकल, भारी इंजिनियरिंग, आदि में, और ऐसे उद्योगों में जिनमें कई करोड़ की बड़ी पूजा की आवश्यकता हो और जिनके लिये आवश्यक टेकनिकल विशेषज्ञ भारत में न मिलते हों.. ।

"और यह सहयोग, मेरी दृष्टि में, दोनों तरफ की प्राइवेट पूजावादी कमनियों के बीच होना चाहिये ।" (सायक्लोस्टाइल लेख, पृ २)

अब भारत सरकार की नीति राष्ट्रीकरण करने की नहीं, बल्कि उमकी उन्ती है । १९५२ के शुरू में हैदराबाद के मुख्य मंत्री एम० के० वैलोडी ने न किय कि उनके राज्य सरकार की नीति यह है कि जो उद्योग

सार्वजनिक उपयोग की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक नहीं है, उनका प्रबंध करन सरकार बन्द कर देगी।

पाकिस्तान सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि आगे वह किमी उद्योग का राष्ट्रीकरण नहीं करेगी।

अमरीका की दूसरी माग यह थी कि विदेशी पूंजी के साथ देशी पूंजी जैसा व्यवहार किया जाय। ६ अप्रैल, १९४९ को पंडित नेहरू ने पार्लामेंट के अन्दर कहा था

“जहाँ तक विदेशी कम्पनियों का सवाल है, सरकार उन पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती जो उसी प्रकार की भारतीय कम्पनियों को मजूर न हों। और सरकार अपनी नीति इस तरह निश्चित करेगी जिससे दोनों पक्षों का हित साधन करनेवाली शर्तों पर और भी अधिक विदेशी पूंजी भारत में आ सके।

“विदेशी कम्पनियों को मुनाफ़ा कमाने की इजाजत होगी, उन पर केवल ऐसे नियम लागू होंगे जो सभी कम्पनियों को मानने पड़ते हैं। मुनाफ़े की रकम विदेश भेजने की जो सुविधाएँ आजकल मिली हुई हैं, उन्हें किसी तरह कम नहीं किया जायगा और पहले से लगी विदेशी पूंजी को हटाने पर भी सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगायेगी परन्तु यदि किसी विदेशी कम्पनी को सरकार ने अपने कब्जे में लेने का फैसला किया, तो जैसा कि सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है, उसका उचित दर पर मुआवज़ा दिया जायगा।”

जैसा कि पार्लामेंट में कांग्रेस पार्टी के दफ़्तर मंत्री ने कहा है

“विदेशी पूंजी के बारे में प्रधान मंत्री के १९४९ के बयान के बाद, योजना समिति के पहले के सभी बयान (विदेशी पूंजी के बारे में) बेमतलब हो जाते हैं।” (‘टुआर्डस प्लानिंग,’ पृष्ठ ११२)

इस तरह, भारत सरकार और भारत के बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने अपनी नीति को चिल्कुल उलट दिया।

पंडित नेहरू के बयान के एक सप्ताह बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नाथीमुद्दीन ने कराँची चेम्बर ऑफ़ कौमर्स के सामने बोलते हुए कहा कि

पाकिस्तान सरकार ऐसी कम्पनियों के साथ कोई मेदभाव नहीं बरतना चाहती जिनकी जड़ें विदेशों में हों।

और भारत में तो यह समानता उन जुगियों पर भी लागू कर दी गयी जो विशेष रूप से विदेशी प्रतियोगिता से भारतीय उद्योगों की रक्षा करने के लिये लगाये गये थे। जुलाई १९४९ में एक सरकारी नोट में बताया गया

“जब किसी विशेष उद्योग की रक्षा का प्रबंध किया जाता है, तो उस उद्योग की सभी शाखाओं को, चाहे वे भारतीयों की सम्पत्ति हों, चाहे विदेशियों की, उस प्रबंध से लाभ उठाने का अवसर दिया जाता है।” (‘हिन्दू,’ १७ जुलाई)

इस प्रकार, अल्यूमीनियम, मोटर की बैटरी और दूसरी अनेक चीजें बनानेवाली अमरीकी कम्पनियों को, भारतीय जनता को छूट-छूटकर अपनी थैलियाँ भरने की आजकल पूरी छूट है और भविष्य में यहाँ आनेवाले अमरीकी पूँजीपतियों को भी यह छूट रहेगी।

परन्तु अमरीकावालों को इतने से भी सतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत सरकार के घोषणा करने से हमें विश्वास नहीं होता, दोनों सरकारों के बीच वाक्यादा एक ऐसा समझौता हो जाना चाहिये जिसमें भारतीय और अमरीकी पूँजी के साथ समान व्यवहार करने की बात हो। दिसम्बर, १९४९ में जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ था और जिसमें दोनों देशों के कई बड़े पूँजीपति शरीक हुए थे, उसकी रिपोर्ट से यह बात निश्चिन्त माफ़ हो जाती है। रिपोर्ट के अंश देखिये

“व्यापार एवं मित्रता की प्रस्तावित भारत-अमरीका कुठ विस्तार से बहस हुई। परन्तु अमरीकी पूँजी की समझौता न हो सका कि उसके साथ राष्ट्रीय पूँजी जैसा चालिये।”

“कुठ अमरीकियों का भारत की नीति माफ़ नहीं होनी चाहिये। परन्तु, कि जबतक मंथि नहीं हो नहीं लगायी जा स

कि जबतक ह
तबतक सधि की
यों ने यह बात
की प्राइवेट
देशों की

पूरी तरह से एकरमत हुए बिना वह वातावरण नहीं तैयार हो सकता जो अमरीकी पूजी के भारत आने के लिये आवश्यक है ।' (सम्मेलन की कार्यवाही की रिपोर्ट, पृष्ठ १५-१६)

अमरीकावालों की तीसरी माग यह थी कि वह नियम खतम कर दिया जाय जिसके कारण कुछ उद्योगों में ५१ प्रतिशत पूजी भारतीयों की होना आवश्यक होता है । ९ अगस्त, १९४९ को अमरीका के अर्थ मंत्री ने कहा था कि ५१ प्रतिशत वाला नियम, विदेशों में अमरीकी पूजी लगाने के रास्ते में " बहुत बड़ी बाधा " बना हुआ है । दिसम्बर के भारत-अमरीका सम्मेलन में अमरीकी प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी उद्योगों में अधिकतर पूंजी अमरीकी ही होनी चाहिये । सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार

“ (भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से) बताया गया कि गत काल में अमरीकी पूंजी ने अल्पमत में रहते हुए भी भारत में आना स्वीकार किया था और इस आधार पर महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्योग यहाँ स्थापित करने में मदद दी थी । यहाँ तक कि युद्ध-काल में भी उसने यही किया .।

“ परन्तु, अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के कुछ सदस्यों की यह निश्चित राय थी कि अब परिस्थिति और लोगों के रुख बदल गये हैं । अब अमरीकी पूंजीपति हर ऐसे उद्योग में जिसमें काफी पूजी लगानी हो, अधिकतर हिस्से अपने हाथ में रखने पर जोर देते हैं । उन्हें सरकारी नियंत्रण पसन्द नहीं और राष्ट्रीकरण के खतरे से उन्हें भय लगता है । इसके अनेक उदाहरण दिये गये । बताया गया कि दक्षिणी अमरीका के देशों में कई महत्वपूर्ण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में अमरीकी पूंजीपतियों ने अल्पमत के आधार पर रहने से इनकार कर दिया और अपनी पूंजी हटा ली । पिछले चन्द सालों में अमरीकी पूंजी निश्चित रूप से बहुत सतर्क हो गयी है ।... इसके अलावा, अमरीकी पूजी अब देश रक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों पर अधिक ध्यान देती है । ”
(भारत-अमरीका सम्बन्ध, पृष्ठ १२-१३)

परन्तु यह ५१ प्रतिशत का नियम भी जल्द ही अमरीकी पूंजीपतियों को हटा करने के लिये बदल दिया गया । जुलाई १९४९ में भारत के उद्योग मंत्री

ने बताया कि कुछ विशेष उद्योगों में इस नियम को न लागू करने का निश्चय किया गया है। १८ अगस्त १९४९ को कैपिटल ने लिखा

“ इस मामले में भारत की स्थिति साफ़ कर दी गयी है। लगभग आधे दर्जन उद्योगों को छोड़ कर बाकी उद्योगों में भारत को कोई आपत्ति न होगी यदि उनमें हिन्दुस्तानियों, अंग्रेजों या अमरीकियों के बहुमत के हाथों में नियंत्रण हो। ‘मुख्य उद्योगों’ को छोड़ कर बाकी सभी उद्योग लगभग स्वतंत्र क्षेत्र में माने जायेंगे।

“ विदेशियों को ‘सुरक्षित’ क्षेत्र में भी भाग लेने की सुविधा दी जा सकती है। यद्यपि सरकार तो इन उद्योगों पर शत प्रतिशत अथवा बहुसंख्यक नियंत्रण रखना पसन्द करेगी, परन्तु यदि उनके तीव्र विकास के लिये अथवा आर्थिक कारणों से यह आवश्यक होगा तो मूल योजना में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ”

सितम्बर १९४९ में स्थिति और भी ‘साफ’ हो गयी। भारत सरकार ने एक बयान में कहा

“ भारत सरकार की नीति है कि औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी को स्वतंत्रता-पूर्वक आकर काम करने दे। कम से कम समय में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी यहाँ आये, इसकी प्रत्येक कोशिश की जायगी। भारत सरकार ने साफ-साफ़ ऐलान कर दिया है कि कुछ उद्योगों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में गैर-हिन्दुस्तानियों का बहुमत होना लाजिमी तौर पर देश-हित के खिलाफ नहीं माना जायगा। ”
 (‘हिन्दू,’ १९ सितम्बर, १९४९)

वाशिंगटन में ८ मई, १९५० को नेशनल प्रेस क्लब के सामने बोलते हुए प्रधान मंत्री लियाकत अली ख़ान ने भी इसी प्रकार की नीति की घोषणा की।

“ उन्होंने बताया कि बहुत कम उद्योगों को सरकारी स्वामित्व के लिये सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में यातायात और दो-तीन दूसरी चीज़ों का जिक्र किया और कहा कि बाकी उद्योग स्वतंत्र पज़ के लिये खुले हैं। फिर उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि यदि देश, पूंजी नहीं आती तो कोई कारण नहीं कि पूरी पूंजी, उदाहरण

के लिये, अमरीका से ही क्यों न मगा ली जाय।" ('न्यू यॉर्क टाइम्स,' ५ मई, १९५०)

अन्त में, भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों ने विदेशी कम्पनियों को मुनाफे की रकमों देश से बाहर ले जाने की सुविधा भी दे दी। २ जून, १९५० को भारत के अर्थ सचिवालय ने ऐलान किया कि १ जनवरी, १९५० के बाद लगायी गयी अमरीकी पूँजी, मय उद्योगों में लगाये गये मुनाफे के बाहर भेजी जा सकती है।

भारतीय उद्योगों पर कुठाराघात

अमरीकी पूँजी को दी गयी इन सभी सुविधाओं का कुल चटे भारतीय पूँजीपतियों ने समर्थन किया। यही नहीं, उन्होंने जोरों के साथ कोशिश की कि अमरीकी सेठों को ये सुविधाएँ सरकार से मिल जायें। वास्तव में, ये लोग भारतीय सरकार की स्थापना होने के पहले ही विदेशी पूँजी से मिल गये थे। लड़ाई के जमाने में, उन्होंने अंग्रेजों के युद्ध उद्योग से सहयोग करके मुनाफा कमाया था। अब वे अन्तर्राष्ट्रीय "ठण्डे युद्ध" से, और सम्भव "गरम युद्ध" से, सहयोग करके नफा कमाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि शक्तिशाली अमरीकी कम्पनियों से सम्पर्क बढ़ने पर उनकी ताकत भी बढ़ जायेगी और वे पड़ोसी देशों के बाजारों में घुसने में सफल होंगे।

परन्तु, छोटे उद्योगपतियों के हितों को इन सुविधाओं से धक्का लगा। उनके लिये तो भारत सरकार की नीति अंग्रेज सरकार की नीति से भी अधिक घातक थी। अंग्रेज सरकार केवल अंग्रेज पूँजीपतियों का पक्ष लिया करती थी। परन्तु यह नयी भारतीय सरकार तो अंग्रेजों के साथ-साथ अमरीकी पूँजीपतियों को भी सुविधाएँ दे रही थी। छोटे उद्योगपतियों को डर था कि विदेशी पूँजी भारतीय उद्योगों का गला घोट देगी और भारत की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर छा जायेगी।

अमरीकी पत्र बिज़नेस वीक ने भी स्वीकार किया कि इस सवाल पर भारतीय पूँजीपतियों में मतभेद था। विदेशी पूँजी को निमंत्रण देते हुए प० नेहरू ने राष्ट्रीकरण के विरुद्ध जो घोषणाएँ की थीं, उन पर टिप्पणी करते हुए इस पत्र ने २२ अक्टूबर, १९४९ को लिखा

“ हो सकता है कि ‘ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर अ एण्ड इन्डस्ट्रीज ’ उनका (प० नेहरू का) विरोध करे । इ अनेक सदस्यों को आशका है कि कहीं उनके घर में ही विदे-प्रतियोगिता न करने लगे । दूसरी धोर, टाटा वाले चाहते हैं कि कम्पनियाँ यहाँ भारी मात्रा में पूंजी लगायें—यहाँ तक कि के उद्योग में भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं । ”

उपरोक्त फेडरेशन ने १९५० के अन्त में भारत सरकार के पा माग-पत्र मेजा था जिसमें उसने इस बात की आलोचना की थी -

“ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कुछ विभाग वह सामान भी देशी कम्पनियों से मिल सकता है, विदेशी कम्पनियों से ख ज्यादा पसन्द करते हैं । ”

अंग्रेजों के राज में भी भारतीय व्यापारी इसी तरह की शिकायतें करते थे । इससे प्रकट होता था कि नयी सरकार अधिकतर भारतीय पूंजीपतियों की परवाह नहीं करती थी, बल्कि चन्द बहुत बड़े भारतीय पूंजीपतियों विदेशी सेठों पर निर्भर करती थी और उन्हीं का पक्ष लेती थी ।

भारत की योजनाएँ अमरीका की सलाहों पर बनने लगीं

विदेशी पूंजीपतियों और उनके भारतीय सहयोगियों पर निर्भर रहने कारण न केवल भारत सरकार ने उन्हें अनेक सुविधाएँ देनी पड़ी, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का स्वरूप ही बदल गया ।

भारत की आर्थिक योजनाएँ प्रायः कार्यान्वित नहीं होतीं । इसलिये, उन पर बहम करना बेमूद मालूम हो सकता है । परन्तु इन योजनाओं से जो नकशा तैयार होता है, वह साफ अमरीका में बना मालूम पड़ता है । अगर हाल की योजनाओं पर अमल किया गया तो न सिर्फ मौजूदा आर्थिक परिस्थिति पर उमका असर पड़ेगा, बल्कि आनेवाले अनेक वर्षों के लिये भारत का भावपूर्ण अधःपतन हो जायगा । विदेशी पूंजी ने यदि यहाँ पैर जमा करे तो उमसे न केवल भारत का आर्थिक विकास कुठिल हो जायगा — जैसा कि युद्ध के पत्तलेवाली राष्ट्रीय योजना समिति ने माना था—बल्कि १९४० की विद्योगी रिपोर्ट के शब्दों में, चकि “ एक बार जम जाने पर

विदेशी स्वार्थों को हटाना मुश्किल होगा”, इसलिये आगे चलकर उससे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और प्रगति की लड़ाई भी कठिन हो जायगी ।

१९४८ के ऊटी सम्मेलन (एशिया और सुदूर पूर्व के लिये राष्ट्र सब ने एक आर्थिक कमीशन बना रखा है, १९४८ में उसका अधिवेशन ऊटकमड या ऊटी में हुआ था —अनु०) में डॉ ग्रेडी के भाषणों के बाद से अमरीकी लगातार हमें यह ‘सलाह’ देते आये हैं कि भारत में भारी उद्योगों को बढ़ाने की बात सोचना मूर्खता है, हमें खेती, खानों और यातायात पर जोर देना चाहिये और अमरीका इन कामों में हमारी मदद करने को तैयार है । भारत सम्बंधी चार-सूत्री कार्यक्रम का चुनियादी रुख भी यही है ।

हिन्दुस्तानियों को साम्राज्यवाद का कई पीढियों का अनुभव है । वे इस रवैये के पीछे छिपी हुई चाल को अच्छी तरह समझ सकते हैं । अमरीका को भारत की खेती और खानों में इसलिये दिलचस्पी है कि वह अपने उद्योगों तथा लड़ाई का सामान बनानेवाले कारखानों के लिये यहाँ से कच्चा माल पाना चाहता है । उसे भारत के यातायात में इसलिये दिलचस्पी है कि भारतीय उपज को यहाँ से ले जाने और अमरीकी माल का यहाँ वितरण करने के लिये तथा सैनिक दृष्टि से भी उसे अच्छे यातायात की आवश्यकता है । यदि हम अमरीकी सरकार तथा पूंजीपतियों के स्वार्थों को अनदेखा भी कर दें, तो भी पिछले अनुभव से यह बात हमारी समझ में आ ही जानी चाहिए कि सिर्फ रेलें और बांध बनाने से ही किसी देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं बनती । अंग्रेजों ने भी भारत में सबसे ज्यादा रुपया इन्हीं चीजों पर खर्च किया था । पर हज़ारों मील लम्बी रेलें और अनेकों बांध बनने के बाद भी हिन्दुस्तान अधिकाधिक गरीब ही होता गया ।

सचमुच यह एक अजीब बात है कि भारतीय सरकार तथा पूंजीपतियों के नेता अब ठीक उस तरह काम करते हैं जैसे भारत में पहले अंग्रेज किया करते थे और बातें उस तरह करते हैं जैसे आजकल अमरीकावाले करते हैं । उदाहरण के लिये, हाल में उन्होंने जो कई योजनाएँ बनायी हैं, उनकी तुलना करके देखिये । १९४४ में, विदेशी पूंजी से बातचीत शुरू करने से थोड़ा पहले भारत के बड़े पूंजीपतियों ने बम्बई योजना बनायी थी । उसी वर्ष छोटे पूंजीपतियों की संस्था, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स औरगनाइजेशन ने विश्वेश्वरैया योजना तैयार की । गांधीवादियों की ओर से डा० एस एन.

अग्रवाल ने एक योजना बनायी है। और १९५१ में सरकार की राष्ट्रीय योजना समिति ने पंच-वर्षीय योजना तैयार की है। नीचे, इनकी तुलना देखिये

| योजना | उद्योगों पर कितना प्रतिशत खर्च होगा | खेती पर कितना प्रतिशत खर्च होगा | यातायात पर कितना प्रतिशत खर्च होगा |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| बम्बई | ४४८ | १२४ | ९४ |
| विश्वेश्वरैया | ५६४ | १४३ | ७९ |
| गांधीवादी | ३६५ | ३२८ | ११२ |
| रा योजना समिति | ९८ | ३३० | ३८२ |

देखा आपने, खेती और यातायात पर खर्च का भाग हर योजना में बढ़ता ही जाता है। आधुनिक मनोवृत्ति वाले पं० नेहरू तथा उद्योगपतियों के योजना कमीशन ने खेती पर गाँव-प्रेमी गांधीवादियों से भी अधिक खर्च करने की योजना बनायी है। दूसरी ओर, उद्योगों पर खर्चा इतना कम रखा गया है कि उससे पैदावार मौजूदा स्तर पर भी कायम न रह पायेगी। १९५१ की सरकारी योजना में शायद एक ही गुण है, वह यह कि उसने कोई बहुत ऊँचा लक्ष्य अपने सामने नहीं रखा है। इस पंच-वर्षीय योजना का उद्देश्य इससे अधिक कुछ नहीं है कि युद्ध के पहले के जीवन-स्तर पर देश फिर पहुँच जाय।

बम्बई योजना में ७७ प्रतिशत रकम विदेशों से कर्ज लेने की बात थी। गांधीवादी योजना पूरी तरह देशी साधनों पर निर्भर करती थी। राष्ट्रीय योजना समिति की योजना ४० प्रतिशत रकम विदेशों से पाने की आशा करती है। विदेशी मदद के बिना तो उसे मौजूदा जीवन-स्तर को भी कायम रखने की आशा नहीं है। इसीसे देखा जा सकता है कि इस योजना समिति को भारतीय जनता की शक्ति में कितना विश्वास है!

और हाल में तो भारत सरकार ने उद्योगों की ओर से लापरवाही बरतने में इस समिति के भी कान काट लिये हैं। १९४७ से लेकर १९५१ तक के ४ वर्षों में सरकार ने उद्योगों पर जितना खर्च किया (३६ करोड़ रुपये), वही उम्मेदगुल खर्च (१,१३० करोड़ रुपये) का केवल ३ प्रतिशत था।

भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी

अमरीका और भारत दोनों देशों के बड़े पूंजीपतियों ने हमारे देश की 'आर्थिक कठिनाइयों का यह हल निकाला है कि किसी तरह बहुत सी अमरीकी पूंजी यहाँ लायी जाय ।

२८ अप्रैल, १९४९ को वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कम्पनी के उपाध्यक्ष ने न्यू यॉर्क के बोर्ड ऑफ ट्रेड के सामने कहा

“ भारत के सामने दो ही रास्ते हैं—या तो अपना औद्योगीकरण धीमा पड़ जाने दे, या किसी तरह अमरीका से आनेवाली नियामतों से फायदा उठाये ।” (' न्यू यॉर्क टाइम्स,' २९ अप्रैल, १९४९)

टाटा और बिड़ला के अलावा, जिनका अमरीकी पूंजी से गठबंधन हो चुका है, भारत सरकार के ऊँचे पदाधिकारी इन नियामतों की बाट जोहते रहे हैं । भारत सरकार ने अमरीकी पूंजी को आकर्षित करने के लिये तरह-तरह की असाधारण सुविधाएँ दी है । लगता है कि हमारी सरकार ने भी अमरीका का यह सिद्धान्त मान लिया है कि ससार के कुछ देश यदि पिछड़े हुए हैं, तो इसका कारण केवल यही है कि उनके पास काफी पूंजी और कुशल कारीगर और टेक्नीशियन नहीं हैं, और अमरीका के पास दोनों चीजों की बहुतायत है । हमारी सरकार को यह याद नहीं रहता कि भारत जैसे देशों से प्रति वर्ष करोड़ों और अरबों रुपया मुनाफे, तनखाओं और दूसरे खर्च के रूप में विदेशों को चला जाता है । दूसरे, अनेक कुशल कारीगर, वैज्ञानिक और टेक्नीशियन आज भी हमारे देश में बेकार पड़े हुए हैं और सरकार उनसे कोई लाभ नहीं उठाती । सब जानते हैं कि ऐसे कुछ बहुत ही द्योशियार लोग, जिनमें से कुछ तो स्वयं अमरीका में ऊँची शिक्षा पा चुके हैं, आज या तो बेरोजगार हैं या किसी दफ्तर की फालतू फाइलों में उलझे हुए हैं ।

हमारी सरकार और टाटा तथा बिड़ला जैसे बड़े पूंजीपति यह बात भी भूल जाते हैं कि हमारे देश के लिये अमरीकी पूंजी कोई नयी चीज नहीं है। वे कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि बीते हुए दिनों में अमरीकी पूंजी का भारत को क्या अनुभव हुआ था। और इस सवाल पर उनकी खामोशी बेवजह नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने १९५० में विदेशी पूंजी की जो गणना की थी, उससे प्रकट हुआ कि भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी ३० जून, १९४८ को ३६ करोड़ ९७ लाख रुपये होती थी। इसमें से ११ करोड़ ७३ लाख रुपये केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों, रिज़र्व बैंक और पोर्ट तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों को देने थे। ८ करोड़ ३३ लाख रुपये ऐसी कम्पनियों में लगे हुए थे जिन पर अमरीकी नियंत्रण नहीं था। और जिन पर नियंत्रण था, ऐसी कम्पनियों में १६ करोड़ ९१ लाख की अमरीकी पूंजी लगी हुई थी। इसका ब्यौरा यह था

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| अमरीकी बीमा कम्पनियों की शाखाएँ | . १५ लाख रुपये |
| अमरीकी बैंकों की शाखाएँ | . ६,७८ " " |
| दूसरी अमरीकी कम्पनियों की शाखाएँ | ५,८८ " " |
| अमरीकी कम्पनियों की मातहत | |
| भारतीय कम्पनियाँ | ३,०४ " " |
| ऐसी भारतीय कम्पनियाँ जिनके ४०% या | |
| अधिक हिस्से अमरीकियों के हैं | . १०७ " " |

इसके अतिरिक्त, अमरीकी मैनेजिंग एजेंसियाँ नाम मात्र की पूंजी लगा कर ८७३ लाख पूंजी की भारतीय कम्पनियों पर नियंत्रण जमाये हुए थी।

अर्थात्, औद्योगिक कम्पनियों में केवल ४७३ लाख अमरीकी पूंजी लगी हुई थी, जब कि बैंकों तथा बीमा कम्पनियों में ६९३ लाख और व्यापारिक कम्पनियों में ४८८ लाख की पूंजी लगी हुई थी। दूसरे शब्दों में, भारत में लगी अमरीकी पूंजी लगी हुई है, उसके तीन-चौथाई भाग से हमारे देश के औद्योगिकता में कोई मदद नहीं मिलती।

से पता चल जाता है। हमारे सरकारी महकमों में तथा ऐसी कम्पनियों में जिन पर अमरीकी नियंत्रण नहीं है, अमरीका की कुल २० करोड़ की पूंजी लगी है, उससे उसे हर वर्ष ८ लाख रुपये का मुनाफा होता है। ऐसी कम्पनियों में जिन पर अमरीकी नियंत्रण है, केवल १७ करोड़ की पूंजी लगी है, परन्तु उससे अमरीका को प्रति वर्ष २ करोड़ ६९ लाख का मुनाफा होता है, जो उसके कुल मुनाफे का ९७ प्रतिशत होता है। अमरीका द्वारा नियंत्रित भारतीय कम्पनियों में २१३ प्रतिशत की दर पर मुनाफा हो रहा है, जब कि अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों को केवल ६८ प्रतिशत की दर से मुनाफा होता है। सबसे अधिक मुनाफा अमरीका को व्यापारिक कम्पनियों से होता है। ४०४ लाख की पूंजी से वे १६७ लाख का वार्षिक मुनाफा कमा रही हैं, जो ४१३ प्रतिशत बैठता है।

अमरीकी सरकार ने भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी का हिसाब १९४३ में किया था। उस वर्ष बर्मा, लका और पाकिस्तान समेत (परन्तु चीना कम्पनियों को छोड़ कर) हिन्दुस्तान में ४१० लाख डालर की अमरीकी पूंजी लगी हुई थी, और टैक्स काटने के बाद इस पूंजी से ६५ लाख का मुनाफा हुआ था, जो १५९ प्रतिशत बैठता था। दुनिया के दूसरे किसी हिस्से से अमरीकी पूंजी इतनी ऊँची दर पर मुनाफा नहीं कमा रही थी। यहाँ तक कि वेनेजुएला से, जिसके पेट्रोल के कुओं और पूरी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर अमरीका का कब्जा था, उसे १०३ प्रतिशत का ही मुनाफा हुआ था।

अमरीकी आँकड़े बताते हैं कि १९४३ और १९४९ के बीच केवल ७० लाख डालर की नयी अमरीकी प्राइवेट पूंजी प्रत्यक्ष ढंग से आकर भारत में लगी। परन्तु अमरीकी मुनाफे (टैक्स काटकर और फिर से व्यवसाय में लगा दिये गये मुनाफों को छोड़ कर) बेतहाशा बढ़ते गये। आँकड़े देखिये.

| | | | |
|------|-------------|--------------|-------------|
| १९४३ | ६५ लाख डालर | १९४६ | ८४ लाख डालर |
| १९४४ | ५१ " " | १९४७ | १४० " " |
| १९४५ | ७३ " " | १९४८ | १६० " " |
| | १९४९ | १९० लाख डालर | |

१९४३ और १९४९ के बीच जो मुनाफे की रकम अमरीका गयी, वह उसी काल में वहाँ से आनेवाली नयी पूंजी का दस-गुना होती थी, और १९४३ में भारत में कुल जितनी अमरीकी पूंजी लगी हुई थी, उसकी वह

दुगनी बैठती थी। १९४३ में भारत में जितनी अमरीकी पूंजी लगी हुई थी, १९४३ और १९४९ के बीच उसकी केवल २० प्रतिशत नयी पूंजी यहाँ आयी, परन्तु मुनाफे २०० प्रतिशत हो गये। सिर्फ नये मुनाफे की रकम नयी पूंजी की दुगनी होती थी।

फिर से व्यवसाय में लगा दिये मुनाफों को यदि नयी पूंजी में न गिना जाय, न मुनाफों में, तो १९४९ में मुनाफे की दर लगभग ४० प्रतिशत होती थी। परन्तु ऐसे मुनाफों की रकम भी काफी बड़ी होती थी। अमरीकी कम्पनियों की मातहत भारतीय कम्पनियों ने ही १९४५ में १९ लाख डालर और १९४६ में २६ लाख डालर का मुनाफा फिर से व्यवसाय में लगाया था।

इस सबसे जाहिर है कि अमरीकी पूंजी के कारण भारत से हर साल बहुत बड़ी दौलत अमरीका को चली जाती है। दूसरे शब्दों में, भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी से भारत की दौलत बढ़ती नहीं, बल्कि सिमट कर अमरीका पहुँच जाती है। इसलिये, यदि भारत में उद्योग-वधे बढ़ाने के लिये हम यहाँ अधिक पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसका रास्ता और अमरीकी पूंजी को यहाँ बुलाना नहीं है, बल्कि पहले से लगी हुई पूंजी को यहाँ से हटाना ही उसका रास्ता है।

रुद्र अमरीकी (सरकारी) आंकड़ों से यह बात साबित हो जाती है कि अमरीकी पूंजी से भारत के औद्योगीकरण में जरा भी मदद नहीं मिली। १९४५ से १९५७ तक, तीन वर्षों में व्यापार में ५० लाख डालर लगाये गये, पर उद्योगों में से २० लाख उल्टे निकाल लिये गये। १९४९ में जो तीस लाख डालर की नयी पूंजी लगायी गयी, उसमें से २० लाख पेट्रोल बेचने के काम में लगी, उद्योगों के हिस्सों में नाममात्र की ही पूंजी लगी।

१९४५ व १९४९ के बीच अमरीकी पूंजी किन क्षेत्रों में आयी

युद्ध समाप्त होने के बाद, शुरू के वर्षों में भारत और पाकिस्तान में बहुत कम पूंजी अमरीका से आयी। पर अमरीका के आर्थिक स्वार्था में खासी वृद्धि हो गयी।

१९४६ में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच पहला आर्थिक समझौता हुआ। यह हवाई यातायात के सम्बन्ध में था। उसमें पेन-अमरीकन वर्ल्ड एयरवेज और ट्रास वर्ल्ड एयरलाइन्स नामक अमरीकी कम्पनियों को भारत में मुसाफिर और सामान लाने का अधिकार मिल गया। बदले में भारतीय कम्पनियों को अमरीका में यही व्यवसाय करने का अधिकार मिला। परन्तु जाहिर है कि वह महज एक कागजी बात थी। भारतीय कम्पनियों के पास इतना पैसा कहाँ है कि अमरीकी कम्पनियों से प्रतियोगिता कर सकें। यही नहीं, अमरीका के दबाव में आकर भारत सरकार ने अमरीकी कम्पनियों को भारत से वर्मा और लंका मुसाफिर ले जाने की भी इजाजत दे दी और इस तरह भारतीय कम्पनियों को नुकसान पहुँचाया।

युद्ध के बाद शुरू के वर्षों में सबसे अधिक अमरीकी पूंजी " गुड-इयर टायर एण्ड रबर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड " ने लगायी। यह कम्पनी ३ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से खोली गयी थी। वह अमरीका की सबसे बड़ी चार टायर और रबर की कम्पनियों में से एक की मातहत कम्पनी है।

अमरीका के मैलन घराने द्वारा नियंत्रित इंडियन अल्यूमीनियम कम्पनी ने युद्ध के बाद अपनी जमा कर ली गयी पूंजी १,३६,५०,००० रुपये से बढ़ाकर २ करोड़ कर ली।

१९४७ में रेमिंगटन रैण्ड कम्पनी के अमरीकी कारखानों में एक लम्बी हड़ताल चली, तो उसने कलकत्ता में एक नया कारखाना खोल दिया।

नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्राननाथ नैयर ने २१ सितम्बर, १९४८ को न्यू यॉर्क में ऐलान किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉर्ड एण्ड शेयर कम्पनी की मातहत, इंजीनियरी व्यवसाय का काम करने वाली एक कम्पनी, इवास्को सार्विसेज से ठेका किया है कि वह मध्य प्रदेश के चादनी में भारत के पहले न्यूज प्रिंट (अखबार का कागज)

कारखाने को खड़ी करेगी। भारत जितना न्यूज़ प्रिंट विदेशों से मंगाता है, लगभग उसके बराबर नये मिल की पैदावार होगी। और इस मिल में ८० लाख डालर की पूंजी लगेगी। इसके अलावा एक और कागज की मिल खोलने की भी योजना थी, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह ससार की सबसे बड़ी कागज की मिल होगी। पहली मिल १९४९ से चालू हो जाने वाली थी, परन्तु हर वर्ष यह तारीख आगे बढ़ती गयी, क्योंकि आवश्यक मशीन बाहर से नहीं आयीं। अब सुना जाता है कि १९५४ में यह मिल काम करना शुरू करेगी।

पाकिस्तान में, फोर्ड ने हिस्से जोड़कर मोटर खड़ी करने का कारखाना करोंची में खोला।

परन्तु अमरीकी प्रभाव अधिकतर उन सेमझौतों या ठेकों के द्वारा बढ़ा जो अमरीकी कम्पनियों ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ किये। भारत सरकार ने जिन अमरीकी कम्पनियों को ठेके दिये, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं

१ १९४८ के शुरु में सैब्रेज, वूरडिवन एण्ड निकेल नामक कम्पनी को भिचाई के विषय में सलाह देने का काम दिया गया।

२ जुलाई, १९४८ में पिट्सबर्ग की कौर्से कम्पनी और ओहियो की आर्पर मकी एण्ड कम्पनी को इस्पात के दो-एक नये कारखाने खोलने के लिये प्रारम्भिक जॉच-पड़ताल करने का ठेका दिया गया। बाद में कारखाना खड़ा करने का काम भी इन्हीं कम्पनियों को मिलने की बात थी। १९८९ के शुरु में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें पचाम-पचाम कगोड़ की पूंजी लगाकर एक कारखाना उड़ीसा में और एक मध्य प्रदेश में खोलने की सिफारिश थी।

४. १५ फरवरी, १९४९ को उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्लामेंट में बताया कि १२४८ में कौपर्स कम्पनी से कोयले से तेल बनाने की एक योजना तैयार करने के लिये कहा गया था ।

५. मार्च, १९४९ में रेडियो कार्पोरेशन ऑफ अमरीका से समझौता किया गया कि वह भारत में रेडियो और रडार का सामान बनानेवाला एक कारखाना खड़ा करने की योजना तैयार करके दे ।

६. जून, १९४९ में एक अमरीकी कम्पनी को पंजाब, उत्तर प्रदेश, और बिहार में ३,००० ट्यूब वैल (विजली के कुएँ) गाड़ने का ठेका दिया गया । इस योजना पर कुल १५ करोड़ डालर, यानी १ लाख ६७ हजार रुपये प्रति कुओं खर्च होने वाले थे ।

७. वेस्टिंग-हाउस कम्पनी को ठेका दिया गया कि वह जॉच करके बताये कि विजली का भारी सामान तैयार करने वाला कारखाना किस स्थान पर खोला जाय ।

१९४७ में भारत सरकार ने कैमिकल कौंसल्टेशन कार्पोरेशन (जो अमरीकन साइनामाइड कम्पनी की मातहत फर्म है) को ठेका दिया कि वह सिंदरी के खाद के कारखाने की योजना तैयार करे और फिर कारखाना खड़ा करे । यह कारखाना फरवरी १९५२ में खुल भी गया, यद्यपि उसकी सभी शाखाएँ अभी पूरी नहीं हुई हैं । शुरू में अनुमान किया गया था कि इस कारखाने पर साढ़े १० करोड़ रुपये खर्च होंगे, परन्तु वास्तव में, उस पर २३ करोड़ तक खर्च हो गये । बनाया गया कि अमरीकी मशीनों के लिये और कारखाना खड़ी करनेवाली अमरीकी कम्पनी को ही १ करोड़ ८२ लाख रुपये ज्यादा देने पड़े ।

कैमिकल कौंसल्टेशन कार्पोरेशन से जो समझौता हुआ, उसकी शर्तें आज तक देश को नहीं बतायी गयी हैं । परन्तु कार्पोरेशन के अध्यक्ष, मेजर जनरल पोर्टर ने १९४९ में बताया कि

“ जब तक भारतीय इंजीनियरों की काफी शिक्षा नहीं हो जाती और वे पूरा प्रबंध करने योग्य नहीं हो जाते, तब तक कारखाने की व्यवस्था कैमिकल कौंसल्टेशन कार्पोरेशन करेगा । ” (‘ न्यू यॉर्क टाइम्स,’ १२ फरवरी, १९४९)

परन्तु भारतीय इंजीनियरों की शिक्षा के काम में शुरू से ही मुद्रिकलें पड़ने लगीं। १९४९ में ६ भारतीय इंजीनियरों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये न्यू यॉर्क भेजा गया था। कुछ दिन बाद उन्हें वहाँ से हटाकर कनाडा की एक एक अमरीकी फैक्टरी में भेज दिया गया।

“ जनरल पोर्टर ने बताया कि अमरीका में ऐसे कारखाने बहुत मुद्रिकल से मिलते हैं जिनमें विदेशी कारीगरों की शिक्षा का प्रबंध किया जा सके। कैमिकल कौंसल्टेशन कार्पोरेशन ने लड़ाई के जमाने में जो तीन और कारखाने बनाये थे, वे प्राइवेट कम्पनियों के हाथ बेच दिये गये हैं और उनके नये प्रबंधकर्ता (विदेशियों को) शिक्षा देने के लिये राजी नहीं हैं। ” (वही अखबार)

इसी कार्पोरेशन को मैमूर राज्य की सरकार से ढाई करोड़ का एक और टंका मिला जिसके अनुसार उसे भद्रावती में ५० हजार टन खाद तैयार करने वाला एक कारखाना खोलने का काम दिया गया था।

साथ ही, उस कार्पोरेशन ने पाकिस्तान में भी एक खाद का कारखाना

१९४८ के शुरू में पाकिस्तान ने भूगर्भ-शास्त्र के तेरह अमरीकी विद्वानों को गनिज पदार्थों की तलाश करने के लिये नौकर रखा। हेन्स हेन्सेन नामक एक अमरीकी राजजन को महत्वपूर्ण चटर्गॉव पोर्ट-ट्रस्ट का चेयरमैन (अध्यक्ष) नियुक्त कर दिया गया।

१९४९ में, पाकिस्तान ने अमरीका की यू० एम० स्टील एक्सपोर्ट कम्पनी से समझौता किया कि वह जौंच करके पता लगायेगी कि पाकिस्तान में कितने कम्पान की खनन है और साथ ही सुझाव देगी कि कम से कम त्रिन्शे प्रतिशत खनन करने अपनी खनन पर खर्चाने पाने हैं

कर ली है। २ अक्टूबर, १९५१ को जेनेवा में होनेवाले एक चुंगी सम्मेलन में पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के नेता एस० ए० हसनी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत का इस्पात नहीं खरीदने दिया जाता, और उसे लिपस्टिक, शराब और वियर खरीदने पर मजबूर किया जाता है।

सक्षेप में, १९४९ तक, अमरीकी पूंजी तो भारत या पाकिस्तान में बहुत नहीं आयी, परन्तु दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने के लिये दर्जनों अमरीकी विशेषज्ञ आ पहुँचे। उनके ज़रिये भारत तथा पाकिस्तान की अर्थ-व्यवस्थाओं के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्टें अमरीकी पूंजीपतियों के पास पहुँच गयीं।

१९५० के बाद आनेवाली अमरीकी पूंजी

२२ मई, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने संयुक्त राष्ट्र सभ (यू० एन० ओ०) के मुख्य कार्यालय का यह समाचार छपा

“दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों में जो सुधार हुआ है और इस देश में व्यापार और व्यवसाय में जो धीमापन आया है, उससे अमरीकी पूंजीपतियों में अपनी अतिरिक्त दौलत समुद्र-पार के देशों में लगाने की इच्छा बढ़ रही है।

“...यहाँ अधिकारियों का विचार है कि इस अतिरिक्त पूंजी का काफी बड़ा भाग अपने गुप्त स्थानों से निकल कर ब्राज़ील, भारत और दूसरे पिछड़े हुए देशों की विकास योजनाओं की ओर खिंच जानेवाला है।...

“संयुक्त राष्ट्र सभ कार्यालय के अधिकारियों ने इस बात को नोट किया है कि भारत अब राष्ट्रवादी भावना के उस बुखार से मुक्त हो गया मालूम होता है, जिसने उसे अगस्त १९४७ में डोमीनियन स्टेट्स मिलने के बाद घेरा था, और अब वह अमरीकी पूंजी को आकर्षित करने के दृढ़ प्रयत्न कर रहा है।

“यहाँ के विशेषज्ञों की राय में ब्राज़ील और भारत जो कुछ करेंगे, उसका दूररे छोटे और पिछड़े हुए देश अनुमरण करेंगे क्योंकि उनको अभी से यह लगने लगा है कि यदि वे राष्ट्रपति ट्रुमन के टेकनिकल

के नीचे छिपे तेल का पता लगाने के लिये स्टैंडर्ड-वैकुअम ऑयल कम्पनी हवाई जहाजों के जरिये मकनातीसी जॉच-पडताल करेगी। स्टैंडर्ड-वैकुअम ने बताया कि उसने इस जॉच का ठेका फेयरचाइल्ड एरियल सर्वेज को दे दिया है और यह जॉच भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के ७३,००० वर्ग मील के इलाके में होगी। जॉच का मुख्य केन्द्र कलकत्ता में दमदम का हवाई अड्डा रहेगा। अप्रैल, १९५२ में यह जॉच खतम भी हो गयी। बताया जाता है कि अब स्टैंडर्ड-वैकुअम कम्पनी जॉच के नतीजों पर गौर पर रही है।

निकट भविष्य में भारत में सबसे अधिक पूजी स्टैंडर्ड-वैकुअम और कैलटेक्स कम्पनियाँ लगाने वाली हैं। वे तेल साफ करने की फैक्ट्रियों खोलेंगी जिन पर ७ करोड़ डालर खर्च होंगे। विलकुल, इसी टंग का एक तीसरा कारखाना अप्रेज कम्पनी बरमा-शैल बनायेगी और तीनों मिला कर तीस लाख टन साफ पेट्रोल और तेल की दूसरी चीजें तैयार कर सकेगी।

विशेष राजनीतिक महत्त्व की बात यह है कि इन तेल कम्पनियों से ठीक उस समय समझौता हुआ जब ईरान अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीकरण करने की कोशिश कर रहा था। बल्कि, कहा गया कि अब ईरान से तेल आने में हज़ार झमेले पड सकते हैं, इसलिये इस तरह के कारखाने खोलना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार ने पड़ोस के एक मित्र देश के सर्वथा उचित अधिकारों की परवा न की और उल्टे पश्चिमी ताकतों के हाथ में एक नया अड्डा सौंप दिया।

यह कहना विलकुल गलत है कि इन समझौतों से भारत को लगातार और सस्ते भाव पर तेल मिलता रहेगा। यदि तेल के आने में कठिनाई हो रही थी, तो उसकी जिम्मेदारी ईरान सरकार पर नहीं थी, बल्कि उन तेल कम्पनियों पर थी जिन्होंने ईरान सरकार पर दबाव डालने के लिये उसका बहिष्कार कर रखा था और उन सरकारों पर थी जो अपनी फौजी ज़रूरतों के लिये मध्य-पूर्व का अधिकतर तेल हड़प लेती हैं। तेल के ऊँचे भाव की जिम्मेदारी सभार की चन्द बड़ी तेल कम्पनियाँ पर है जिन्होंने दुनिया के बाज़ार को अपनी मुठ्ठी में कर रखा है। ईरान में तेल निकालने का खर्चा अमरीका से बहुत कम बैठता है, परन्तु ये तेल कम्पनियाँ ईरान में भी

बर्मा-गैल कम्पनी वर्म्बर्ड में कारखाना खोलेगी ।^१ इसलिये, सैनिक दृष्टि से दोनों कारखानों के बीच काफी बड़ी दूरी रहेगी ।

“ भारत के एक तेल साफ करने वाले देश के रूप में नामने आने से पूरव का कच्चा तेल एक ऐसे देश में साफ होने के लिये जा सकेगा जहाँ इसकी पहले कोई बड़ी सुविधा न थी । इससे लड़ाई के जमाने में पनडुवियों के हमलों का खतरा कम हो जायगा, क्योंकि यदि ये कारखाने न खुलते तो साफ तेल बड़े लम्बे फासलों से जहाजों पर ढोकर लाना पड़ता ।

“ यह मान कर कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत, अन्त में, अमरीका का ही साथ देगा—जैसा कि सभी पश्चिमी पर्यवेक्षक यहाँ मानते हैं और जिसका यह समझौता-एक नया सबूत है—यदि भारत में तेल साफ करने के कारखाने मौजूद रहेंगे तो हमें दूसरी जगहों में, जो लड़ाई के सम्भावित क्षेत्र से और भी दूर होंगी, तेल साफ करने की फैक्टरियों खोलने के लिये धन, जन और शक्ति नहीं खर्च करनी पड़ेगी और हमारी भारी वचत हो जायगी । ”

इससे विलकुल साफ हो जाता है कि अमरीका वाले तेल साफ करने के कारखानों को सबसे पहले सैनिक महत्व की चीजें मानते हैं और भारत को अपना सैनिक अड्डा या रसद का केन्द्र समझते हैं । वर्म्बर्ड और विजगापट्टम को वे “ लड़ाई के सम्भावित क्षेत्र ” के नजदीक मानते हैं जिससे प्रकट होता है कि हमारे देश तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया को उनकी योजनाओं से कितना बड़ा खतरा है ।

अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन समझौतों की शर्तों पर विचार कीजिये जो हमारी सरकार ने तेल कम्पनियों के साथ किये हैं । समझौतों के पूरे मसविदे प्रकाशित नहीं किये गये हैं, इसलिये अखबारों में जो सारांश निकला है, हमें उसी से सतोष करना पड़ेगा ।

अप्रैल, १९४८ में पार्लामेंट ने नियम बनाया था कि प्रमुख उद्योगों में ५१ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हाथों में रहेंगे । यह नियम अब त्याग दिया गया । सरकार ने स्वीकार किया कि केवल २५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के लिये सुरक्षित रहेंगे और व भी विशेष दिरसे (प्रिफरेंट शेयर)

नहीं होगा, जो देश की बाकी लगभग सभी प्राइवेट कम्पनियों पर लागू है। इसका मतलब यह है कि तेल कम्पनियों जब चाहे उत्पादन को कम या बन्द कर सकेंगी और सरकार उत्पादन जारी रखने के लिये भी कारखानों की व्यवस्था को अपने हाथ में न ले सकेगी। स्टैंडर्ड-वैकुअम कम्पनी के विशेषज्ञ और इंजीनियरों को सुविधा मिली है कि वे बम्बई के बन्दरगाह में अपनी इच्छानुसार सुधार कर सकते हैं जिसका खर्चा बम्बई सरकार और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के मध्ये रहेगा।

पाँचवे, सरकार ने माना है कि इन कारखानों में जो साफ तेल तैयार होगा, वह उसी भाव पर बेचा जायगा जिस भाव पर विदेशों से आया हुआ तेल विक्रता है। यानी, नये कारखाने बनने से भारतीय खरीदारों को कोई लाभ नहीं होगा। तेल का भाव तक सस्ता न होगा। इस तरह सरकार ने विदेशी कम्पनियों को यह छूट दे दी है कि वे भारतीय जनता को मनमाने ढंग से लूटें।

सक्षेप में, इन समझौतों से भारत के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता की जेब काट कर विदेशी पूंजीपतियों की थैलियाँ भरी जायेगी।

इसके अलावा, इन समझौतों के जरिये चूँकि अमरीकी कम्पनियों को भारतीय कानूनों से बरी कर दिया गया है, इसलिये, स्पष्ट है कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के नाम पर, वास्तव में, उनके द्वारा भारत की स्वाधीनता को जकड़ा जा रहा है।

भारत में अमरीकी पूंजी की हाल की प्रवृत्तियाँ

तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौते, दूसरे क्षेत्रों में हुए समझौतों से अलग और सबसे निराली कोई चीज नहीं है। ३ जनवरी, १९५२ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार छापा था कि भारत में “भविष्य में जो भी विदेशी पूंजी जायेगी, वह यही शकल अख्तियार करेगी।”

लगता है कि निकट भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर अमरीकी पूंजी भारत में प्रवेश करने वाली है। राष्ट्रपति ट्रुमन के कार्यक्रम के चौथे सूत्र में

होंगे। जाहिर है कि इन कम्पनियों को खूब मुनाफा होने वाला है और इसलिये साधारण हिस्से अधिक लाभप्रद होंगे। भारतीय नागरिक उन्हें नहीं खरीद सकते। इस तरह पूरा नियंत्रण अमरीका वालों के हाथों में रहेगा। और वे ही मुनाफों की मोटी मलाई गटकेंगे। सिर्फ थोड़े से हिन्दुस्तानियों को छूछा छान्छा चाटने को मिलेगा और अमरीका वाले उनसे शिखंडी का काम लेंगे।

दूसरे, अगले पच्चीस साल तक सरकार इन कम्पनियों के राष्ट्रीकरण का सवाल न उठा सकेगी। उसके बाद भी, " उचित " मुआवजा देकर ही ऐसी कोई कार्रवाई की जा सकेगी। अप्रैल १९४८ में पार्लामेंट ने अपने औद्योगिक नीति वाले प्रस्ताव में दस साल तक राष्ट्रीकरण को स्थगित रखने की बात कही थी। लेकिन, इन कम्पनियों से २५ साल का वादा कर लिया गया, यानी कांग्रेसी सरकार ने अपने बाद आने वाली सरकारों को भी बांध दिया।

कम्पनियों को यह हक दिया गया है कि वे जब चाहें, कारखाने बन्द करके अपनी पूंजी मय मुनाफे के यहां से उठा ले जायें। परन्तु सार्वभौम कहलाने वाली सरकार को उन्हें अपने हाथ में लेने का भी अधिकार नहीं है।

तीसरे, सरकार ने स्वीकार किया कि मुनाफों की रकम बाहर भेजने के लिये वह कम्पनियों के वास्ते विदेशी मुद्रा का प्रबंध करेगी। समझौते में यह शर्त भी नहीं रखी गयी कि यदि मुनाफे की रकम बाहर भेजने से देश का नुकसान होगा, यदि विदेशी मुद्रा का प्रबंध करने से देश का घाटा होगा, तो मुनाफे की रकम बाहर न भेजी जा सकेगी। कहा जाता है कि जब तेल देश में ही साफ होने लगेगा, तो विदेशी पेट्रोल खरीदने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, उसकी बचत हो जायेगी। परन्तु वास्तव में, इसकी भी कोई आशा नहीं है, क्योंकि जितनी बचत होगी उससे अधिक रकम मुनाफों के रूप में बाहर भेजनी पड़ जायेगी।

चौथे, सरकार ने कुछ और भी बड़ी असाधारण सुविधाएँ विदेशी तेल कम्पनियों को दी है। बाहर से जो कच्चा तेल आयेगा, उस पर सरकार चुंगी नहीं लगायेगी। विदेशों से जो मशीनें आदि आर्येंगी उन पर प्रचलित नियम से बहुत कम यानी सिर्फ़ सवा ५ प्रतिशत चुंगी लगेगी। नये कारखानों पर सरकार का इन्डस्ट्री (डेवेलपमेण्ट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट (कानून) लागू

नहीं होगा, जो देश की वाकी लगभग सभी प्राइवेट कम्पनियों पर लागू है। इसका मतलब यह है कि तेल कम्पनियों जब चाहे उत्पादन को बम या बन्द कर सकेंगी और सरकार उत्पादन जारी रखने के लिये भी कारखानों की व्यवस्था को अपने हाथ में न ले सकेंगी। स्टैंडर्ड-वैकुअम कम्पनी के विशेषज्ञ और इंजीनियरों को सुविधा मिली है कि वे बम्बई के बन्दरगाह में अपनी इच्छानुसार सुधार कर सकते हैं जिसका खर्चा बम्बई सरकार और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के मध्ये रहेगा।

पाँचवे, सरकार ने माना है कि इन कारखानों में जो साफ तेल तैयार होगा, वह उसी भाव पर बेचा जायगा जिस भाव पर विदेशों से आया हुआ तेल बिकता है। यानी, नये कारखाने बनने से भारतीय खरीदारों को कोई लाभ नहीं होगा। तेल का भाव तक सस्ता न होगा। इस तरह सरकार ने विदेशी कम्पनियों को यह छूट दे दी है कि वे भारतीय जनता को मनमाने ढंग से लूटे।

संक्षेप में, इन समझौतों से भारत के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता की जेब काट कर विदेशी पूंजीपतियों की बैलियाँ भरी जायेंगी।

इसके अलावा, इन समझौतों के जरिये चूंकि अमरीकी कम्पनियों को भारतीय कानूनों से बरी कर दिया गया है, इसलिये, स्पष्ट है कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के नाम पर, वास्तव में, उनके द्वारा भारत की स्वाधीनता को जकड़ा जा रहा है।

भारत में अमरीकी पूंजी की हाल की प्रवृत्तियाँ

तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौते, दूसरे क्षेत्रों में हुए समझौतों से अलग और सबसे निराली कोई चीज नहीं है। ३ जनवरी, १९५७ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार छपा था कि भारत में “भविष्य में जो भी विदेशी पूंजी जायेगी, वह यही शकल अख्तियार करेगी।”

लगता है कि निकट भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर अमरीकी पूंजी भारत में प्रवेश करने वाली है। राष्ट्रपति ट्रुमन के कार्यक्रम के चौथे चरण में

इसका इशारा किया गया था। और अमरीकी सस्थाओं के साथ-साथ भारत के बड़े पूंजीपति और ऊँचे सरकारी अफसर भी इसी की कोशिश कर रहे हैं।

३ नवम्बर, १९५१ को पाँच सप्ताह तक अमरीका का दौरा करने के बाद सेठ घनश्यामदास बिड़ला ने सुझाव पेश किया था कि एक भारत-अमरीकी विकास कार्पोरेशन बनाया जाय जिसमें दोनों देशों के पूंजीपति और सरकारी अफसर रहें और जो अमरीका और ब्राजील के मौजूदा सयुक्त सगठन के ढंग पर ही काम करे। इस कार्पोरेशन को बिड़ला जी भारत की आर्थिक व्यवस्था का भाग्यविधाता बनाना चाहते थे।

२९ जनवरी, १९५२ को राजदूत बी आर सेन ने व्यापार एवं उद्योग की सुदूर पूर्व-अमरीका समिति (फार ईस्ट-अमरीका काउंसिल ऑफ कौमर्स एण्ड इन्डस्ट्री) के सामने बोलते हुए कहा था कि भारत में दो प्रकार की पूंजी लगाने से अमरीकी पूंजीपतियों का फायदा हो सकता है।

“ उन्होंने भारत में अमरीकी पूंजी लगाने का पहला ढंग यह बताया कि विभिन्न भारतीय उद्योगों को बल पहुँचाने के लिये कम्पनियाँ बनायीं जायें जिनमें अमरीकी कम्पनियाँ शरीक हों अमरीकी पूंजी या तो नकद रुपये की शकल में या सामान के रूप में आये और भारत सरकार भी उसमें शरीक हो ताकि विदेशी कम्पनियाँ नयी कम्पनी की साख पर विश्वास कर सकें।

“ साथ ही उन्होंने जोर दिया कि पूंजी लगाने वाली एक ऐसी सयुक्त कम्पनी बनायी जाय जिसमें अमरीका और भारत दोनों देशों की प्राइवेट पूंजी शुरू में क्रमश ७० ३० के अनुपात में शरीक हो। ” (‘ न्यू यॉर्क टाइम्स,’ ३० जनवरी, १९५२)

भारतीय पूंजीपतियों और सरकारी अधिकारियों ने जो निमंत्रण दिया था उसका अमरीका की ओर से स्वागत हुआ। २५ फरवरी, १९५२ को दम्बई में डिटयन मर्चेंटम चेंबर के सामने बोलते हुए अमरीकी राजदूत, चेस्टर वाउल्स ने सयुक्त भारत अमरीकी कम्पनियों का स्वागत किया।

“ मि० वाऊल्स ने कहा कि यह एक बड़ी शुभ बात होगी यदि अमरीकी तथा भारनीय कम्पनियों पारस्परिक हित के लिये साझेदारी में काम करने लगे। ऐसा होने से, कुछ हद तक, भारत की सामान तथा विदेशी पूंजी की सख्त जरूरत हल हो जायगी। मि० वाऊल्स ने बताया कि जल्द ही दिल्ली के उनके अफसरों में एक व्यक्ति अलग से इस बात की सभावनाओं का पता लगाने के लिये नियुक्त किया जायगा और एक अफसर वाशिंगटन में भी इसी काम के लिये रहेगा। ” (‘ हिन्दू,’ २६ फरवरी, १९५२)

लगता है कि भारत तथा अमरीका के बड़े पूंजीपतियों के बीच “ अनैतिक विवाह ” कराने के लिये-पुरोहिती का काम दोनों देशों की सरकारों ने अपने जिम्मे ले लिया है। लड़ाई के जमाने में जो संयुक्त कम्पनियाँ बनी थीं, उनसे इन नयी मिली-जुली कम्पनियों का अधिक घातक प्रभाव पड़ने वाला है। कारण कि एक तो ये कम्पनियाँ भारत सरकार की आर्थिक नीति में अनेक परिवर्तन होने और विदेशी पूंजी को अनेक सुविधाएँ दिये जाने के बाद खुलने वाली हैं, दूसरे, दोनों ओर की सरकारें सक्रिय रूप से उनमें भाग लेने वाली हैं। इन मिली-जुली कम्पनियों से हमारे देश में नये विदेशी निहित स्वार्थ पैदा हो जायेंगे जो भारतीय खरीदारों की जेब काट कर अपनी थैलियाँ भरा करेंगे। उनसे भारत के बड़े पूंजीपतियों की ताकत और बढ़ जायगी और छोटे पूंजीपतियों का व्यवसाय में टिकना मुश्किल बनता जायगा। उनसे देश की आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण भागों पर विदेशियों का प्रभुत्व कायम हो जायगा, जिसके कारण बाद में भी भारत किसी नयी दिशा में आर्थिक विकास न कर सकेगा। पंडित नेहरू ने हाल में कहा था कि वर्तमान पीढ़ी के भारत में तो केवल जी-तोड़ कर मेहनत करना ही लिखा है। परन्तु क्या उन्होंने कभी यह भी सोचा कि इस मेहनत से अगली पीढ़ी के लिये केवल नये बवनों और नयी जंजीरों की ही रचना हो रही है।

छठा अध्याय

भारत को अमरीकी मदद

पूजी के अलावा, भारत के बड़े अफसर और बड़े पूंजीपति अन्य मदद के लिये भी अमरीका का मुँह जोह रहे हैं। वे समझते हैं कि अमरीकी मदद से भारत की आर्थिक समस्याओं को हल करने में बड़ी आसानी हो जायेगी। जितनी और जिस तरह की मदद की वे आशा लगा रहे हैं, उससे लगता है कि वे भारत के आगे के विकास के लिये अमरीका की मदद पर ही अधिक निर्भर करते हैं। कोलम्बो योजना में अगले ६ साल में ८०८ करोड़ रुपये की रकम विदेशों से लेने की बात थी। सरकार की राष्ट्रीय योजना समिति ने पाच साल में ६७२ करोड़ रुपये की मदद लेने की बात सोची है। दिसम्बर १९४९ में जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ था, उसमें विडला के पत्र इस्टर्न इकोनोमिस्ट के सम्पादक ई डा कौस्टा साहव ने अगले चार साल तक प्रति वर्ष २५० करोड़ रुपये अमरीका से मदद के रूप में लेने का सुझाव रखा था। अत इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है कि अमरीकी मदद से भारत को कितना लाभ या नुकसान हुआ है।

२८ फरवरी १९४७ को (उस वक्त तक भारत ने सरकारी तौर पर मदद नहीं मांगी थी) राष्ट्रपति ट्रुमन ने ऐलान किया था

“सरकार के अफसर कई बार यह बात साफ कर चुके हैं और मैं उसे फिर दुहराता हूँ कि हम भारत की आर्थिक विकास की योजनाओं में ऐसे सभी उचित उपायों से मदद करने को तैयार हैं जिनसे दोनों देशों का और समार का भला हो।” (‘न्यू यॉर्क टाइम्स,’ १ मार्च १९४७)

५ अगस्त, १९४८ को जब राजदूत सर वेनेगल रामाराव ने अपना अविकार-पत्र पेश किया तो राष्ट्रपति ने फिर इन शब्दों को दोहराया।

अमरीका की सरकार से भारत और पाकिस्तान को अभी तक जो मदद मिली है, उसे नीचे लिखे शीर्षकों में बाँटा जा सकता है :

- (१) विश्व बैंक से लिये गये कर्जों,
- (२) ट्रुमन के चौथे सूत्र के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता,
- (३) सकट-कालीन अन्न सहायता,
- (४) पारस्परिक सहायता कानून के अन्तर्गत मिलनेवाली मदद ।

विश्व बैंक के कर्जों

विश्व बैंक से मिलनेवाले कर्जों को शायद अमरीकी मदद में शामिल करना उचित नहीं है । परन्तु, सभी जानते हैं कि विश्व बैंक के अधिकतर हिस्से अमरीका के हाथ में हैं और उसने कर्ज भी अधिकतर अमरीकी पूंजीपतियों से ही ले रखा है । विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमरीकी ही रहता है और बिना अमरीका की मदद के विश्व बैंक से किसी को कर्जा नहीं मिल सकता ।

अभी तक विश्व बैंक से भारत को ६२५ लाख डालर कर्ज मिले हैं । पहला कर्जा १८ अगस्त, १९४९ को रेल के इंजिन खरीदने के लिये मिला था, जिसकी रकम ३४० लाख डालर थी । दूसरा कर्जा सितम्बर, १९४९, में ट्रैक्टर खरीदने के लिये मिला था जिसकी रकम १०० लाख डालर थी । ये ट्रैक्टर काँस के जंगल साफ़ करके नयी ज़मीन तोड़ने के लिये चाहिये थे । और तीसरा कर्जा १८ अप्रैल, १९५० को बोकारो-कोनार विजली स्टेशन के लिये मिला था जिसकी रकम १८५ लाख डालर होती थी ।

२७ मार्च, १९५२ को विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिये अपने पहले कर्जों का ऐलान किया । उसे २७२ लाख डालर का कर्ज रेल के इंजिन और दूसरा सामान खरीदने के लिये दिया गया ।

पहले इन कर्जों के बारे में चन्द मोटी-मोटी बातों पर गौर कीजिये ।

पहली बात यह है कि इन कर्जों पर भारत को ४ प्रतिशत की दर पर सूद देना पड़ता है जिसे किसी माने में भी सस्ती दर नहीं कहा जा सकता । पाकिस्तान को ८ ½ % की दर पर सूद देना पड़ता है ।

दूसरे, विश्व बैंक में भारत की जितनी पूंजी लगी हुई है—अर्थात् ४,००० लाख डालर—उसे देखते हुए ये कर्जे बहुत बड़े नहीं हैं। इस पूंजी में से भारत ८०० लाख डालर की रकम विश्व बैंक को दे भी चुका है। पाकिस्तान का हिस्सा भारत का एक चौथाई है।

तीसरे, ये कर्जे अमरीका के अन्दर खर्च होने के लिये हैं। रेल के इंजिन और ट्रैक्टर अमरीका में ही खरीदे गये। बोकारो-कोनार विजली स्टेशन की योजना तैयार करने और उसे बनाने आदि का ठेका कुलजियान कार्पोरेशन नामक एक अमरीकी कम्पनी को दिया गया। इस प्रकार कर्जे देकर विश्व बैंक, वास्तव में, अमरीकी माल की बिक्री बढ़ा रहा था।

बैंक अमरीकी हित में चलना है, इसका एक सबूत यह है कि उसने कॉस हटाने की योजना को चुना। भारत सरकार का केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग पहले से ही कॉस हटाने का काम कर रहा था। परन्तु बैंक ने उसे कर्जा उसी वक्त दिया जब कि मेजर कौज़र्स नामक एक अमरीकी नागरिक उस विभाग का प्रमुख बनाया गया। यह कर्जा १८० ट्रैक्टर खरीदने के लिये था। कर्जा मिलने के बाद मेजर कौज़र्स उस विभाग से अलग हो गये और योजना की देखरेख करने के लिये बैंक ने उन्हें अपना सलाहकार इजीनियर नियुक्त कर लिया। इसी बीच विभाग में कुछ और अमरीकी नौकर रख लिये गये।

चौथे, ये कर्जे केवल यातायात और खेती में सुधार करने के लिये हैं। ध्यान रहे कि अमरीकी सरकार के विभिन्न विभागों की भी यही राय है कि भारत को अपने विकास की योजना बनाते हुए इन्हीं दो विभागों पर खास जोर देना चाहिये। इन कर्जों में से एक भी ऐसा नहीं है जिससे भारत के औद्योगीकरण में मदद मिलती हो। इसके पहले कई हिन्दुस्तानी पूँजीपति नये उद्योग खोलने के लिये बैंक से उधार माँग चुके हैं। परन्तु बैंक ने किसी की न सुनी। उल्टे, उसने भारत सरकार को यह सलाह दी कि उसे रेल के इंजिन बनाने के पचड़े में न पड़ना चाहिये। विश्व बैंक के अध्यक्ष मि० यूजीन व्लैक ने न्यू यॉर्क में २३ अक्टूबर, १९४९ को बोलते हुए पहले कर्ज के बारे में यह फरमाया

“सन्नेप ने, हमारे सलाहकार ने हमसे जोरदार सिफारिश की है कि अमरीका और कनाडा से लगभग ६५० रेल के इंजिन और दूसरे

पुर्जे मगाने के लिये बैंक को कर्जा देना चाहिये । १८ अगस्त को जो पहला कर्ज बैंक ने भारत को दिया, उसका यही उद्देश्य था । यह कर्जा ३४० लाख डालर का था .. ।

“ (भारत) सरकार ने बैंक के सामने रेल के जंजिन बनाने की भी एक योजना रखी थी ।

“ हमारे सलाहकार ने इसका सख्त विरोध किया .. । ”

पाचवीं बात यह है कि ये कर्जे उसी वक्त मिले हैं जब अमरीका की नीति में परिवर्तन हुआ है । जब तक भारत सरकार ने अमरीकी पुर्जा की बुनियादी मांग मान नहीं ली, तब तक उसे विश्व बैंक से भी कोई कर्जा नहीं मिला । पहला कर्जा पंडित नेहरू की अमरीका यात्रा के समय दिया गया । भारत सरकार को खुश करने के लिये अमरीका जो कोशिश कर रहा था, यह कर्जा भी उसी का भाग था । आखिरी कर्जा अप्रैल १९५० में दिया गया । उस वक्त तक भारत की चीन सम्बंधी नीति से अमरीका की नाराजगी शुरू नहीं हुई थी । हम कर्जों का सम्बंध अमरीकी सरकार की नीति से जबर्दस्ती नहीं बैठ रहे हैं । इसका सबूत चाहिये तो बैंक द्वारा आम तौर पर कर्ज दिये जाने के ढंग पर एक नजर डाल जाइये । पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को कर्जा विलकुल नहीं दिया गया । यूगोस्लाविया को कर्जा मिला तो उस वक्त जब अमरीकी सरकार खुलेआम टीटो सरकार की तारीफ करने लगी थी ।

अन्तिम बात यह है कि विश्व बैंक से कर्ज लेनेवालों को कुछ गैर-आर्थिक शर्तें भी माननी पड़ती हैं । कर्जे की रकम से जो सामान खरीदा जायगा, उसकी बैंक के लोग जाँच करेंगे । यही नहीं, वे सारे हिमाय-क़िताब और कागज़-पत्र पर निगाह रखेंगे और चाहेंगे तो उनकी नकल उतार लेंगे । जिसके लिये कर्जा दिया गया हो, उस पूरी योजना की भी बैंक के लोग देखरेख करेंगे । यहाँ तक कि इन शर्तों की वजह से ब्रिटिश कोलोनियल डेवलेपमेन्ट कॉर्पोरेशन ने विश्व बैंक से कर्जा लेने से ही इनकार कर दिया था ।

इसलिये, कोई आश्चर्य नहीं यदि बैंक की नीतियों से लोगों में असतोप हुआ हो । भारतीय प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदालियर ने १६ फरवरी, १९५० को संयुक्त राष्ट्र सभ की आर्थिक एवं सामाजिक काउन्सिल की बैठक में विश्व बैंक की शिक्षायत करते हुए यह कहा था

“ बैंक-मालिकों की आम विशेषता के मुकाबले में मैंने इनसे (यानी विश्व बैंक के मालिकों से—अनु०) थोड़ी अधिक सद्दानुभूति की, थोड़ी अधिक उदारता की और थोड़ा कम तार्किक होने की आशा की थी। ”

ईरान के प्रतिनिधि खोसरोवानी ने सीधे-सादे शब्दों में संयुक्त राष्ट्र सच की जेनरल असेम्बली के सामने २७ नवम्बर, १९५१ को कहा था

“ विश्व बैंक सही माने में अमीरों का बैंक है, अमीरों द्वारा चलाया जाता है, अतः स्वाभाविक रूप से अमीरों के हित में काम करता है। ”

टुमन कार्यक्रम के चौथे सूत्र के मातहत मिलने वाली मदद

भारत ने अमरीका के साथ चौथे सूत्र के समझौते पर २८ दिसम्बर १९५० को दस्तखत किया और पाकिस्तान ने ९ फरवरी, १९५१ को। इन समझौतों के मातहत भारत को १२ लाख डालर की मदद मिली और पाकिस्तान को ५ लाख डालर की।

इन समझौतों में किसी विशेष योजना का खिन्क नहीं था, केवल मदद पानेवाले देश के कर्तव्य उनमें बताये गये थे।

भारत के साथ जो समझौता हुआ, उसमें कहा गया था कि चौथे सूत्र के कार्यक्रम में जो खर्च होगा, उसका “ एक उचित भाग ” भारत के जिम्मे रहेगा और वह कार्यक्रम के “ विज्ञापन और प्रचार का पूरा प्रवध ” करेगा। “ उचित भाग ” में अमरीकी अधिकारियों के दफ्तरों का खर्च और उनके भारत के अन्दर आने-जाने का खर्च भी शामिल था। अमरीका से जो विशेषज्ञ इस कार्यक्रम के मातहत आयेगे, उन्हें वे सब विशेषाधिकार और राजदूतों जैसी सुविधाएँ मिलेगी जो स राष्ट्र सच के विशेषज्ञों को मिलती हैं। भारत यदि और किसी देश से अथवा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से टेकनिकल मदद मांगेगा तो उसे इनकी पूरी इत्तिला अमरीका को देने पड़ेगी। जाहिर है कि इस शर्त से भारत की स्वाधीनता को चोट पहुँचनी है।

दसरे बाद, अलग-अलग योजनाओं के बारे में समझौते हुए और अमरीका के दर्जनों विशेषज्ञ भारत आने लगे। पहले बारह विशेषज्ञों में ६ नेता के विशेषज्ञ थे, दो अमरीक भूगर्भ-शास्त्र के, एक विजली कल रखी

करने के, एक गंधक का तेजाब बनाने के, एक जीव-जन्तु (बायोलोजिकल प्रोडक्ट) के और एक सामाजिक शिक्षा के। भूगर्भ-शास्त्र के दो विशेषज्ञों में से एक, जॉन ए स्त्राज़ेफ़, इसके पहले क्यूबा में मैगनीज की खोज कर चुके थे। इस सूची को देखने से ही पता चल जाता है कि अमरीकी मदद का जोर उद्योग-धंधों पर नहीं, बल्कि खेती पर और सैनिक दृष्टि से आवश्यक खनिज पदार्थों पर है।

प्रश्न है कि क्या कार्यक्रम के चौथे सूत्र की मदद ऐसी है कि इतना खर्च करके और ऐसी शर्तें मान कर भी हम उसे पाने की कोशिश करें ? इसमें बहुत सन्देह है। अमरीकी विशेषज्ञों को बड़ी ऊँची-ऊँची तनखाहें और मोटे भत्ते देने पड़ते हैं। और उनमें से अधिकतर भारतीय इंजीनियरों या वैज्ञानिकों से अधिक योग्यता नहीं रखते।

हाँ, अमरीका को इस कार्यक्रम से ज़रूर बहुत लाभ है। थोड़ा सा पैसा खर्च करने के एवज में उसके विशेषज्ञ भारत आकर स्वतंत्रतापूर्वक हमारे देश के आर्थिक साधनों की जाँच-पड़ताल कर ले जायेंगे। भारत की आर्थिक व्यवस्था के कमजोर और मजबूत अंगों की पूरी-पूरी इत्तिला अमरीका पहुँच जायगी। भारत यदि कोई योजना बनाता है तो वह बिना अमरीका की रज़ामन्दी के अमल में नहीं आ सकती। यदि भारत दूसरी सरकारों से या अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से कुछ बातचीत करता है, तो उसकी सूचना तत्काल अमरीका पहुँच जाती है। इसके अतिरिक्त यह शक निराधार नहीं है कि 'चौथे सूत्र' के विशेषज्ञ टेक्निकल मदद के अलावा कुछ और काम भी करते हैं, वरना इस कार्यक्रम के बजट (हिसाब) को गुप्त रखने की क्या बजह हो सकती है ? यह बात भी काफी शक पैदा करती है कि २४ जुलाई, १९५१ को होरेम होम्ज ने अमरीका की हाउस (प्रतिनिधि सभा) की वैदेशिक सम्बन्ध समिति के सामने, भारत में इस 'चौथे सूत्र' के विशेषज्ञ के रूप में अपने काम की जो रिपोर्ट दी थी, उमका एक भाग गुप्त रखा गया है।

संकट-कालीन अन्न सहायता

युद्ध के बाद से ही भारत अमरीका से गेहूँ और दूसरा अनाज खरीदने पर करोड़ों डालर खर्च कर चुका है। जब १९४९ में अन्न सम्पन्धी गिबति और

विगधी तो भारत सरकार ने अमरीका का मुँह जोड़ा। अगस्त में २८० लाख मन अमरीकी गेहूँ के लिये बातचीत शुरू हो गयी।

अक्टूबर में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान में पं नेहरू ने बार-बार इस बात का जिक्र किया कि भारत को अमरीका से गेहूँ की शकल में मदद मिलने की आशा है। २६ अक्टूबर को विदेश मंत्री एचीसन ने बताया कि अमरीकी विदेश विभाग और भारतीय सरकारी अफसर भारतीय मैगनीज और अवरक की अमरीकी गेहूँ से अदला-बदली करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। नवम्बर के अन्त तक अमरीका का कम्पैडिटी क्रेडिट कार्पोरेशन भारतीय प्रतिनिधियों से सौदेबाजी के बारे में खींचतान ही करता रहा। २८ दिसम्बर को, मजबूर होकर भारत को बातचीत तोड़ देनी पड़ी क्योंकि समझौते की कोई आशा नजर नहीं आती थी।

बातचीत क्यों टूट गयी? क्या इसलिये कि अमरीका में गेहूँ की कमी थी? नहीं। अमरीकी सरकार के गोदाम गेहूँ से फटे पड़ रहे थे। अनाज को जमा करने और लाने-लेजाने पर ही अमरीकी सरकार को २,३७,००० डालर प्रति दिन खर्च करना पड़ रहा था। भारतीय समाचार पत्रों ने बताया कि बातचीत असल में इसलिये टूटी कि अमरीका कुछ ऐसी शर्तों पर अड़ा हुआ था जिनका अनाज के सौदे से कोई सम्बंध न था। उधर पंडित नेहरू यह अच्छी तरह समझते थे कि बहुत से भारत-वासियों के मन में उनकी अमरीका यात्रा के उद्देश्य के बारे में काफी शक है और वे कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहते थे जिससे इन सन्देहों को आधार मिलता हो।

१९५० में अन्न की स्थिति और विगड़ती गयी और जून तथा अक्टूबर में अमरीका के आर्थिक सहयोग व्यवस्था (मार्शल योजना का संचालन करने वाला विभाग) के जरिये भारत सरकार ने कुछ सौदा अनाज खरीदा।

नवम्बर में, भारत सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि उसके पास इतने डालर नहीं हैं कि वह अपनी जरूरत भर का अनाज अमरीका के बाजारों में खरीद सकेगी। इसलिये, उम्मेद गैर-सरकारी तौर पर पता लगाया कि अमरीका ने उसे कर्ज मिल सकेगा या नहीं। १५ दिसम्बर को श्रीमती पंडित ने सरकारी तौर पर अमरीकी वैदेशिक विभाग से ५ करोड़ ६० लाख मन अनाज कर्ज देने में मांगा। उस वक्त अमरीका के पास २८ करोड़ मन फ़ालतू गेहूँ था।

जनवरी यों ही बीत गयी और अमरीकी सरकार ने भारत के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे, वैदेशिक विभाग से इस प्रकार के सकेत मिलने लगे और अमरीकी पार्लामेंट के कई टुमन-समर्थक सदस्य इस तरह के वयान देने लगे कि जब तक भारत अपनी वैदेशिक नीति नहीं बदलेगा, और चीन के खिलाफ अमरीका का समर्थन नहीं करेगा, तब तक उसे गेहूँ भी नहीं मिलेगा। जब बहुत सी वार्मिक सस्थाओं और उदारवादी सगठनों ने शोर मचाया और मानवता के नाम पर फौरन गेहूँ देने की माग की और इसके परिणामस्वरूप पार्लामेंट के चौबीस सदस्यों ने इस सम्बंध में एक बिल पेश करने का निश्चय किया, तब कहीं जाकर अमरीकी सरकार ने अपने हाथ-पैर हिलाये। १२ फरवरी को टुमन ने पार्लामेंट को एक सन्देश भेज कर भारत को कर्ज देने का प्रस्ताव रखा।

इसके बाद भी तरह-तरह की तिकड़मों और टालमटूल के द्वारा बिल लटका रहा और पार्लामेंट दूसरे मामलों में लगी रही। पदों के पीछे भारत पर विभिन्न प्रकार की शर्तें मानने के लिये दबाव पड़ता रहा। हफ्तों तक अमरीकी पार्लामेंट भारत की नीति पर विचार करती रही, मानो यह देश उसके आधीन हो। भारत के अनुरोध करने के पूरे ६ महीने के बाद १५ जून को कर्जा मजूर हुआ। और यदि इस बीच सोवियत रूस और चीन भारत को गेहूँ देना शुरू न कर देते तो शायद इसमें अभी और देर लगती। १५ जून को राष्ट्रपति टुमन ने ऐलान किया कि अन्न सहायता का कानून "जब तक कि भारत के वक्त भारतीय जनता की सहायता करने की अमरीकी जनता की हार्दिक एवं स्वयस्फूर्त इच्छा को प्रकट करता है।" कम से कम अमरीकी सरकार में ऐसी इच्छा कभी नहीं दिखाई पड़ी थी।

अमरीकी राजनीतिक नेताओं के हाथों भारत का जिन प्रकार बार-बार अपमान हुआ, जिस तरह उस पर तरह-तरह के दबाव डाले गये, उसके विस्तार में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। परन्तु गेहूँ के कर्जे के बारे में, अन्न में जो समझौता हुआ उस पर तकसील से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में कई गलतफ्रहमियाँ फैली हुई हैं।

पहले, यह साफ हो जाना चाहिये कि अमरीका ने हमें सब गेहूँ नहीं मिला। वहाँ से आने वाले अनाज का काफी बड़ा भाग ज्वार का था। अनाज की

पहली किस्त में (जो कुल के आधे के बराबर यानी २ करोड़ ८० लाख मन थी) गेहूँ १ करोड़ ८४ लाख ८० हजार मन था, ज्वार ७० लाख मन, मक्का १९ लाख ६० हजार मन और चावल ५ लाख ६० हजार मन ।

दूसरे, अनाज का भाव महँगा था । ४ अक्टूबर, १९५१ को भारतीय पार्लामेंट में सर चिन्तामन देशमुख ने बताया कि अमरीकी गेहूँ का भाव भारत में आकर २२ रुपये मन पड़ा, जब कि राशनिंग वाले इलाकों में वह १७ या १८ रुपये मन के भाव पर बेचा गया । खुद-अमरीका में जिस भाव पर गेहूँ विक्रम रहा था, वह भी इससे बहुत कम था । १९५०-५१ में अमरीकी किसानों ने गेहूँ ७३ ९२ डालर फ्री टन के भाव पर और ज्वार ४२ ४० डालर फ्री टन के भाव पर बेचा था । सबसे अच्छे गेहूँ का वाजार भाव भी सिर्फ ८८ ४८ डालर फ्री टन था । परन्तु भारत से क्या दाम वसूले गये ? गेहूँ के लिये १०५ डालर फ्री टन, ज्वार के लिये ६१ डालर फ्री-टन, मक्का के लिये ८० डालर फ्री टन और चावल के लिये २४० डालर फ्री टन ।

तीसरे, यह अनाज हमें मुफ्त मदद के रूप में या दान की तरह नहीं मिला था । भारत ने कर्जा मागा था, कर्जा ही उसे मिला । अनाज को यहाँ लाने का पूरा खर्चा भी भारत ने दिया । और कर्जे की पूरी रकम को उसने २५ साल के अन्दर अदा कर देने का वायदा किया । ढाई फ्री सदी की दर पर सूद देना भी उसने स्वीकार किया ।

ऐसी हालत में इसे मदद कैसे कहा जाता है, यह जरा मुश्किल से समझ में आने वाली बात है । यह मदद नहीं, व्यापार का एक साधारण सौदा था । परन्तु दुनिया भर में प्रचार किया गया कि दयालु अमरीका ने भूखे भारत की मदद के वास्ते अनाज दिया है और उसकी आड़ में हिन्दुस्तान पर तरह-तरह की शर्तें थोप दी गयीं । शुरू में ये शर्तें उस वक्त पेश की गयी थीं जब दुमन ने कर्जे की जगह भेंट के रूप में अनाज देने का प्रस्ताव रखा था । भारत ने भेंट के रूप में गेहूँ लेना स्वीकार न किया और अन्त में अनाज कर्जे के रूप में ही मिला, पर शर्तें ज्यों की त्यों कायम रहीं ।

अमरीकी पार्लामेंट ने जो कानून इस सम्बन्ध में बनाया, उसकी दूसरी धारा में कहा गया था कि कर्जे के एक हिस्से के एवज में भारत मैनिफेस्ट ट्रेडि से आयात कर कच्चा माल और नानिज पदार्थ अमरीका को देगा । इस शर्त के

विरुद्ध बहुत शोर मचने के बावजूद भारत सरकार ने इम शर्त को स्वीकार कर ही लिया ।

अमरीकी कानून में इम बात का जिक्र नहीं था कि भारत के अन्दर अनाज का वितरण अमरीकी देखरेख में होगा । फिर भी इस काम के लिये नयी दिल्ली में एक अमरीकी महकमा खुल गया और उसके अफसरों को राजदूतों जैसे अधिकार दे दिये गये ।

शर्त थी कि कम से कम आधा अनाज अमरीकी जहाजों में लाद कर लाया जायगा । सान फ्रांसिस्को के मल्लाहों की यूनियन के मुखपत्र " डिस्पैचर " ने जुलाई १९५१ में बताया कि जहाजी कम्पनियों के मालिकों ने, यद्यपि वे सरकारी जहाजों का इस्तेमाल कर रहे थे, अनाज ढोने का किराया साढ़े १० डालर फी टन से बढ़ा कर २५ डालर फी टन कर दिया । इस प्रकार आधे अनाज के लिये किराये में १ करोड़ ४५ लाख डालर की बढ़ती हो गयी । वास्तव में, भारत को इससे कहीं ज्यादा रकम देनी पड़ी क्योंकि अधिकतर अनाज अमरीकी जहाजों में ही लाया गया ।

पूरे कानून में एक ही शर्त ऐसी थी जिसे मदद समझा जा सकता था । ७ वीं धारा के अनुसार अमरीकी वैदेशिक विभाग को इस बात की इजाजत दी गयी थी कि कर्ज पर जो सूद आये उममें से वह ५० लाख डालर तक भारत से विद्यार्थियों, शिक्षकों और साहित्य की अदला-बदली पर खर्च कर सकता है । पर कौन से विद्यार्थी और शिक्षक इस अदला-बदली में आयेंगे-जायेंगे, इसका फैसला करने में भारत का कोई हाथ नहीं रहेगा ।

भारत और अमरीका दोनों ही देशों के सरकारी अधिकारियों का कहना था कि इस कर्ज के साथ कोई राजनीतिक शर्तें नहीं जुड़ी थीं । परन्तु, सभी जानते हैं कि सितम्बर, १९५१ में जब भारत ने जापानी सधि के अमरीकी मसविदे पर दस्तखत करने से इनकार किया, तो अनाज का आना यकायक घीमा पड़ गया था, और वह फिर उसी समय शुरू हुआ जब भारत ने तेल कम्पनियों से उपरोक्त समझौते कर लिये थे और पारस्परिक महायता कानून के मातहत मदद लेना मजूर कर लिया था । और याद यह बात भी मतलब से खाली नहीं है कि भारत और अमरीका का पहला मैनिफेस्ट समझौता मार्च १९५१ में हुआ था जब अनाज के कर्ज की बातचीत चल रही थी ।

राजनीतिक शक्तों का और भी प्रत्यक्ष सबूत अमरीकी पार्लामेंट (प्रतिनिधि सभा) की वैदेशिक समिति के सामने दिये गये बयानों में मिलता है। २४ जुलाई, १९५१ को उस समिति की बैठक में उसके अध्यक्ष तथा वैदेशिक विभाग के सहायक मंत्री मि. जॉर्ज मधी में नीचे लिखा वार्तालाप हुआ

चेयरमैन रिचर्ड्स “ मि० मधी, इस मवाल का अभी तक की बातचीत से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर क्या आप बता सकते हैं कि यह गेहूँ वाला मामला होने के बाद से मि० नेहरू क्या करते रहे हैं ?

मि० मधी “ चेयरमैन साहब, हाल में मि० नेहरू ने कई ऐसे बयान दिये हैं जिनको यह समिति हमारे दृष्टिकोण से काफी सतोष-प्रद पायेगी।

“ गत ८ जुलाई को मि० नेहरू ने एक भाषण दिया था। मैं अपने साथ उमकी नकल लेता आया हूँ। शायद आप उसका एक हिस्सा सुनना पसन्द करेंगे ? इसका सम्बन्ध कम्युनिज्म से है।

चेयरमैन रिचर्ड्स : “ क्या पूरा भाषण आप नहीं सुनाना चाहते ?

मि० मधी “ नहीं। सिर्फ एक हिस्सा जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में अपना रुख साफ किया है। मैं समझना हूँ आप उसे सुनना पसन्द करेंगे।

चेयरमैन “ अच्छा, सुनाइये !

मि० मधी “ मि० नेहरू ने कहा है

‘ कम्युनिज्म का बहुतों पर इसलिये प्रभाव पड़ता है कि वह मनुष्य की सबसे जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने और उमकी रक्षा करने का वायदा करता है। पर हम देन चुके हैं कि कम्युनिज्म के साथ-साथ सघर्ष, हिंसा और तानाशाही आती है और हमें व्यक्ति को कुचल दिया जाता है। प्रश्न यह है कि क्या हम जनवादी मूल्यनाथों की वलि दिये बिना आर्थिक

सुरक्षा और उन्नति की व्यवस्था कर सकते हैं ? कोई कारण नहीं है कि हम ऐसा न कर सकें, यद्यपि मार्ग कठिन चर्र हो सकता है ।'

“ इसी हिस्से का सबसे अधिक महत्व है ।

चेयरमैन “ और अभी तक वह कम्युनिज़्म के बारे में जो कुछ कहते आये हैं, उसके यह बिल्कुल विपरीत है । हैं न ?

मि. मधी “ बिल्कुल सही हुआर । ”

अत स्पष्ट है कि यह कर्जा मदद नहीं या और उसके साथ अनेक शर्तें लगी हुई थीं ।

पारस्परिक सहायता कानून के मातहत मिलनेवाली मदद

भारत को सबसे हाल में पारस्परिक सहायता कानून के मातहत मदद मिली है । इसकी इजाजत अमरीकी पार्लामेन्ट ने अक्टूबर १९५१ में दी थी । ५ जनवरी, १९५२ को इसके सम्बंध में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ । उसके अनुसार भारत को ५ करोड़ डालर (या २५ करोड़ रुपये) मिले । पाकिस्तान के साथ समझौता २ फरवरी को हुआ, और उसे १ करोड़ डालर मिले । इसके अलावा, अमरीकी सरकार ने टेकनिकल विशेषज्ञों का खर्चा बर्दाश्त करना मंजूर किया । दोनों सरकारों ने कुछ समय पहले ' चौथे सूत्र के बारे में जो आम समझौता किया था, यह समझौता उसी के मातहत था । पारस्परिक सहायता कानून के अन्तर्गत अमरीका जो रकम खर्च करता है, उसका दसवा भाग कर्जा होता है और बाकी मदद ।

मदद लेनेवाला देश जिम्मेदारी लेता है कि अमरीका जितने डालर खर्च करेगा, कम से कम उसके बरवार वह अपने देश की मुद्रा इस योजना पर खर्चेगा । दोनों देशों की रकमों को मिला कर एक कोष कायम होगा, जिसकी व्यवस्था दोनों मुल्कों के प्रतिनिधि मिल कर करेंगे । आम समझौते के अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम के लिये अलग-अलग समझौते करने पड़ेंगे ।

७ जनवरी को राजदूत चेस्टर वाकल्म ने ऐलान किया कि इस सम्बन्ध में भारत के साथ जो आम समझौता हुआ है, उसमें कोई राजनीतिक शर्त जुड़ी हुई नहीं है । पंडित नेहरू ने भी यही कहा । अमृत बाज़ार

विशेष अधिकार भी लोगों के दिलों में शक पैदा करेंगे। इन कर्मचारियों का राजनीतिक मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और इसलिये उन्हें राजदूतों जैसे विशेष अधिकार देना उचित नहीं मालूम पड़ता। साधारण तौर पर, ऐसे लोगों की, जिनका सम्बन्ध केवल आर्थिक मामलों से है, देश के साधारण कानूनों से पूरी सुरक्षा हो जाती है। समझौते की भूमिका की पृष्ठभूमि में जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, यह विशेष अधिकार विशेष महत्व धारण कर लेते हैं। अतः समझौते को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के पहले भारत सरकार को इन दो बातों के मतलब पर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिये।” (८ जनवरी, १९५२)

पत्रिका ने भारत-अमरीका समझौते के मसविदे को देख कर अपनी यह टिप्पणी लिखी थी। परन्तु पारस्परिक सुरक्षा कानून की धाराओं का शायद उसे विस्तृत ज्ञान नहीं था। धारा ५२९ में साफ साफ लिखा है

“ यदि राष्ट्रपति पाते हैं कि किसी राष्ट्र को मदद देना,

(क) अमरीका के राष्ट्रीय हितों अथवा सुरक्षा के अनुकूल नहीं है या इस कानून की नीति एवं उद्देश्यों से मेल नहीं खाता, या

(ख) सयुक्त राष्ट्र सच की सुरक्षा समिति (मिक्थोरिटी काउंसिल) के किसी फैसले के खिलाफ जाता है, या

(ग) इम सिद्धान्त के खिलाफ जाता है कि जिस राष्ट्र के खिलाफ सुरक्षा समिति या जनरल असेम्बली ने आक्रमण करने या शान्ति को भंग करने या इसकी वमकी देने के कारण कार्रवाई करने की सिफारिश की हो, उसकी सहायता सयुक्त राष्ट्र सच के सदस्यों को नहीं करनी चाहिये,

तो वह इस कानून के मातहत दी जाने वाली मदद को पूरी तौर पर, या आंशिक रूप से बन्द कर देगे।”

मतलब यह कि अगर भारत, मिमाल के लिये, चीन या किर्गी ऐसे देश की मदद करता है जिनमें अमरीका गुण नहीं है, तो अमरीकी मदद बन्द हो जायगी।

अतः ५० नेहरू या राजदूत वाङ्मन्य की तरह जो लोग केवल भारत-अमरीका समझौते की शर्तों को देखते हैं और पारस्परिक सुरक्षा कानून की

शर्तों का जिक्र तक नहीं करते, वे असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अमरीकी मदद का वास्तविक रूप समझने के लिये इस कानून को समझना होगा।

इस परस्पर सुरक्षा कानून का जन्म जनवरी १९५१ में हुआ था जब राष्ट्रपति ट्रुमन ने एक सन्देश में अमरीका की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यक्रम के चौथे सूत्र की व्याख्या की थी। इसका समर्थन करनेवाले न्यू रिपब्लिक नामक एक पत्र ने इस सन्देश के बारे में टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति को सम्बोधित करके यह लिखा था

“...आपके सलाहकारों ने आपको सलाह दी कि आप कांग्रेस (अमरीकी पार्लामेंट) में घुसे हुए अपने विरोधियों को खुश करने के लिये कार्यक्रम के चौथे सूत्र को फौजी वर्दी पहना दीजिये। आपने उनकी सलाह मान ली।” (१० मार्च, १९५२)

इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के चौथे सूत्र को ट्रुमन-सिद्धान्त, मार्शल योजना और अटलान्टिक समझौते के साथ नत्थी कर दिया गया और सबको मिला कर जो खिचड़ी तैयार हुई उसका नाम पास्परिक सुरक्षा कार्यक्रम रखा गया। सैनिक और आर्थिक सहायता में अब तक जो भेद किया जाता था, वह खतम हो गया। भारत जैसे देशों के लिये आर्थिक सहायता का प्रस्ताव पेश करते हुए राष्ट्रपति ट्रुमन ने उसे सैनिक दृष्टि से आवश्यक बताया। २४ मई, १९५१ को, अमरीकी पार्लामेंट के नाम एक सन्देश में उन्होंने कहा :

“एशिया, दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों में सैनिक दृष्टि से ऐसे आवश्यक कच्चे माल और खनिज पदार्थ मिलते हैं जो स्वतंत्र ससार की सुरक्षा और आर्थिक स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना चाहिये। उसके लिये कर्जों की और विकास सम्बन्धी सहायता की आवश्यकता है।”

एशियाई देशों के लिये आर्थिक सहायता का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा .

“स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था, खेती, यातायात, और सूचना के साधनों को सुधारने और प्राकृतिक साधनों के विकास में सहायता देने

के लिये आवश्यक सामान तथा टेकनिकल विशेषज्ञों को (इन देशों में) भेजने के लिये इन रुपयों का इस्तेमाल किया जायगा । ”

आपने देखा, इसमें उद्योग-बंधों का कहीं जिक्र नहीं है । सारा जोर यातायात, सूचना विभाग, और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कच्चे माल तथा खनिज पदार्थों पर है । पारस्परिक सुरक्षा कानून के विषय में प्रतिनिधि सभा की विदेश सम्बन्धी समिति में जो गवाहियाँ हुईं, उनमें इस बात पर बार-बार जोर दिया गया

विदेश मंत्री, **डीन एचीसन** “ जापान से लेकर अफगानिस्तान तक जो अर्ध-चन्द्राकार वृत्त बनता है, उसमें लगभग ७० करोड़ मनुष्य रहते हैं, यानी दुनिया के हर दस अदमियों में से करीब तीन स्त्री-पुरुष इस इलाके में बसते हैं ।...

“ पन्तु स्वतंत्र ससार की सुरक्षा पर गौर करते हुए इस इलाके का जो भारी महत्व हो जाता है, वह केवल उसकी बड़ी आवादी के कारण नहीं है । इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कच्चा माल और खनिज पदार्थ बहुतायत से पाया जाता है वह स्वतंत्र ससार के उत्पादन को जारी रखने के लिये अत्यन्त आवश्यक है, जैसे टिन, रबर, जूट, पेट्रोल इत्यादि । ”

पौल हौफमैन (मार्शल योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक) “ वर्तमान परिस्थितियों में, सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता को सुनियादी तौर पर एक समझना चाहिये ।

“ सहायता के दोनों प्रकार एक दूसरे से इम तरह जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता । वास्तव में, दोनों का रूप तो आर्थिक है, परन्तु मुख्य उद्देश्य दोनों का सैनिक है । एक प्रकार की सहायता में अधिकतर अमरीका में बना फौजी सामान भेजा जाता है, दूसरे प्रकार की सहायता में ऐसी वस्तुएँ भेजी जाती हैं जिनमें स्वयं सहायता पाने वाले देशों के अन्दर ज़्यादा फौजी सामान तैयार हो सके । ”

सहायक विदेश मंत्री, **जॉर्ज मर्फी** “ दक्षिणी एशिया के लिये हमारा कार्यक्रम, इस क्षेत्र की कुल आवश्यकताओं से दृग्गते हुए बन

है, परन्तु उससे लाभ बहुत होगा और स्वतंत्र सप्सार-की ताकत बढाने तथा हमारी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में उससे बहुत मदद मिलेगी ।

“ दक्षिणी एशिया के १५,००,००० वर्ग मील के इलाके में करीब ४५ करोड़ आदमी रहते हैं और काली मिर्च से लेकर मैंगनीज तक अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएँ इस इलाके में पायी जाती हैं ।...

“ दक्षिणी एशिया के देशों में से तीन अभी हाल में आजाद हुए हैं और सभी देशों की सरकारें गैर-कम्युनिस्ट हैं । एशियाई कम्युनिज्म के वढाव को रोकने के लिये गैर-कम्युनिस्ट राजनीतिक सस्थाओं का अबाध विकास अत्यन्त आवश्यक है । राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ बनने के लिये ये देश स्वतंत्र सप्सार से सहायता पाने की आशा रखते हैं । अन्दरूनी राजनीति में इन देशों ने कम्युनिज्म का खुल्लमखुला विरोध करके और कम्युनिस्ट कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाइ करके इस बात का सबूत दे दिया है कि वे कम्युनिज्म के खतरे से भली भाँति परिचित हैं ।...

“ अमरीका के लिये उसके (भारत के) कच्चे मालों का क्या महत्व है, यह इस बात से प्रकट हो जाता है कि १९५० में अमरीका में जितना मैंगनीज बाहर से आया था, उसका ३६७ प्रतिशत भाग, अवरक का ८७४ प्रतिशत भाग, कायनाइट का ५५३ प्रतिशत भाग, और जूट का ८०५ प्रतिशत भाग भारत से आया था ।

“ भारत में दुर्लभ कच्चे मालों के उत्पादन और निर्यात को वढाने के वास्ते भूगर्भ जाँच कराने के लिये टेकनिकल सहायता दी जा सकती है ..

“ पाकिस्तान का अधिकतर क्रोमाइट अमरीका चला आता है ।..

“ पारम्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के मातहत जो आर्थिक सहायता पाकिस्तान को दी जायगी, उसमें सबसे अधिक जोर खेती का ढग सुधारने पर दिया जायगा ।

“ इस कार्यक्रम में तेजी से सटके बनाने के आधुनिक उपायों को प्रचलित करने का काम भी था मकना है । भूगर्भी जाच से पाकिस्तान को अनेक मामलों का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी । .”

मार्शल योजना के व्यवस्थापक, विलियम फौस्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सैनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे मालों का उत्पादन बढ़ाना है और उसमें “ प्रत्येक कोशिश की जायगी कि प्राइवेट पूंजी और व्यक्तिगत उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा और प्रोत्साहन मिले । ”

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ने फौजी मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमरीकी सरकार मदद की शकल में जो फौजी सामान उन्हें दे रही थी, वह उनके किसी काम का न था । इसलिये इन देशों को केवल आर्थिक मदद देने का निश्चय किया गया ।

भारत-अमरीका समझौते पर हस्ताक्षर होने के समय भारत के विदेश विभाग ने एक वयान में बताया कि अमरीका से आनेवाली मदद का अधिकतर भाग खेती की योजनाओं पर खर्च किया जायगा ।

इस सबसे, यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम का बुनियादी उद्देश्य सैनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे मालों का उत्पादन बढ़ाना है, और इसलिये, भारत-अमरीका समझौते की भूमिका में “ भारत के सुनियोजित आर्थिक विकास ” की जो बात कही गयी है, वह कोई अर्थ नहीं रखती ।

यही नहीं । २४ जुलाई, १९५१ को मि मर्फी ने प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग समिति के सामने उन योजनाओं के बारे में एक वयान दिया था जो विदेश विभाग भारत में प्रारम्भ करना चाहता था । भारत की अन्दरूनी परिस्थिति पर खूब विस्तार से विचार प्रकट करने के बाद उन्होंने पहले खेती, मछली मारने, और भूगर्भी जैँच की योजनाओं की तफसील बताया और फिर कहा

“ इन योजनाओं के अलावा, जिनका मैंने अभी वर्णन किया, कुछ और योजनाएँ भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना पसन्द नहीं आता । ”

“ इसके आगे की बातचीत लिखी नहीं गयी । ”

(पारस्परिक सुरक्षा कानून प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग समिति के सामने दी गयी गवाहियाँ, पृष्ठ १००३)

पाकिस्तान के सम्बन्ध में मि० मर्फी ने जो वयान दिया, उसके अन्त में भी यही नोट दिया हुआ है ।

प्रश्न बहुत साधारण सा यह है कि यदि इस कार्यक्रम का सम्बंध केवल आर्थिक सहायता से है, तो फिर मि० मधी की योजनाओं को इस तरह छिपाने की क्या जरूरत थी ? यह गुपचुप क्या बातचीत हो गयी ? उसे लिखा क्यों न गया ? वे ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं जिन्हें अमरीकी सरकार अपने यहाँ की जनता तक से छिपा कर रखना चाहती है ? और जिनके बल पर मि मधी को नीचे लिखा यह दावा करने का साहस हुआ

“ हमारा विचार है कि इस छोटे से कार्यक्रम से ... तटस्थता की उस भावना को दूर करने में मदद मिलेगी जो दुर्भाग्य से अभी तक (भारत में) फैली हुई है । ”

१९ जनवरी, १९५२ को राजदूत वाऊल्स ने ऐलान किया कि भारत “ निश्चित रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ है । ” इसके ठीक दो सप्ताह पहले भारत पारस्परिक सुरक्षा सहायता वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका था ।

सातवां अध्याय

भारत की अर्थ-व्यवस्था से अमरीका को लाभ

भारत की मौजूदा अर्थ-व्यवस्था में अमरीका को बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि उससे उसे भारी लाभ होता है। भारत के व्यापार में अमरीका ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है और भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार अधिकाधिक अमरीकी मदद पर निर्भर होती जा रही है और इसलिये उसकी आर्थिक नीति पर अमरीका गहरा प्रभाव डाल सकता है।

अंग्रेजों ने भारत पर दौं सौ वर्ष तक राज किया, परन्तु अमरीका निर्झ तीन साल की कोशिशों में उनकी बरावरी करने का दावा करने लगा है। मिसाल के लिये १९४८ में भारत और पाकिस्तान में जो अंग्रेजी पूंजी लगी हुई थी, उसका जोड़ ३१ करोड़ ९० लाख पौण्ड होता था। अमरीका ने कर्ज और मदद के रूप में तीन साल के अन्दर कुल १२ करोड़ ५० लाख पौण्ड की पूंजी भारत और पाकिस्तान भेज दी है।

भारत में रबर की ट्यूब और टायर बनाने वाली दो फैक्ट्रियों हैं। उनमें से एक अमरीकी है। यहा तेल साफ करनेवाले तीन कारखाने चलने वाले हैं। उनमें से दो अमरीकी होंगे। इसके अलावा जूट, लान, पुर्जें जोड़ कर मोटर खड़ी करने, कैमिकल, रेयॉन, मैगनीज, रेडियो, दवाइयाँ आदि के उद्योगों और बैंको तथा बीमा कम्पनियों में भी अमरीकियों का हाव है। हिन्दुस्तान के प्रत्येक गाव में उनका आर्थिक प्रभाव महसूस किया जा सकता है।

अमरीका के साथ भारत के आजकल जैसे आर्थिक सम्बन्ध हैं, उनसे भारत के हितों को घक्का लगता है और अमरीका को मोटे मुनाफे होते हैं।

१९४९ में भारत, पाकिस्तान, वर्मा और ल्का में अमरीकी कम्पनियों की ५ करोड़ डालर की पूंजी लगी हुई थी। उस पर उन्होंने १ करोड़ ९० लाख

का मुनाफा कमाया। इस रकम में अमरीकी बीमा कम्पनियों के मुनाफे शामिल नहीं हैं और न उन मुनाफों को इसमें जोड़ा गया है जो फिर से व्यवसाय में लगा दिये गये।

१९४९ के बाद से भारत और पाकिस्तान में अमरीका ने बहुत सी और पूजी लगायी है। तेल साफ करनेवाले दो कारखानों में ही ७ करोड़ डॉलर की पूजी लगनेवाली है।

भारत में लगी हुई अमरीकी पूजी का हिसाब करते समय हमें उस पूजी का भी ध्यान रखना होगा जो अप्रत्यक्ष ढंग से, ब्रिटिश, और किसी कदर कनाडा की कम्पनियों के जरिये यहाँ लगी है। ब्रिटेन की बहुत सी कम्पनियों में अमरीकियों के हिस्से हैं—विशेष कर उन बड़ी कम्पनियों में जो विदेशों में पूजी लगाने की सामर्थ्य रखती हैं। अतः ब्रिटिश कम्पनियों को हिन्दुस्तान में लगी हुई पूजी से, भारतीय व्यापार से और सामान लाने-लेजाने वाले जहाजों से जो मुनाफा होता है, उसका एक भाग अमरीका के हिसाब में गिना जाना चाहिये। यदि ब्रिटिश धार्मिक व्यवस्था के इन अर्गों पर अमरीका का २५% नियंत्रण मान लिया जाय तो अग्रज कम्पनियों के जरिये अमरीका को होने वाला मुनाफा ३० करोड़ रुपये साल का बैठता है।

इसके अतिरिक्त भारत के साथ व्यापार करके भी अमरीका खूब कमाता है। आज पूजीवादी दुनिया में अमरीका का चोलवाला है। बहुत सी वस्तुओं का व्यापार तो पूरी तरह उसकी मुठ्ठी में है। इसलिये, अपनी विशेष स्थिति से फायदा उठा कर वह अपने यहाँ आने वाली चीजों के दाम कम और दूसरे देशों को जाने वाली चीजों के दाम ज्यादा लगा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सच ने हाल में पिछड़े हुए देशों के आयात और निर्यात के दामों का अध्ययन किया था। उससे पता चला कि ये देश अमरीका और ब्रिटेन को जो माल भेजते हैं, उनके एवज में उन्हें १९४७ में १९१३ की तुलना में बहुत कम दाम मिले। अनुमान किया जाता है कि इस तरह इन देशों को २५ करोड़ से ठेकर ३० करोड़ डॉलर तक का वार्षिक नुकसान हो रहा है। इस स्थिति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ना है, जरा अब यह देखिये।

पर दाम दिये । परन्तु १९४८ में ही, न्यू यॉर्क में अख्तवारी कागज का दाम ४८८ डालर फी सौ पौण्ड था ।

१९४८-४९ में भारत ने अमरीका से ७,२२,००० पौण्ड पैकिंग करने का कागज १,५२,००० डालर में खरीदा, यानी हमने २१ डालर फी १०० पौण्ड की दर से दाम दिये । १९४८ में न्यू यॉर्क में पैकिंग के कागज का भाव ६७१ डालर फी सौ पौण्ड था ।

१९४८-४९ में भारत ने २७,४०८ टन टीन ५३,२६,००० डालर में, यानी २०० डालर फी टन के भाव पर खरीदा । १९४८ में टीन का अमरीका में क्या भाव था, यह हमें ज्ञात नहीं है, परन्तु १९४७ में उसका भाव ११५ डालर और १९४९ में १५५ डालर फी टन था ।

इसलिये, बहुत कम करते हुए भी यदि हम यह अनुमान लगाये कि अमरीका ने भारत से आने वाली चीजों के एवज में ३० प्रतिशत कम दाम दिये और भारत जाने वाली चीजों के एवज में ३० प्रतिशत ज्यादा दाम लिये, तो १९५० के २०० करोड़ रुपये के भारत-अमरीका व्यापार पर केवल इस मद से ही अमरीका को होनेवाला मुनाफा ६० करोड़ रुपये बैठता है ।

इसके अलावा, अमरीका पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि देशों के जरिये भी भारत से मुनाफा कमाता है, क्योंकि इन देशों की अर्थ-व्यवस्था पर उसका नियंत्रण है । फिर, भारत से आने वाले माल पर और भारत को जाने वाले माल पर अमरीका में जो चुगी लगती है, उसमें भी काफी कमाई होती है । मिमाल के लिये, १९५६ में भारत ने अमरीका को जो माल भेजा, उस पर हमें १,३१,५६,००० डालर चुगी के रूप में देने पड़े थे ।

हमारे देश में लगी हुई अमरीकी पूंजी से होने वाले मुनाफे तथा व्यापार से होने वाले लाभ के अलावा दूसरे विभिन्न टग में भी अमरीका काफी कमाता है—जैसे बीमे की फीम, जहाजों का फ्रिगया, फिर्मों का किराया, रायन्टी, तनखाएँ, कर्जों का मूद इत्यादि । विदेशों में यात्रा, जहाजों का किराया और बीमे की फीम की मद में भारत ने १९५६ में २८३ लाख रुपये और १९५७ में ६०४ लाख रुपये अमरीका को देने पड़े थे । ये रिजर्व बैंक ने आकटे ह ।

इसलिये, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अमरीका को भारत से १ अरब रुपये का वार्षिक मुनाफ़ा होता है। इसे शोषण न कहा जाय तो और क्या कहा जाय ? साम्राज्यवादी शोषण और कैसा होता है ?

अत यदि अमरीका को भारत में अपने स्वार्थों की रक्षा करने की इतनी फ़िक्र है तो आश्चर्य क्या है ? परन्तु भारत को इस सम्बंध से सरासर नुक़सान ही नुक़सान है। कारण कि भारत के अमरीका से दबने का कोई कारण नहीं है। यदि भारत को अमरीका के कारख़ानों के बने-माल की जरूरत है, तो अमरीका को भी हमारे कच्चे माल की आवश्यकता है। जैसा कि उद्योग मंत्री डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने ऊटी सम्मेलन में कहा था

“सौदा करने की ताकत हम में भी है। यदि हमें उनसे मशीनें चाहिये तो उन्हें हमारे जूट, हमारे रबर, हमारे टिन, हमारे टंगस्टेन, और दूसरी ऐसी अनेक वस्तुओं की सख्त जरूरत है जिनके बिना उनके कारख़ाने नहीं चल सकते।” (‘हिन्दू,’ ६ जून, १९४८)

परन्तु इस सौदा करने की ताकत से भारत सरकार ने और भारतीय पज़ीपनियों ने कोई काम न लिया। इसके बावजूद उन्होंने अमरीका के आधीन होकर रहना स्वीकार किया, और अब तो वे रोज़ नये बंधनों का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा करते समय, जब उन्हें और कोई तर्क नहीं मिलता है, तो वे कहते हैं कि सोवियत संघ ने भी नो शुल्क में विदेशी सहायता स्वीकार की थी और चीन ने सोवियत से मदद ली है। थोड़ा सा विचार करने पर तुरन्त पता चल जायगा कि उन्होंने कितनी ग़लत भिमांल ढ़की है।

सोवियत संघ ने शुरू में कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाये ज़रूर थे, परन्तु बाद में पता चला कि उनमें से बहुत से अपना काम करने के बजाय विदेशी सरकारों की तरफ़ से ज़ासूसी किया करते थे। सोवियत के अनुभव से यदि कुछ निश्चिन्त होना है तो सिर्फ़ यही कि साम्राज्यवादी देशों से विशेषज्ञ बुलाना ज़रूरत का ख़तरा मोल लेना है। और सोवियत ने विदेशी पूंजी कितनी दुर्लभ थी ? १९२६-२७ में सोवियत में लगी हुई विदेशी पूंजी कुछ औद्योगिक पूंजी का अंश मात्र प्रतियोग होती थी। और भारत सरकार पंच-वर्षीय योजना के लिये ही लगभग ४० प्रतिशत पूंजी विदेशों से मगाना चाहती है।

अब चीन और सोवियत सघ के समझौते को लीजिये, जिस पर १४ फरवरी, १९५० को हस्ताक्षर हुए थे। इसके मुताबिक सोवियत सघ, चीन को ३० करोड़ डालर कर्ज देगा। इस समझौते में तफसील के साथ लिखा गया है कि सोवियत सघ क्या-क्या मशीनें और दूसरा सामान चीन को देगा और चीन उनके एक्ज में क्या चीजें सप्लाई करेगा। उसमें न कोई राजनीतिक शर्त है, और न "देखरेख" की किसी प्रकार की व्यवस्था का जिक्र है। सूद की दर केवल १ प्रतिशत है।

२७ मार्च, १९५० को चीन और सोवियत सघ के बीच जो समझौता हुआ, उसके मातहत तीन सयुक्त कम्पनियों बनायी गयी हैं जो सिकियांग में तेल और वातु के उत्पादन का प्रबंध करेंगी और हवाई यातायात का प्रबंध करेंगी। इन कम्पनियों में दोनों देशों की बराबर-बराबर पूंजी लगी है, और व्यवस्था तथा मुनाफे में भी दोनों का बराबर का हिस्सा है। इन कम्पनियों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं। जो कानून और नियम चीनी कम्पनियों पर लागू हैं, वे ही इन्हें भी मानने पड़ते हैं। इन कम्पनियों के जीवन की एक अवधि बाध दी गयी है, उसके समाप्त होने पर चीन को अधिकार होगा कि बिना मुआवजा दिये कम्पनियों पर अधिकार कर ले। यानी, उनके खरिये चीन में कोई स्थायी विदेशी स्वार्थ नहीं पैदा होता।

इसलिये, जाहिर है कि इन समझौतों की भारत-अमरीका समझौतों से तुलना नहीं की जा सकती। कुछ प्रभावशाली भारतीय फिर भी क्यों अमरीका के जाल को हमारे देश में फैलाना चाहते हैं? इसका कारण जानने के लिये भारत-अमरीका सम्बन्धों के कड़े पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। यहाँ हम सिर्फ एक पहलू की तरफ इशारा करेंगे।

जनवरी, १९४५ की बात है। उस वक्त डॉ पी एस लोकनाथन विदला के यहाँ नौकर थे। डॉ लोकनाथन ने अमरीकी सरकार के नाम से लड़ाई के बाद भारत को ३ अरब डालर कर्ज देने का मुआवजा रखा। विदला के पत्र इस्टर्न इकोनोमिस्ट के अर्द्धों में, टाइटल "वाटर को,

"पता चला कि 'अमरीका से भारत को यी-पे-नीचे यदि ऐसा कर्ज मिलेगा तो उसके साथ बहुत सी राजनीतिक शर्तें लगी हूँगी', उदाहरण के लिये, आदामन देना होगा कि कर्ज लेने वाले देश न

राजनीतिक शांति रहेगी और क़जा ऐसे उद्योग बनाने में नहीं खर्च किया जायेगा जो बाद में अमरीकी उद्योगों से प्रतियोगिता करे। दक्षिणी अमरीका के देशों में कर्जों के जरिये राजनीतिक मतलब साधा गया है, परन्तु यदि हम इस खतरे को अनदेखा कर दे, तो भी ये ज़रूर कर्जों को मखौल बना देती हैं। इसलिये, अमरीकी सरकार तथा अमरीकी व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बहुत विस्तार के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के बाद डॉक्टर लोकनाथन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भारत सरकार के लिये यह उचित न होगा कि वह सीधे अमरीका से कर्जा माँगे।”

परन्तु, आज बिड़ला अमरीका से कर्जा लेने के कट्टर समर्थक हैं और लोकनाथन, संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक कमीशन (यूनेस्को) के कार्यवाहक मंत्री की हैसियत से उसका समर्थन कर रहे हैं। यह मत-परिवर्तन, वास्तव में, भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति में कुछ बुनियादी परिवर्तनों का सूचक है।

भारत के अधिकतर पूँजीपति तथा व्यापारी आशा लगाये हुए थे कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद उनके व्यवसाय और व्यापार फले-फूलेंगे। इसीलिये, उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का साथ दिया था। परन्तु, दूसरे वर्गों के कुछ और हित थे। वे न केवल साम्राज्यवादी शोषण का अन्त करना चाहते थे, बल्कि पूँजीवादी शोषण की उग्रता को भी कम करना चाहते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन ने कार्यक्रम में कुछ हद तक यह बात शामिल भी थी।

पूँजीवाद के प्रति वह अधिक उदारता का बरताव करे और वामपक्षियों के साथ सख्ती से पेश आये।

परिणाम-स्वरूप भारत में तीन पूँजीवादी गुटों का एक नया सयुक्त मोर्चा बन गया। इनमें सबसे तातकवर भारत में व्यवसाय करने वाली अग्रज कम्पनियाँ थीं, जिनमें से कुछ का अमरीकी कम्पनियों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनके बाद भारतीय पूँजीपतियों का वह भाग आता था जो सख्ती में कम पर प्रभाव में बहुत शक्तिशाली था और जिसने सदा अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर रखा था। तीसरा गुट राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक पूँजीपतियों में से सबसे प्रभावशाली लोगों का था जिन्होंने पिछले चन्द वर्षों में विदेशी पूँजी से गठबंधन कर लिया था। ये लोग भी अब पहले दो गुटों के साथ मिल गये थे। इस त्रिगुट को सबसे बड़ा सहारा विदेशी पूँजी का था। बहुत से क्षेत्रों में उनके हित और विदेशी एकाधिकारियों के हित मिलकर एक हो गये थे।

इस त्रिगुट की प्रबल शक्ति का अनुमान लगाने के लिये इतना कह देना काफी होगा कि भारत के सबसे बड़े पूँजीपति—घनश्याम दास विड़ला, जे आर डी टाटा, रामकृष्ण डालमिया, बालचन्द्र हीराचन्द्र, कस्तूरभाई लालभाई और अम्बालाल साराभाई—सब किसी न किसी रूप में विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों से बंधे हुए हैं। और जिन प्रमुख उद्योगों पर विदेशियों का सीधा प्रभुत्व नहीं है, वे सब इन्हीं लोगों के हाथ में हैं।

अतः इस त्रिगुट के दबाव और असर के खिलाफ वही सरकार गड़ी रह सकती है जिसके रहनुमा सच्चे साम्राज्य-विरोधी हों। कांग्रेसी सरकार में यह ताव न थी कि उनकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत कर सके। वल्कि वह तो पूरी तरह उनकी मुठ्ठी में थी। जैसा कि प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री एन सी सोवानी ने लिखा है -

“व्यापारी वर्ग और कारखानेदार, जाहिर है, पूरी तरह अमरीकियों के साथ हैं। अमरीकी पूँजी किस क्षेत्र में लगे — जैसे कुछ प्रश्नों पर भले ही उनके कुछ मतभेद हों, पर ये तो आपसी बातचीत में हल हो जाने वाले सवाल हैं। भारत सरकार भी चूँकि अधिस्तरीय इन्हीं लोगों के असर में है, इसलिए वह भी इसी पक्ष के साथ है।”

भारत के बड़े पूंजीपति, विदेशी पूंजीपतियों की ओर झुक रहे हैं और उनका अपने देश की सरकार पर बड़ा प्रभाव है—यह अमरीका वाले भी अच्छी तरह जानते थे। फिलिप्स टैलबोट नामक एक अमरीकी लेखक ने यह लिखा है

“ कट्टर दक्षिणपथी पटेल भी पूंजीपतियों का मित्र है। एक बार एक अमरीकी कूटनीतिज्ञ को पटेल ने दावत पर बुलाया। वहाँ करोड़पति घनश्याम दास विड़ला भी मौजूद थे। वह इस विषय पर बातचीत करने को बहुत उत्सुक मालूम पड़ते थे कि अमरीका के साथ भारत के वैसे आर्थिक सम्बंध हो सकते हैं। अमरीकी कूटनीतिज्ञ ने बाद में किसी से कहा उस बातचीत के दौरान में मेरी समझ में नहीं आता या कि (भारतीय) सरकार की ओर से कौन बोल रहा है, पटेल या विड़ला।”
(‘ दि रिपोर्टर ’, न्यू यॉर्क, १८ जुलाई, १९५०)

अमरीका की वैदेशिक नीति और भारत

७ दिसम्बर, १९४७ को राजदूत एफ ग्रेडी ने कहा था

“ भारत को विश्व सघर्ष में अपने साथ रखना हमारे लिये भारी महत्व रखता है । ” (न्यू यॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून)

अमरीकी सरकार के रक्षा विभाग की राय में दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से भारत ने हाल में अमरीकी नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है

“ हिन्दुस्तान का महत्व केवल इसी बात में नहीं है कि पाकिस्तान को मिला कर उसका क्षेत्रफल योरप के बराबर हो जाता है और उसकी आवादी बहुत बड़ी है, बल्कि इस बात में भी है कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों में भारत जो रुज लेता है, उसका दूसरे एशियाई राष्ट्रों के रुज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । ” (अमरीकी रक्षा विभाग के प्रकाशन **भारत—पूर्व की ‘ तीसरी शक्ति ’** से । यह पुस्तिका सैनिकों की शिक्षा के लिये प्रकाशित की गयी है ।)

भारत को अपनी तरफ करने की यह अमरीकी कोशिश कई बरस में चल रही है । १९४५ में, जब अमरीका जाने वाले हिन्दुस्तानियों के सम्वन्ध में एक बिल पर अमरीकी कांग्रेस (पार्लामेंट) में बहस चल रही थी, तो उसी साल १० अक्टूबर को प्रतिनिधि सभा के सदस्य नोआ मेसन ने कहा था

“ अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, और यह समझते हुए कि अमरीका और हम के बीच सम्बन्धी अव्युत्पन्न हो रही है, मैं कहता हूँ कि हम लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए । ” (‘ हिन्दू ’, १२ अक्टूबर, १९४५)

अतः भारत के प्रति अमरीका की नीति का मुख्य आधार, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के वास्ते एक मोर्चा बनाने की उसकी सार्वव्यापी नीति है। परन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद अमरीका की नजरों में भारत का महत्व कुओमिन्तांग चीन और जापान के बराबर नहीं था।

अमरीका को भारत में बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। भारतीय जनता की साम्राज्य-विरोधी परम्परा बहुत पुरानी थी और वह अमरीका को भी यदि साम्राज्यवादी नहीं तो कम से कम साम्राज्यवादियों का मित्र जरूर समझती थी।

१२ जनवरी, १९४७ को राजदूत आसफअली ने भारत सम्बन्धी अमरीकी आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त उनका देश एक "उग्र राष्ट्रवादी" अवस्था से गुजर रहा है। जहाँ कहीं से भी उसे सहानुभूति और गढ़ायना मिलती है, वह उसका स्वागत करता है। इस प्रकार, आसफ अली साहब, वास्तव में इस बात की सफाई दे रहे थे कि दक्षिणी अफ्रीका के संवत् पर सोवियत संघ ने भारत का जिस तरह साथ दिया है, उसके कारण भारतवासी हम के प्रति कृतज्ञ बनते दिखाई देते हैं।

इसलिये, इस जमाने में अमरीका की यह कोशिश थी कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव डाल कर जल्द से जल्द इस "उग्र राष्ट्रवादी अवस्था" का अन्त पर दिया जाय ताकि भारत बराबर अमरीका का समर्थन करे।

१९४९ के शुरू में, अमरीका ने भारत पर दबाव डाला कि वह ट्रेन्नीशिया तथा दमरे औपनिवेशिक देशों की मदद करने में इतनी चुम्की न दिगावे।

१ जनवरी, १९४९ को ट्रेन्नीशिया के संवत् पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने हुए, प नेटव ने पश्चिमी योरप की सरकारों तथा अमरीका की कर्तव्य-संवेनना की कसौटि ने उच्च साम्राज्यवादियों की मदद कर रहे थे। नेटव ने कहा

द्वीप समूह को जाने वाली मार्शल सहायता तो बन्द कर दी गयी है, पर हालैण्ड को अभी तक यह मदद दी जा रही है।”

प नेहरू ने माग की कि डच सरकार फौरन अपनी फौजें इंडोनीशिया से हटा ले और दुनिया की दूसरी सरकारें हालैण्ड को मदद देना बन्द करें।

अमरीका में इस वयान से बड़ी चिन्ता पैदा हुई। अमरीकी लेखक लौरेंस के रोजिजर के शब्दों में

“ वार्शिंगटन और लदन को चिन्ता थी कि (नयी दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में) वातचीत पता नहीं क्या रख अख्तियार कर ले। मिसाल के लिये, डर था कि कहीं यह सम्मेलन औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ पूरव के लोगों की भावनाओं को उकमाने का काम न करे, कहीं ऐसा न हो कि इस सम्मेलन में एक एशियाई मोर्चे की नींव पड़ जाय, और पता नहीं दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पड़े। डर था कि कहीं यह सम्मेलन सयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा समिति पर दवाव डाल कर उससे कोई ऐसा काम कराने में न सफल हो जाय जिमके लिये अमरीका और ब्रिटेन तैयार नहीं हैं। यह भी खतरा था कि कहीं फिलस्तीन जैसे दूसरे नाजुक सवाल भी न इस सम्मेलन में उठ आये। इन सब बातों को ध्यान में रख कर अमरीका ने भारत पर काफी कूटनीतिक दवाव डाला कि नयी दिल्ली का सम्मेलन जहा तक सम्भव हो, एक नरम रख अपनाये और अधिक से अधिक सीमित क्षेत्र में काम करे।” (फॉर इस्टर्न सरवे, ५ अक्टूबर, १९४९, पृष्ठ २३१)

सम्मेलन का प्रचार इस टग से किया गया था जिमसे मालम पड़े कि वह पूरे एशिया का सम्मेलन है। परन्तु, सोवियत प्रजातंत्रों को या वियतनाम को निमन्त्रण नहीं दिया गया था, यद्यपि नयी दिल्ली में होने वाले पहले एशियाई सम्मेलन में इन देशों ने भाग लिया था। इन्दोनी और ऑस्ट्रेलिया और न्यू जॉर्लैण्ड को दावतनामा भेजा गया था। ८ जनवरी, १९४९ को लन्दन के इकोनोमिस्ट ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि “ पश्चिम नेहरू ने जिन देशों को निमन्त्रण भेजा है, उन मूर्चा में कई महत्वपूर्ण देशों के नाम शामिल हैं।”

९ जनवरी को पंडित नेहरू ने एक और वयान दिया। उसमें पश्चिमी सच और मार्शल योजना का कोई जिक्र न था और कहा गया था कि एशियाई मोर्चा बनाने का किसी का कोई इरादा नहीं है। इसके दस रोज बाद, भारत सरकार के समाचार विभाग ने अपने ओटावा दफ्तर से एक वयान निकाला। उसमें यह लिखा था

“ पाचवीं बात ब्रिटेन और अमरीका का रुख—शुरू में इन दोनों देशों को जो घबराहट हुई, उसका कारण यह डर था कि कहीं एशियाई देश इस पहले सम्मेलन के बाद समान हितों के लिये मिल कर काम करना न सीख ले और इस तरह कहीं वे पश्चिमी शक्तियों की आधीनता से मुक्त न हो जायें। इन दोनों सरकारों से जो विचार-विनिमय हुआ, उसमें अब उनकी सद्भावना प्राप्त हो गयी है। ”

न्यू यॉर्क टाइम्स ने २२ जनवरी को लिखा

“ बताया जाता है कि इस सम्मेलन में भारत में अमरीकी राजदूत, लौय हेण्डरसन बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं। ब्रिटेन की राय से, मि हेण्डरसन बड़ी होशियारी से भारतीय प्रधान मंत्री पं जवाहरलाल नेहरू को यह गलाह दे रहे हैं कि उन्हें अमरीका और ब्रिटेन की इस आशा का ध्यान रखना चाहिये कि सम्मेलन नरम रुख अपनायेगा और ऐमें फलले करेगा जिन पर मचमुच अमल किया जा सके। ”

इस दवाव का पहला परिणाम यह हुआ कि इस सम्मेलन में इंडोनीशिया के मित्र और मिस्त्री सवाल पर विचार न हुआ। लौरेंस रोजिजर ने अपनी पन्तु, भारत और अमरीका में किया है

गयी थी कि सम्मेलन में भाग लेने वाले डेज आगे फिर विचार-विनिमय करेंगे। यह बात भी महत्वपूर्ण थी कि किसी प्रस्ताव में यह मुझाव भी नहीं दिया गया था कि पश्चिमी राष्ट्रों को हालैण्ड की मदद नहीं करनी चाहिये।” (पृष्ठ ९९)

जाहिर था कि भारत ने अमरीका के दबाव के मामले तिर झुका दिया था। रोजिजर के ही शब्दों में

“ आने वाले महीनों में इंडोनीशिया के सवाल पर भारत ने खुलेआम बहुत कम दबाव डाला। इस प्रश्न पर जो मार्क्सवादी वाद-विवाद चल रहा था, उसमें भारत अब अधिकाधिक पृष्ठभूमि में ही रहना चाहता था। वास्तव में, नयी दिल्ली और वाशिंगटन ने अब जान लिया था कि (पूर्वी) द्वीप समूह के बांधे में उनके सोचने के तरीकों में बहुत कुछ साम्य है।” (पृष्ठ १००)

विचारों का साम्य इंडोनीशिया के प्रश्न तक ही सीमित न था। यह उस समय प्रकट हुआ जब भारत ने मई १९४९ में ब्रिटिश कौमनवेल्थ में रहने का फैसला कर लिया। जैसा कि इस्टर्न इकोनोमिस्ट ने लिखा था

“ कौमनवेल्थ सोवियत रुम के मुकाबले में अमरीका के ज्यादा नजदीक है। इसलिये कौमनवेल्थ में शामिल रहने का मतलब असल में यह होता है कि हम अमरीका की ओर झुक रहे हैं। इस राजनीतिक सचाई का परिणाम क्या होगा, यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये। छोटे सवाल को छोड़ कर, हम राष्ट्र सभ में, या और कहीं, जोड़े ऐसी नीति नहीं अपना सकते जो कौमनवेल्थ और अमरीका की नीति के विपरीत हो।” (३१ दिसम्बर, १९४८)

पं. नेहरू की अमरीका यात्रा

अमरीकी कठपुतली च्यांग काई-शेक की चीन में हार होने के बाद अमरीका की नजरों में भारत का महत्व एकाएक बढ़ गया। प्रतिद्व पत्रकार चार्ल्स लिपमैन ने जनवरी, १९४९ में ही लिखा था

“ जाहिर है कि राष्ट्रवादी चीन, हालैण्ड और फ्रान्स में अब नाम नहीं कि वे एशिया में वह भूमिका पूर्ण कर सकें जिन्की हम उनसे

आशा करते थे। तो अब हमारे मददगार कहीं से आयेंगे? एशिया में अमरीकी नीति निश्चित करने के लिये हमें पहले इस युनियादी समस्या को हल करना होगा।

“ मेरी राय में, बहुत उचित होगा यदि चीन और इंडोनीशिया में अपनी पूरी नीति तै करने के लिये हम नेहरू से बातचीत शुरू करें। ”
(न्यू यॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून, १० जनवरी, १९४९)

इसके कुछ सप्ताह बाद ५० नेहरू को अमरीका बुलाया गया और ११ अक्टूबर से ७ नवम्बर १९४९ तक उनका अमरीका में खूब स्वागत हुआ। चीन में अमरीका की हार के बाद भारत का महत्व क्यों इतना बढ़ गया था, यह अमरीकी समाचार पत्रों की टिप्पणियों से स्पष्ट हो गया। ३० अगस्त, १९४९ को युनाइटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने यह समाचार भेजा था :

“ ऐसे कूटनीतियों की संख्या बढ़ रही है जो समझते हैं कि एशिया में अमरीका की सफल वैदेशिक नीति की कुजी भारत .. है। ”

२५ सितम्बर को ओवरसीज न्यूज एजेंसी के सवाददाता मैल्कौल्म हौब्स ने यह लिखा

“ अमरीकी वैदेशिक नीति के विकास का अगला क्षेत्र भारत होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेविन और अमरीका के विदेश मंत्री एचीसन की बातचीत में यह निश्चय किया गया .

“ भारत को यहाँ एक ऐसा अपूर्व अवसर समझा जाता है जिससे लाभ उठाकर अमरीका एशिया में अपनी द्वार को जीत में बदल सकता है। ” (डेली कम्पास, २६ सितम्बर, १९४९)

अक्टूबर के शुरू में, सुदूर पूर्व की समस्याओं के अमरीकी विशेषज्ञ जेवेल लैट्टीमूर ने लिखा और जो ९ अक्टूबर १९४९ को प्रकाशित हुआ

“ चीनी कम्युनिस्टों ने सारे चीन की एक नयी सरकार बनाकर अपना काम शुरू कर दिया है।

“ इस घटना का मुकाबला करने के लिये अमरीका ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वह प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। वरुं

जोरों से यह कोशिश होनेवाली है कि भारत—पाकिस्तान नहीं—अमरीका की विश्व नीति का एक मुख्य अंग बन जाय। यह कोशिश या तो प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की अमरीका यात्रा के समय या उसके बाद आरम्भ होगी।” (सन्डे कम्पास, न्यू यॉर्क)

१६ अक्टूबर, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने यह लिखा

“ महीनों से, चीन में कम्युनिस्ट फौजें बढ़ती आ रही हैं और वाशिंगटन की आशाएँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्र, भारत पर और उस व्यक्ति—प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू—पर लगी हुई हैं जो उसकी नीति निर्धारित करता है। अमरीका को आशा है कि भारत एशिया में प्रजातांत्रिक तत्वों का केन्द्र-बिन्दु बन सकेगा। ...

“ अमरीका फिर से पश्चिमी प्रभाव को शक्तिशाली बनाने और इस प्रकार सुदूर पूर्व में कम्युनिज्म को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस उद्देश्य को सामने रख कर वाशिंगटन दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकतर देशों के गैर-सरकारी प्रतिनिधि, प्रधान मंत्री नेहरू का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। ”

२० अक्टूबर को सेनेटर (अब अमरीका के विदेश मंत्री) डलेस जॉन फौस्टर ने न्यू यॉर्क में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसकी रिपोर्ट अगले रोज के न्यू यॉर्क टाइम्स में इन शब्दों में प्रकाशित हुई

“ यह सोचते हुए कि कहीं चीन में कम्युनिज्म के खिलाफ अमरीका की कोशिशों का गलत मतलब न लगाया जाय, (सेनेटर डलेस ने) सुझाव दिया कि सुदूर पूर्व में कम्युनिस्टों के वृद्धि को रोकने की लड़ाई का नेतृत्व इस क्षेत्र के उन लोगों को करना चाहिये जिनके हित इस लड़ाई में दाँव पर लगे हुए हैं।

“ मि डलेस ने (इस लड़ाई के) नेतृत्व का काम करने में न्यू भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का नाम सुझाया है। पं. नेहरू आजकल न्यू यॉर्क आये हुए हैं। ”

२२ अक्टूबर को न्यू यॉर्क की आधिकारिक पत्रिका विलिंग्डन वॉक ने लिखा :

“ पं नेहरू गत सप्ताह ठीक उम्र गमय वाशिंगटन पहुँचे जब चीनी कम्युनिस्ट कैम्प्टन फतह करने की तैयारी कर रहे थे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। चीन में राष्ट्रवादियों की अवश्यम्भावी पराजय और उससे पैदा होने वाली, भारत के साथ अमरीका के घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता ने हमारे विदेश विभाग को पं नेहरू की अमरीका यात्रा की व्यवस्था करने के लिये प्रेरित किया था। ”

आगे इसी पत्रिका ने लिखा था कि नयी दिल्ली के कुछ हलकों का “ कहना है कि यूरोशिया के किनारे वाले देशों को—जिनमें ब्रिटेन से लेकर इंडोनीशिया तक के सभी देश शामिल हैं—इस भूमि-खण्ड के ‘ हृदयस्थल ’ के यानी सोवियत संघ के इर्द-गिर्द वाले देशों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिये। इन क्षेत्रों की राय में भारत का काम हिन्द महा सागर की रक्षा करना है। ” इस समाचार पर इस पत्रिका ने शीर्षक दिया था “ अमरीका चाहता है कि सोवियत संघ और चीन वाले हृदय स्थल के खिलाफ चारों ओर समुद्री देशों की घेरेबन्दी में भारत को शामिल करने के लिये नेहरू की मदद ली जाय। ”

२३ अक्टूबर को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार छापा

“ अमरीका के कूटनीतिक क्षेत्रों का विचार है कि अन्त में भारत एक ऐसी अवस्था में पहुँच जायगा कि पूर्व और पश्चिम के संघर्ष में तटस्थ रहना उसके लिये असम्भव हो जायगा। और ऐसी अवस्था में भारत पश्चिमी जनतांत्रिक देशों का समर्थन करने का निश्चय करेगा। अतः वाशिंगटन में भारत के साथ काफी राजनीतिक सहानुभूति और मि० नेहरू की अपने देश की समस्याओं को हल करने में मदद करने की इच्छा पायी जाती है। ”

२७ अक्टूबर को मार्गरेट पार्टन ने हेराल्ड ट्रिब्यून में लिखा

“ जैसे-जैसे कम्युनिज्म चीन में जमता जाता है और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये उसका खतरा बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे पूर्व में भारत जनतंत्र के सबसे दृढ़ स्तम्भ के रूप में सामने आता जाता है। .

“ जनतांत्रिक देशों के वास्ते एशिया में अब जितने फौजी अड्डे बचे हैं, उनमें सबसे बड़ा अड्डा बनने की शक्ति भारत में है। उसकी

जन-शक्ति अपार है। उसके पास कोयला, मैगनीज, लोहा, अवरक और कुछ पेट्रोल भी हैं। उसके पास दुनिया का एक सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना है।”

फौरचून नामक पत्रिका के दिसम्बर, १९४९ के अंक में, “सुदूर पूर्व और अमरीका की व्यापार एवं उद्योग समिति” के कार्यवाहक उपाध्यक्ष मिलडरेड ह्यूज ने लिखा

“अधिकाधिक अमरीकी लोग भारत को एशिया में बढ़ती हुई कम्युनिज्म की लहर को रोकने के सबसे मजबूत केन्द्र के रूप में देखने लगे हैं। मिसाल के लिये, स्वयं मेरा विचार है कि अब से पाँच साल के बाद या तो सुदूर पूर्व में अमरीका के हितों का कोई शक्तिशाली रक्षक नहीं रहेगा, या रहेगा तो वह भारत होगा।”

दिसम्बर १९४९ में नयी दिल्ली में जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ, उसमें अमरीका के वैदेशिक नीति सच (फॉरेन पौलिसी एसोसियेशन) की सदस्या वीरा मिचेल्स डीन ने अमरीका के नये दृष्टिकोण की इस प्रकार व्याख्या की

“एक बार चीन से निराश हो जाने के बाद अमरीका भारत की ओर बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ देखने लगा। ब्रिटेन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत में चूँकि तुलनात्मक दृष्टि से राजनीतिक शान्ति रही है, इसलिए अमरीका भी नज़रों में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी है। पं. जवाहरलाल नेहरू और दूसरे भारतीय नेताओं की आवाज़ को अमरीका में बहुत ध्यान से सुना जाता है क्योंकि वहाँ वह न केवल भारत के प्रतिनिधि समझे जाते हैं, बल्कि लोगों का खयाल है कि उनमें एक दिन सारे एशिया के प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। अमरीका के लिये आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह लाख, जूट, अवरक, मैगनीज और ऐसी अनेक वस्तुएँ पैदा करता है जो नैतिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हैं। उन्पर, भारत विन्धो पैदा करने और औद्योगीकरण में एक बड़ी भारी योजना तैयार कर रहा है जिसके लिये उसे अमरीका से टेक्निकल और आर्थिक मदद लेनी पड़ेगी। कुछ अमरीकी लोगों को पदले यह डर था कि भारत अमरीका और पश्चिम सच के बीच तटस्थता का नया अपनाईगा। परन्तु अब

१९४९ में भारत ने उस ब्रिटिश राष्ट्र समूह (कौमनवेल्थ) में रहने का निश्चय किया, जिसके साथ अमरीका का १९४५ से ही पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक सहयोग चल रहा है, तो यह भय किमी कदर दूर हो गया। ” (“ युद्धोत्तर कालीन अमरीकी वैदेशिक नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ ” शीर्षक माइक्लोस्टाइल लेख जो नयी दिल्ली के सम्मेलन में पढा गया)

८ दिसम्बर, १९४९ के **मैनचेस्टर गार्जियन** में लेफ्टिनेट जनरल सर फ्रांसिस टुकर ने लिखा

“ बताया जाता है कि मि० नेहरू को वाशिंगटन आने का निमंत्रण देने में अमरीकी सरकार का उद्देश्य यह था कि उनके साथ दक्षिण-पूर्वी एशिया की सैनिक तथा आर्थिक समस्याओं पर बातचीत कर सके। ”
९ फरवरी, १९५० को लन्दन के पत्र **डेली ग्राफिक** ने लिखा

“ अमरीका प नेहरू से हिन्दुस्तान में हवाई अड्डे लीज (पट्टे) पर लेने के सम्बन्ध में बातचीत करेगा। ”

विजनेस वीक ने २२ अक्टूबर, १९४९ को बताया

“ विदेश विभाग नेहरू को अमरीका इसलिये बुलाना चाहता था कि उसे इस प्रकार उनकी ‘ तटस्थता ’ को दूर कर देने की आशा थी। इसी उम्मीद से मंत्री एचीसन संयुक्त राष्ट्र सच की सुरक्षा समिति में कनाडा की सीट को प्राप्त करने में भारत की कोशिश का समर्थन करेंगे।

“ एचीसन सोचते हैं कि एक बार सुरक्षा समिति का सदस्य हो जाने पर भारत (१) मास्को के तौर-तरीकों से परिचित हो जायगा और (२) खुलेआम मास्को का विरोध करने लगेगा। ”

नेहरू एक समाजवादी के रूप में भी मशहूर हैं, इस बात को अमरीकी नीति के लिये बहुत उपयोगी समझा गया। जैसा कि अमरीका की इंडिया लीग के अध्यक्ष जे. जे सिंह ने १३ मार्च, १९४९ में ही कहा था

“ दक्षिणी-पूर्वी एशिया की करोड़ों करोड़ भूखी जनता के बीच कम्युनिस्ट नारों और कम्युनिस्ट कार्यक्रमों का मुकाबला केवल गरम नारों और गरम कार्यक्रमों के द्वारा ही किया जा सकता है। ”
(**न्यू यॉर्क टाइम्स** में प्रकाशित सम्पादक के नाम पत्र)

इसलिये प नेहरू की समाजवादी शब्दावली और 'तटस्थता' के दावों से अधिकतर अमरीकी अफसरों को कोई खास परेशानी नहीं होती थी। २८ नवम्बर, १९४९ को भारतीय पार्लामेंट में प नेहरू ने बताया कि "अमरीका के जिम्मेदार लोग भारत की किसी भी गुट का साथ न देने की मौजूदा नीति को समझते हैं—और उनमें से कुछ तो उसको पसन्द भी करते हैं।"

अमरीका में प नेहरू का जो जोरदार स्वागत हुआ, उसके जवाब में उन्होंने अमरीका के साथ मित्रता प्रकट करते हुए कई वयान दिये। और जब, २६ अक्टूबर, १९४९ को शिकागो में बोलते हुए उन्होंने खुलेआम "सोवियत व्यवस्था" की निन्दा भी कर दी तो अमरीकी अधिकारियों के मन की कली खिल उठी।

प० नेहरू की अमरीका यात्रा के समय भारतीय अफसरों ने अमरीकी अफसरों से महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। परन्तु प० नेहरू जानते थे कि उनके देश में लोगों को उनकी अमरीका यात्रा के बारे में काफी मन्देह है और अमरीकी गुट भारतीय जनता को अधिक पसन्द नहीं है। इसलिए, उन्होंने कोई साफ वायदा करना उचित नहीं समझा। उधर भारतीय सन्देशों को दूर करने के लिये राजदूत लौय हेण्डरसन ने भी यह जरूरी समझा कि एक वयान निकाल कर यह बान साफ कर दे कि अमरीका ने प० नेहरू से कोई रुफिया या गुप्त वायदा करने की माग नहीं की है।

प० नेहरू के भारत लौट आने के थोड़े दिन बाद लौरेंस रॉजिजर ने अपनी किताब में लिखा कि अभी भारत-अमरीका के सम्बन्धों में "ग्रेम स्प" कारण नहीं किया है। परन्तु महायुक्त विदेश मंत्री जॉर्ज मर्नी ने १० दिसम्बर, १९४९, को ऐलान किया कि अमरीका प० नेहरू की यात्रा से "हमारे भावी सम्बन्धों के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझता है।"

१९५०-५१ में भारत और अमरीका के मतभेद

नि० मधी का मत निरावार नहीं था। यह जून और जुलाई १९५० में निद्व हो गया जब भारत ने कोरिया के बारे में लुआ नमिति के प्रस्तावों का पूरी तरह समर्थन किया। प० नेहरू ने स्तालिन और एनॉपन से ये छुट लिये थे, उनसे अमरीकी अधिकारी कुछ नागस तो हुए, परन्तु बाद में न्या

गया कि नेहरू वास्तव में इन पत्रों को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, वह तो सोवियत रूस ने उन्हें छाप दिया। पं नेहरू ने शिकायत की कि पश्चिमी ताकतें “एशिया की असली जरूरतों और उसके लोगों के दिमाग को समझे बिना ही” एशिया के सवालों पर फ़ैसले कर लेती हैं। अमरीकावाले इस बयान पर भी नाराज नहीं हुए। न्यू यॉर्क टाइम्स ने ५ अगस्त, १९५० को अपने सम्पादकीय में लिखा

“नेहरू चूँकि एशिया के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और भारत चूँकि उस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण गैर-कम्युनिस्ट देश है, इसलिये हम नेहरू के दृष्टिकोण से सहमत हों या नहीं, उसे समझना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है।”

नेहरू की वैदेशिक नीति का मूल्यांकन करते हुए उसने आगे लिखा

“चीन में वह रूस के बाद कम्युनिस्ट सरकार के सब से बड़े समर्थक हैं। चीन के प्रति भारत का यह रुख समझ में आने वाली चीज है। परन्तु हमारा कहना है कि चीन के सवाल को कोरिया के सवाल के साथ नहीं उलझाना चाहिये। नेहरू ने दोनों सवालों को उलझा कर, और चीन के सवाल का रूसियों को खुश करने के लिये रिश्वत के रूप में इस्तेमाल करके पश्चिम के लिये मुश्किल पैदा कर दी है और उसे कमजोर बनाया है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें एशियाई दिमाग ने पश्चिमी दिमाग को नहीं समझा, अन्यथा यह तो पहले से ही स्पष्ट था कि पश्चिमी ताकतें नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती थीं।

“फिर भी, पं नेहरू ने कोरियाई हमले की निन्दा की है। जैसा उन्होंने कल कहा कि वह और भारत कभी तटस्थ नहीं रहे। वे तो जनतंत्र के पक्ष में हैं, जिसका मतलब यह होना चाहिये कि जब कभी कम्युनिस्टों और पश्चिमी देशों के बीच चुनने का समय आयेगा, जैसा कोरिया के सवाल पर आया था, तब भारत हमारा साथ देगा। जब तक हम स्वतंत्रता और जनतंत्र के लिये लड़ते रहेंगे, तब तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चलने वाली कोई सरकार हमारा विरोध नहीं करेगी।”

अगस्त के अन्त में, अमरीका को प नेहरू ने तर्क आशाए थीं ।
 २९ अगस्त, १९५० को न्यू यॉर्क टाइम्स ने लिखा

“ एशिया का सघर्ष सम्भवत एक आदमी के दिमाग के अन्दर हारा या जीता जायगा—वह है जवाहरलाल नेहरू । चाहे आप उनके विचारों में सहमत हों या नहीं—और हम में से अधिकतर उनके कुछ विचारों से किमी कदर टुगी रहे हैं—फिर भी कोई उमसे इनकार नहीं कर सकता कि एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और-कम्युनिस्ट आवाज नेहरू की है । एक मानी में वह कम्युनिस्ट पक्ष के माधो से-तुग के मुकाबले में जनतंत्र के पक्ष का पलड़ा बराबर करनेवाले ह । एशिया का समर्थन प्राप्त करने के सघर्ष में नेहरू को अपने साथ ले आना कट्टे डिवीजन फौज को अपने साथ ले आने के बराबर है । और उनको अपना विरोधी या आलोचक बना लेना मारे एशिया में पश्चिमी जनतंत्र की स्थिति को सकुट में उाल देना है । ”

परन्तु चन्द्र मसाह के अन्दर भारत में नयी शक्तियों ने जोर पकड़ लिया । कोरिया में अमरीका जिम निर्मम टग से युद्ध चला रहा था, उसका भारतीय जनमत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था । भारत के लोग इस नतीजे पर पहुँचने लगे कि एशिया में अमरीका की नीति अलग-अलग आकस्मिक गलतियों का तौता नहीं है, बल्कि एक सुनिश्चित नीति है । उसका मुख्य आधार एशिया के इन्मानों की जिन्दगियों को दो कौर्झों का समझना है । बुद्धिजीवियों के छोटे परन्तु प्रभावशाली क्षेत्र में बड़ी तेजी से यह विचार फैल गया । उदाहरण के लिये, प्रशान्त क्षेत्र के सम्बन्धों की मस्या (इस्टीच्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशन्स) के लखनऊ सम्मेलन में, जो अक्टूबर १०५० में हुआ, यह भावना जोरों से प्रकट हुई । सम्मेलन की रिपोर्ट में कहा गया है कि

“ कई प्रतिनिधियों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि आजकल एशिया में पश्चिम-विरोधी भावना ब्रिटेन के खिलाफ इतनी नहीं, जितनी अमरीका के खिलाफ काम करती है । एशिया के लोगों में नीचे लिखे विचार पाये जाते हैं अमरीका एशिया में बहुत ज्यादा दूर तक अपने फौजी अट्टे फैला रहा है, अमरीका रूस से एशिया की भूमि पर लड़ना चाहता है, जिसकी मिसाल कोरिया है, अमरीका योरप

में तो नहीं पर एशिया में एटम बम का इस्तेमाल करने को तैयार है, अमरीका एशियाई लोगों की जिन्दगी की कतई परवा नहीं करता—चाहे जितनी भी एशियाई जाने लडाई में कुरवान हो जायें, उसकी बला से, अमरीका ने कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सभ को इतनी चुस्ती से काम करने दिया क्योंकि वहाँ उसके सैनिक हितों का सवाल था ।”

भारतीय प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में जो राय जाहिर की, उससे प. नेहरू ने अपने को अलग कर लिया, परन्तु आसानी से समझा जा सकता है कि उसका भारत सरकार पर असर पडा और कुछ दिन बाद उसने एशिया के संघर्ष को शान्तिपूर्वक सुलझाने का प्रस्ताव पेश किया ।

अमरीकावाले तो उससे एकदम बौखला उठे । उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि नेहरू सरकार ने भारतीय जनमत को ‘सही’ दिशा में मोड़ने की कोशिश करने के बजाय, खुद भी उसके सामने सिर झुका दिया । भारत के रवैये का एशिया के दूसरे देशों के रवैये और स्वयं अमरीका के जनमत पर असर पड रहा था । इस गुस्से को जाहिर करते हुए १२ अक्टूबर, १९५० को न्यू यॉर्क टाइम्स ने एक सम्पादकीय लेख में लिखा

“इंस्टीच्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशन्स के लखनऊ सम्मेलन में भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने अमरीका पर जो हमले किये हैं, उन्हें सहन करना कठिन है—विशेष कर ऐसे समय जब एशिया की रक्षा के लिये और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के वास्ते अमरीकी खून बहाया जा रहा है और अमरीका के सभी कर देने वालों का रुपया पानी की तरह खर्च किया जा रहा है ।

“यदि ऐसा होता कि केवल अपने अज्ञान और उससे उत्पन्न भ्रात वारणाओं के कारण कुछ व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया था कि आर्थिक सहायता का उद्देश्य साम्राज्यवादी है, तो कहना पड़ेगा कि दोष नयी दिल्ली और कर्नाची की सरकारों, वाशिंगटन में उनके राजदूतावासों और भारत तथा पाकिस्तान के अखबारों का है । विश्वास नहीं होता कि इन सरकारों के अफसरों में इतनी भी बुद्धि नहीं कि उन्हें अपने बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को इस भ्रम में नहीं रहने देना चाहिये था कि

अमरीका एशिया को आर्थिक महामना केवल उपलब्धि भेज रहा है ताकि एशिया वाले बॉल म्द्रीट के गुलाम बन जायें ।

“ भारत से मिश्रता राने वाले एक समाचार पत्र की हैनियत से हम अपने कर्तव्य की अवहेलना करेंगे यदि हम यह स्पष्ट न कर दें कि कोरिया के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री नेहरू जिन नीतियों पर चल रहे हैं, उनसे अमरीकियों को भी घोर निराशा हुई है ।

“ प नेहरू एशिया की ओर से बोलने का दावा करते ह, परन्तु यह तो मन्याम-वृत्ति की आवाज है । वह आलोचना करते ह तो विनाशकारी । वह नीति निर्धारित करते ह तो शत्रु को पुग करनेवाली । सब से बुरी बात यह है कि उनके रुझ से यह भी नहीं मालूम होता कि वह किस नैतिक सिद्धान्त के आधार पर अपना मत निश्चित करते हैं । त्रिद्वाम के माथ कहा जा सकता है कि नेहरू की नीति पर इतिहास का निर्णय यही होगा कि उनका उद्देश्य अच्छा था, परन्तु वह एक मजबूर, ढीली, अदृग्दर्शी और गैर-जिम्मेदार नीति थी । स्वतंत्रता, एशियाई राष्ट्रवाद और न्याय तथा सत्य के पक्ष को नेहरू हानि पहुँचा रहे हैं । ”

इसी बीच में भारत ने अमरीका से कर्ज पर गेहूँ मागा तो गालियों के साथ-साथ दवाव भी इस्तेमाल किया जाने लगा । दिसम्बर, १९५० में विदेश मंत्री एचीमन ने श्रीमती पंडित को बताया कि वह ऐसा कोई प्रस्ताव अमरीकी कांग्रेस के सामने लेकर गये तो उसका अच्छा स्वागत नहीं होगा । यू एस न्यूज एण्ड वर्ल्ड रिपोर्ट पत्रिका ने १९ जनवरी, १९५१ को लिखा

“ नेहरू बीस लाख टन अमरीकी अनाज भेंट के रूप में चाहते हैं । उसे पाने के लिये उन्हें सम्भवत बहुत दिन इन्तजार करना पडेगा । कोरिया में चीन के आक्रमण के प्रति भारत ने जो रुख अपनाया है, या सुरक्षा की व्यवस्था में उसने जितना सहयोग दिया है, उसका इस देश के अधिकारियों पर अच्छा असर नहीं पड़ा है । ”

दो दिन बाद एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने यह समाचार प्रकाशित किया

“ अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सभ में चीन के दाखिले की बार-बार मांग करके, कोरिया में समझौते पर जोर देकर, और आक्रमणकारी के रूप चीन की निन्दा करने का खुल्लमखुल्ला विरोध करके नेहरू (अमरीकी अधिकारियों की) उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे मुद्दिकले पैदा कर रहे हैं ।”

सेनेट की वैदेशिक नीति सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष, टॉम कौनोली ने २५ जनवरी को ऐलान किया कि भारत की दरखास्त पर उस समय तक कोई कार्रवाई नहीं की जायगी, जब तक कि एक उपसमिति “ भारत के साथ अमरीकी सम्बन्धों के पूरे प्रश्न पर विचार ” न कर ले ।

अन्त में, १२ फरवरी को अमरीकी राष्ट्रपति ने अमरीकी कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा कि वह बीस लाख टन गेहूँ भेजने की इजाजत तो दे दे, परन्तु रुपया अभी दस लाख टन के लिये ही ले । न्यू यॉर्क के डेली कम्पास ने इस पर १४ फरवरी को लिखा

“ राष्ट्रपति ने जो शर्त लगा दी है, उसका और कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया गया है, इसलिये उसका यही मतलब लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा भारत को यह चेतावनी दी गयी है कि अब उसे संयुक्त राष्ट्र सभ में अमरीका के कहे पर चलना चाहिये । ”

परन्तु चीन के सवाल पर अमरीका के दबाव के सामने भारत नहीं झुका । नतीजा यह हुआ कि अमरीकी अखबारों ने और भी जोरों से गालियाँ देनी शुरू कर दीं । २४ जनवरी, १९५१ को न्यू यॉर्क के डेली मिरर ने संयुक्त राष्ट्र सभ के भारतीय प्रतिनिधियों के बारे में कहा कि वे “ सोवियत रूस के हिन्दू दलाल ” हैं । जब अगस्त, १९५१ में भारत सरकार ने जापानी सवि के अमरीकी मसविदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो अमरीकी पत्रों की चौखलाहट सीमा पर पहुँच गयी । २७ अगस्त को एसोसियेटेड प्रेस ने वाशिंगटन से यह समाचार भेजा

“ जापानी शान्ति संधि का वहिष्कार करके भारत अपनी ओर अमरीका की नीति को और मरत बना देगा । ”

२८ अगस्त को डेली मिरर ने नेहरू पर आरोप लगाया कि वह “ एशियाटे मज्जिग ” कर रहे हैं और ऐलान किया कि “ इस देश का एक

शत्रु नेहरू का हिन्दुस्तान है।" न्यू यॉर्क टाइम्स ने "पथ भ्रष्ट नेता" शीर्षक से एक सम्पादकीय लेख में यह लिखा।

"जवाहरलाल नेहरू बहुत तेजी से युद्धोत्पन्न-दार्शनिक युग की एक परम निराशाजनक घटना बनते जा रहे हैं। (चन्द्र वष हुए) पश्चिम गमलता था कि लाशिनी तीर पर वह एक स्वतंत्र, जनपरी, कम्युनिस्ट-विरोधी एशिया का गमर्शन करेंगे और उनके नेतृत्व में भारत एशिया का नेतृत्व करेगा।

"एशिया के भले के लिये उनका नेतृत्व अपने हाथ में लेने के बजाय नेहरू अपनी जिम्मेदारियों में हट गये उन्होंने भारत की उदासीनता की घोषणा की और एक 'स्वतंत्र' तीमरी शक्ति वाला भारत बनाने की चेष्टा की जो हमारे युग के दो निर्णायक आन्दोलनों—कम्युनिज्म जिसका नेता हम हैं, और जनतन्त्र जिसका मुरग समर्थक अमरीका है—के बीच हवा में लटकता रहेगा।

"परिणाम यह हुआ कि नेहरू और भारत दोनों गन्ध में मग्न हो गये। उन्होंने महानता को लुकराया है—और इतिहास इसके लिये उन्हें क्षमा नहीं करेगा।"

२९ अगस्त को प्रतिनिधि सभा के सदस्य वेसली डेवार्ट ने सुझाव पेश किया कि जब तक भारत "क्रेमलिन का उल्लू सीधा करता है" तब तक अमरीका को उसे किसी तरह की मदद नहीं देनी चाहिये। रिक्फस हौवर्ड गुट के अखबारों में नियमित रूप से लिखने वाले पत्रकार लुडवेल डेनी ने नेहरू को "अन्दर से तोड़-फोड़ करने वाला" कहा।

६ सितम्बर को, पत्रकार जॉर्ज सोकोल्स्की ने यहाँ तक कह डाला कि नेहरू की धनियों जैसी मनोवृत्ति है और "कम्युनिज्म के साथ उनका कम से कम १९२९ से सम्बंध है।" यू एस न्यूज़ एण्ड वर्ल्ड रिपोर्ट जैसे एक जिम्मेदार समक्षे जानेवाले पत्र ने १७ अगस्त और ३१ अगस्त को लिखा कि पं नेहरू लेडी माउटबैटन के असर में आकर अमरीका का विरोध करने लगे हैं।

पुनर्मिलन

परन्तु अनेक प्रभावशाली अमरीकी यह बात समझने लगे थे कि धमकियों और गालियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उल्टे उनसे एशिया में

अमरीका की स्थिति के बिगड़ जाने का खतरा है। वाशिंगटन में कुओर्मिताग समर्थक अमरीकियों ने भारत के साथ अमरीका के सम्बन्ध त्रिगाढने के लिये कुछ उठा न रखा था। परन्तु १९५१ के मध्य से एक उल्टा आन्दोलन वहाँ शुरू हुआ। भारत पर दबाव तो जारी रहा, पर साथ ही कुछ मित्रता का प्रदर्शन भी होने लगा। अमरीकी अधिकारी मतभेदों पर कम और समान बातों पर ज़्यादा जोर देने लगे।

उप-सहायक विदेश मंत्री बर्टन बेरी ने २८ फरवरी, १९५१ को कहा

“ पाकिस्तान और भारत दोनों हमारी ओर मित्रता का भाव रखते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। .

“ भारत जिसकी आबादी ३५ करोड़ है, बुनियादी तौर पर हमसे दोस्ती रखता है। मि नेहरू ने ज़रूर कुछ ऐसी बातें कही हैं और कुछ ऐसे कार्य किये हैं जिनको हम उचित नहीं समझते, परन्तु ऐसी चीजों की वजह से हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि भारत को जनतांत्रिक देशों के परिवार का सदस्य बनाये रखना हमारे लिये कितना आवश्यक है। ”

सहायक विदेश मंत्री मघी ने भी २४ जुलाई, १९५१ को भारत की नीति का कुछ इसी तरह का मूल्यांकन किया

“ गोकि भारत की सरकार और उसके अधिकतर लोग घरेलू मामलों में तानाशाही और कम्युनिज्म के कट्टर विरोधी हैं, किन्तु सोवियत संघ और उसके आधीन देशों के खिलाफ पश्चिमी देशों का भारत ने दृढता से साथ नहीं दिया है। दूसरी ओर, भारत स्वेच्छा से ब्रिटिश राष्ट्र समूह का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य है, और उसकी स्थापना के समय से ही, एक चीन के सवाल को छोड़ कर, प्रायः सभी प्रदनों पर गैर-कम्युनिस्ट देशों के साथ वोट करता आया है। . कम्युनिस्टों के साथ, जो भारत की वर्तमान सरकार के सब से कट्टर आलोचक हैं, भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारें बहुत सख्ती से पेश आती हैं। ”

भारत के बारे में इनकी 'समझदारी' अब क्यों वरती जा रही थी ? मई-जून १९५१ में, वैदेशिक सम्बन्धों के विषय में एक गुप्त और बहुत ही

महत्वपूर्ण कनाडा-अमरीका सम्मेलन हुआ था। उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है

“ एक कनाडा-वासी ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं के अन्दर तो कम्युनिज्म का विशेष रूप से विरोधी है, परन्तु बाहर वह उसकी ओर से एक अजीब ढंग से उदासीन रहता है। उसकी राय में इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो भारत-वासी चीन में ‘ जनता की जीत ’ को पश्चिम की हार समझते हैं। दूसरे, भारत योरप में कम्युनिज्म के बढ़ाव पर और कम्युनिस्टों के आधीन देशों पर उसके बुरे प्रभाव की ओर उचित ध्यान नहीं देता। कोई बहुत जोरदार वक्ता लगने पर ही भारत के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर पड़ सकता है—ऐसा वक्ता उसे लग सकता था यदि पश्चिम वाले तिव्वत में कम्युनिस्टों के घुसने का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर पाते।

“ सम्मेलन की राय थी कि ‘ साम्राज्यवादी ’ अमरीका के विरोध की भावना का गढ़ भारत है..।

“ कनाडा-वासियों का खयाल था कि एशिया में अपने लिये सहानुभूति पैदा करने और कम्युनिज्म का मुकाबला करने की पश्चिम की कोशिशों की सफलता या असफलता बहुत कुछ भारत पर निर्भर करेगी। भारत न सिर्फ एशिया का प्रमुख जनतान्त्रिक देश है, बल्कि उसने चूँकि अंग्रेजों के राजनीतिक तरीकों और शान्त प्रणालियों को विरासत में पाया है, इसलिये वह एशिया का सबसे हठ और मजबूत भाग भी है।

“ कनाडावासियों का कहना है कि अमरीका को मि० नेहरू की कठिनाइयों को समझना चाहिये, और उनसे यह आशा नहीं करनी चाहिये कि वह एक अमरीकी राजनीतिज्ञ की तरह काम करने लगेंगे। नेहरू के सुझावों का इस प्रकार स्वागत नहीं करना चाहिये जैसे ‘ एक तीसरे दर्जे के दोस्त की दूसरे दर्जे की सलाह ’ का स्वागत किया जाता है। इससे वह हम लोगों के विरोधी बन जायेंगे। एशिया में एक जनवादी नेतृत्व के विकास के लिये आवश्यक है कि पश्चिमी ताकतें एशियाई नेताओं के साथ बराबरी का व्यवहार करें, उनकी राय सुनें और यदाकदा उनकी सलाह पर चलना भी स्वीकार करें।

“ कम से कम एक अमरीकी भी ऐसा था जो इन तर्कों से सहमत था। उसने कहा कि मि नेहरू सौ प्रतिशत तो सही नहीं हैं, पर 'काश चीन में भी हमारे पास एक नेहरू होता, यदि कोरिया में आधा नेहरू होता, और इंडोनीशिया में चौथाई नेहरू ही होता' तो कितना अच्छा होता!” (टर्नर रोबर्ट की किताब, पृष्ठ ५९-६०)

सक्षेप में, मतलब यह था कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देश को जल्दबाजी में छोड़ा नहीं जा सकता। भारत सरकार, बुनियादी तौर पर अमरीका की समर्थक है, और यदि कभी उस अपने देश के लोकमत का खयाल करके कुछ कहना पड़ता है तो हमें उसे पर नाराज नहीं होना चाहिये। मार्शल योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक पौल हौफमैन ने भी यही राय प्रकट की। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों में विल्कुल अधिकार अमरीकी यह चाहेंगे कि भारत को जो गेहूँ दिया गया है, उसके बदले में भारत के स्कूली बच्चे हर रोज अमरीकी झण्डे को सलामी दिया करें।

भारत के प्रति यह नया, 'ज़्यादा समझदारी का' रुख कुछ सरकारी अधिकारियों और प्रोफेसरों तक ही सीमित नहीं था। रिपब्लिकन पार्टी के नेता, हैरोल्ड स्टैसेन ने ९ अक्टूबर, १९५१ को सेनेट की विदेश विभाग समिति के सामने कहा कि “भारत के साथ उठने वाले खास-खास सवालों पर हमने इस प्रकार का व्यवहार किया है कि उसके साथ हमारे सम्बन्ध और शिथिल गये हैं।” स्टैसेन ने विदेश विभाग पर आरोप लगाया कि वह ऐसी नीतियों पर चल रहा है जिनसे भारत में कांग्रेस पार्टी और पं० नेहरू की जड़ कमजोर हो रही है और भारत कम्युनिज्म की गोद में जा रहा है। मतलब यह था कि भारत पर इतना अधिक दबाव न डालो कि उसका उल्टा असर पड़े।

कुओमिन्तांग के समर्थक अमरीकी राजनीतिज्ञों के नेता, विलियम बुलिट ने लाइफ पत्रिका के १ अक्टूबर, १९५१ के अंक में लिखा कि भारत को “अग्नेजों के साथ और हमारे साथ सैनिक बातचीत करके पारस्परिक सुरक्षा का इन्तजाम करने की कोशिश करनी चाहिये।”

इस नयी नीति का तुरन्त अच्छा फल मिला। २९ दिसम्बर, १९५१ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने भारतीय आम चुनाव के बारे में समाचार भेजते हुए लिखा

“अन्दरूनी जानकारी रखने वाले दूरों से मचना पात तुरे है कि शीघ्र ही भारत (सरकार) और नी स्पष्ट रूप से स्वतंत्र जनतावादी देशों का साथ देने लगेगा, क्योंकि अब ऐसी नीति का देश के अन्दर तुरे राजनीतिक परिणाम होने का डर नहीं रहेगा।”

५ जनवरी, १९५२ को भारत और अमरीका के बीच पारस्परिक सुरक्षा समझौता हो गया, जिसमें प्रायः हुआ कि दोनों सरकारें अब फिर एक दूसरे से सहयोग करने लगी हैं। २६ जनवरी को न्यू यॉर्क टाइम्स ने इस बात पर सतोष प्रकट किया कि

“आज हमारे दोनों देशों के सम्बन्ध ६ महीने या षण्मास पहले की तुलना में ब्रेहतर और मिधनापूर्ण हैं।”

“जब हमारा भारत से कोई लगना होता है, या भारत का हमसे, तो वह तफसील की बातों को लेकर होता है, बुनियादी बातों पर नहीं...।”

२५ फरवरी १९५२ को राजदूत चेस्टर वाकल्स ने ऐलान किया

“पुराना वातावरण अब छूट रहा है और भारत की सफलताओं की (अमरीका के) लोग अधिकाधिक तारीफ कर रहे हैं।”

इस प्रकार, चन्द महीने के बाद, भारत ने अमरीकी योजनाओं में फिर वही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। फिर अमरीकी शासक चीन का काम भारत से लेने की सोचने लगे। हाल के कई वयानों में तो मौजूदा हिन्दुस्तान की चीन से तुलना भी की गयी है।

१४ जनवरी, १९५२ को न्यू यॉर्क पोस्ट ने लिखा

“चीन में तो हम असफल रहे, पर भारत में असफल रहने का दुस्साहस हम नहीं कर सकते। च्यांग की ह्वती नाँव में तो हम दौलत डालते जा रहे हैं, पर भारत की मदद करना ज्यादा अर्थ रखता है।” राजदूत चेस्टर वाकल्स ने १९ जनवरी, १९५२ को ऐलान किया

“यदि भारत में प्रजातांत्रिक सरकार असफल रही, तो सम्पूर्ण स्वतंत्र ससार को एशिया भर में भारी धक्का लगेगा। जब कम्युनिस्टों ने चीन को जाता था, तब स्वतंत्र ससार को धक्का लगा था, उससे यह ज्यादा बड़ा धक्का होगा

“ चीन के सबक से हमें चेतावनी मिली थी कि भारत में क्या हो सकता है। यदि हम इस सबक से भी फायदा नहीं उठा सकते तो निश्चय ही भविष्य अधकारमय है। ”

“ हमें इस सचाई का सामना करना ही पड़ेगा कि हमें भारत की और अधिक मदद करनी है। ” (‘अमृत वाजार पत्रिका,’ २० जनवरी)

न्यू यॉर्क टाइम्स के कूटनीतिक सम्वाददाता जेम्स रेस्टन ने २४ जनवरी, १९५२ को समाचार मेजा

“ टुमन सरकार भारत और जापान को केन्द्र बना कर एशिया में अपनी नीति का फिर से निर्माण कर रही है। ”

न्यू रिपब्लिक के ४ फरवरी, १९५२ के अंक में उसके वाशिंगटन सम्वाददाता टी आर वी ने लिखा

“ पिछले दो सप्ताह से राजदूत चेस्टर वाकल्स कोहरे की तरह वाशिंगटन पर छाये हुए हैं। चाहे किसी कमिटी की बैठक हो, चाहे समाचार पत्र वालों की दावत हो, या कोई प्राइवेट सभा हो — कहीं भी जाइये तो कोई ऐसी जगह न मिलेगी जहाँ वाकल्स आपको बोलते नजर न आयें। उनका सन्देश बहुत सरल और बहुत महान है। वह यह कि जनतंत्र के लिये भारत और एशिया को बचाने के वास्ते हल मशीनगन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ”

“ सच्ची बात यह है कि आज १९५२ में भारत, १९४५ के चीन की अवस्था में है। कम्युनिज्म अपनी पूरी मोहिनी डाल कर भारत तथा सुदूर पूर्व को मायाजाल में फँसाने की कोशिश कर रहा है। यह क्रेमलिन और ‘चौधे सूत्र’ की टक्कर है और दौब पर आधी दुनिया लगी हुई है। अमरीका ने च्याग की सेनाओं को ढाई अरब डालर घोल कर पिला दिया, पर चीन उसके हाथ से निकल ही गया। सवाल यह है कि क्या अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों ने सचमुच इस अनुभव से कुछ सीखा है — और क्या वे मृत चीन की ओर से अपनी आँखें दृढ़ कर जीवित भारत की ओर निगाह डाल सकते हैं। ”

नौवां अध्याय

अमरीका के प्रति भारत की नीति

अमरीका से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा भारत की वैदेशिक नीति की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ४ दिसम्बर, १९४७ को विधान परिषद में वैदेशिक मामलों पर पहली बहस चल रही थी, तो प० नेहरू ने ऐलान किया था

“हम अमरीका के साथ सहयोग करना चाहते हैं और सदा उसके मित्र रहेंगे।”

अमरीका के सरकारी तथा व्यापारी क्षेत्रों में सहानुभूति प्राप्त करने की भारत सरकार ने अनवरत कोशिश की है। १९४९ में प० नेहरू ने अमरीका की यात्रा की तो इसी प्रयत्न के एक अंग के रूप में। सरकार के बड़े अधिकारियों से भेंट करने तथा व्यापारिक संगठनों के सामने भाषण करने के अलावा उन्होंने नेशनल सिटी बैंक के उपाध्यक्ष के साथ रात का खाना खाया और चेन्नै नेशनल बैंक के डायरेक्टरों के बोर्ड के अध्यक्ष के साथ दोपहर का भोजन किया। ये दोनों अमरीका के सबसे बड़े बैंक हैं।

भारतीय अधिकारी इस बात से अच्छी तरह परिचित रहे हैं कि अमरीकी सरकार को सबसे ज्यादा दिलचस्पी कम्युनिज्म से लड़ने में है। वाशिंगटन में भारतीय राजदूत के दफ्तर से भारतीय अफसरों के कम्युनिस्ट-रोधी बयान और यहाँ तक कि सन्देशास्पद समाचार भी अक्सर प्रकाशित होते रहते हैं। उदाहरण के लिये, १० मई, १९४८ को भारतीय राजदूतावास एक विशेष समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें हिन्दू के नयी दिल्ली स्वाददाता की भेजी हुई एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि हैदराबाद का शासक कम्युनिस्टों को अपना मित्र बनाने की कोशिश में गा है।” यह भी शायद आकस्मिक घटना न थी कि पंडित नेहरू के

अमरीका पहुँचने के ठीक बारह दिन पहले भारत सरकार के गृह विभाग ने “ भारत में कम्युनिस्ट हिंसा ” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और उसे भारतीय दूतावास ने वाशिंगटन में खूब चाँटा था ।

भारत के जो दूत अमरीका की सरकार से कोई मदद या कर्जा मागने जाते हैं, वे भारत में कम्युनिज़्म के “ खतरे ” का झिक्र करना कभी नहीं भूलते । २० अक्टूबर, १९४८ को राजदूत सर वी. रामा राव ने अमरीका से कर्जा मागा तो कहा

“ पूर्व में कम्युनिज़्म के मुकाबले में सतुलन कायम रखनेवाली एकमात्र शक्ति...भारत है । ”

२४ दिसम्बर, १९५० को श्रीमती पंडित ने एक प्रेस कान्फ़ेंस में कर्ज पर गेहूँ पाने की भारत की इच्छा को समझाते हुए कहा

“.. जिस हद तक भारत अपना पेट भर सकेगा और अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकेगा, उसी हद तक वह वर्तमान सकट— कम्युनिज़्म—का मुकाबला करने में भी मदद दे सकेगा । ”

अमरीका की दोस्ती पाने के लिये भारत सरकार ने कुछ और भी असाधारण उपाय काम में लाये हैं । प्रचार करने के लिये उसने छ महीने के लिये एक अमरीकी विशेषज्ञ को नौकर रखा और उसके ऊपर ५० हजार डालर खर्च किये । साहवारी तनखा के रूप में यह ४० हजार रुपया मासिक बैठता है । जैसे सिगरेट या किसी और वस्तु का वाजार में विज्ञापन होता है, वैसे ही इस विशेषज्ञ को भारत का अमरीका में विज्ञापन करने कहा गया था ।

असलियत तो यह है कि अमरीका की मित्रता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा का भारत की पूरी वैदेशिक नीति पर प्रभाव पड़ा है ।

भारत की वैदेशिक नीति के सिद्धान्त

सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत की वैदेशिक नीति एक स्वतंत्र नीति है । परन्तु इस मोटी परिभाषा का कोई विशेष अर्थ नहीं होता । जैसा कि स्वयं पंडित नेहरू ने कहा है

“उभार में बहुत से देश हैं जो उठने की भी पौम्वी स्वतंत्र और व्यवहार में भी क्रीडनी परत हैं, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, अथवा जिनो और वृष्टि से वे जिनो उगने उगने की इच्छा पर निर्भर करने हैं।” (स्वतंत्रता और उसके बाद, पृ १३४)

भारत की वैदेशिक नीति की एक और व्याख्या इस प्रकार की गयी है कि वह शान्ति और स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली नीति है। परन्तु इसका भी कोई विशेष अर्थ नहीं होता क्योंकि पुनः पठित नेहरू के ही शब्दों में

“यह बड़ी सुन्दर बात है जब हम कहते हैं कि हम शान्ति और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, फिर भी उससे एक जोरी मदिच्छा से अधिक कुछ विशेष मतलब नहीं निकलता।

“अस्पष्ट उग से यह कहना कि हम शान्ति और स्वतंत्रता के समर्थक हैं कुछ माने नहीं रगता क्योंकि यह तो हर देश कह सकता है, चाहे उसका अमली उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो।” (वही पुस्तक, पृष्ठ २०१)

इन दो हवाई बातों के अलावा यह कहा जाता है कि भारत की वैदेशिक नीति तीन बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है।

पहला सिद्धान्त यह कि भारत किसी ‘गुट’ में शामिल नहीं होगा। पं० नेहरू ने कहा है कि हम “इस बड़ी शक्ति या उस बड़ी शक्ति के साथ मिल कर इस आशा से उसके पिछलग्गू नहीं बनाना चाहते कि उसकी थाली के चन्द बचे हुये टुकड़े हमें भी मिल जायें।” परन्तु भारत को ब्रिटिश कौमनवेल्थ का मेम्बर बनाये रखने के फैसले के समर्थन में उन्होंने कहा था

“यदि हम कौमनवेल्थ से अपने को बिल्कुल अलग कर लें तो हम बुनिया में एकदम अकेले पड़े जायेंगे। हम एकदम अकेले नहीं रह सकते और इसलिये हमें किसी न किसी दिशा में झुकना ही पड़ेगा। और यह किसी दिशा में झुकना आदान-प्रदान के आधार पर ही होगा...। दूसरे शब्दों में, उसकी वजह से हो सकता है कि हमें आज की तुलना में कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों अपने ऊपर लेनी पड़े।” (वही पुस्तक, पृष्ठ २७९)

अतः भारत सरकार ने ब्रिटिश कौमनवेल्थ की ओर झुकने का निश्चय किया जिसके दो सदस्य अटलान्टिक समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं और दो प्रशान्त समझौते पर। अर्थात्, भारत सरकार एक ऐसे गुट की ओर झुकी है जिसका अमरीका से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

दूसरा बुनियादी सिद्धान्त औपनिवेशिक देशों की मदद करना बताया जाता है। २९ सितम्बर, १९४६ को पं. नेहरू ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा या कि “भारत पराधीन देशों की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का दृढ़ता से समर्थन करेगा।” १९ दिसम्बर, १९४८ को उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में कहा “हमारी वैदेशिक नीति यह है कि किसी विदेशी शक्ति को किसी एशियाई देश पर राज नहीं करना चाहिये।” इसका मतलब है कि अमरीका के गुलाम पुअरटो रिको, आदि देश पं. नेहरू के इस सिद्धान्त की सीमा के बाहर पड़ते हैं। स्वयं एशिया में, मलाया पर अंग्रेजों का राज है और हिन्द चीन में फ्रांस एक खूनी युद्ध चला रहा है और पं. नेहरू ने अभी तक इन दोनों देशों के स्वतंत्रता संग्रामों की मदद के लिये कुछ भी नहीं किया है। अतः भारत की नीति की कुछ इस प्रकार व्याख्या की गयी है और उसे इस तरह कार्यान्वित किया जाता है जिससे अमरीका को कोई परेशानी न हो।

तीसरा सिद्धान्त रंगभेद का विरोध करना है। परन्तु हम शायद यह भूल जाते हैं कि रंगभेद दक्षिणी अफ्रीका में ही नहीं, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में भी है। परन्तु इन देशों का तो पं. नेहरू इस सम्बन्ध में अभी जिक्र तक नहीं करते।

आर्थिक और सैनिक स्थिति

४ दिसम्बर, १९४७ को पं. नेहरू ने विधान परिषद के सामने भाषण करते हुए कहा था

“अन्तिम रूप में, वैदेशिक नीति आर्थिक नीति से निकलती है, और जब तक भारत अपनी आर्थिक नीति को पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं कर लेता, तब तक उमकी वैदेशिक नीति किसी कदर बुधली, अस्पष्ट, और राह खोजती हुई भी मालूम पड़ेगी। मुझे दुःख है कि हमने अभी

तक कोई रचनात्मक आर्थिक योजना या आर्थिक नीति नहीं निश्चित की है जब हम यह काम कर लेंगे तब हमारी वैदेशिक नीति इस सभा के सामने दिये गये तमाम भाषणों से उतनी निर्धारित नहीं होगी, जितनी वह हमारी आर्थिक नीति में होगी।” (वही पुस्तक, पृष्ठ २०१)

तब से, भारत की आर्थिक नीति भी स्पष्ट हो गयी है। हमारा व्यापार अधिकतर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और अमरीका में होता है। हमारी आर्थिक विकास की योजनाएं विदेशी, विशेष कर, अमरीकी पूंजी पर निर्भर करती हैं। अंग्रेज और अमरीकी पूंजी भारत की आर्थिक व्यवस्था के निर्णायक अंगों पर छापी हुई है। भारत सरकार की आर्थिक नीति अमरीकी जरूरतों के अनुसार बनायी जाती है। ७ जुलाई, १९५० को स्वयं पंडित नेहरू ने स्वीकार किया था कि “हमारी आर्थिक व्यवस्था, जाहिर है कि डगलेण्ड और दूसरी पश्चिमी ताकतों से बंधी हुई है।” इसके बाद उन्होंने जल्दी से यह भी कह डाला था कि “राजनीतिक नीति में यह बात नहीं है।” लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि १९४७ में उन्होंने जो यह सिद्धान्त स्थापित किया था कि वैदेशिक नीति आर्थिक नीति से निकलती है, वह १९५० में कैसे झूठा हो गया।

इसलिये, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्नों पर, भारत प्रायः अमरीका के साथ रहता है। कभी-कभी तो इससे बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। १२ सितम्बर, १९५१ को संयुक्त राष्ट्र सभ की आर्थिक और सामाजिक समिति में भारतीय प्रतिनिधि टी० टी० कृष्णमाचारी ने “व्यापार को रोकने वाले नियमों” पर बोलते हुए पहले यह कहा कि “उनके मन में अमरीकी प्रस्तावों से कोई उत्साह नहीं पैदा होता,” और बाद में बोले कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार वह उसका समर्थन करेंगे। अमरीकी प्रस्ताव में कहा गया था कि किसी सरकार को बाहर से आने वाले माल पर चुंगी या टैक्स आदि लगा कर स्वतंत्र होड़ को नहीं रोकना चाहिये। पिछड़े हुए और कमजोर देशों का कहना था कि उन्हें अपने उद्योगों को विदेशी, विशेष कर, अमरीकी होड़ से बचाने के लिये इस तरह के टैक्स लगाने ही पड़ेंगे।

जहाँ तक सामरिक प्रश्नों का सम्बन्ध है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारत के पड़ोसी अमरीका या ब्रिटेन से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। हॉंगकौंग, मलाया, अदन, और फ़ारस की खाड़ी की शेखों की रियासतें अंग्रेजों

की गुलाम हैं। लंका, ईराक, और जॉर्डन, मिश्र से ब्रिटेन के फौजी समझौते हैं जो इन देशों की पराधीनता का दूसरा नाम है। दक्षिणी कोरिया और प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीप अमरीकी फौजों के कब्जे में हैं। जापान, फार्मोसा, फिलीपाइन और सऊदी अरब में अमरीका के फौजी अड्डे हैं। एक भारतीय लेखक विद्या प्रकाश दत्त के शब्दों में

“अतः पश्चिमी और ‘पूर्वी’ ताकतों के बीच यदि युद्ध छिड़ा तो एशिया के, विशेष कर प्रशान्त महासागर क्षेत्र के अधिकतर देश पायेंगे कि वे पहले से ही एक पक्ष के साथ बंधे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पश्चिमी योरप के देशों के साथ फौजी समझौते कर रखे हैं।”

अतः हमने भी अगर पहले से ही यह तै नहीं कर लिया है कि हम हर हालत में अंग्रेज-अमरीकी गुट का ही साथ देंगे, तो भारत सरकार को इन फौजी समझौतों को देख कर गहरी चिन्ता में पड़ जाना चाहिये।

परन्तु, असलियत तो यह है कि स्वयं भारत अपनी फौज के लिये हथियार और सामान और ट्रेनिंग देने वाले अफसर ब्रिटिश कौमनवेल्थ या अमरीका से मगाता है। भारत की सेनाओं की शिक्षा-दीक्षा, व्यवस्था व संगठन सब अंग्रेज अफसरों की मलाह से होता है। भारतीय सेना अंग्रेज सेना के साथ मिल-जुल कर मोर्चेबन्दी का अभ्यास करती है। जैसा कि अमरीकी कूटनीतिज्ञ विलियम बुलिट ने हाल में कहा था

“दूसरे महायुद्ध में भारतीय सेना बीस लाख सिपाहियों की एक शानदार फौज थी। परन्तु उनके हथियार सब ब्रिटेन या अमरीका के बने हुए थे। भारत खुद एक जीप तक नहीं तैयार कर सकता था।”

और तब से अमरीका के साथ हमारे देश का फौजी सहयोग और बढ़ता ही गया है।

मिसेम्बर, १९४८ में अमरीका के समुद्री वेड़े का एक सद्भावना मण्डल एक क्वेजर और दो डिस्ट्रियर जहाजों के साथ बम्बई में आया। एडमिरल रिचर्ड कौनोली डम मण्डल का नेता था। बम्बई के प्रधान मंत्री बालासाहब खेर ने उनका स्वागत करते हुए कहा

“एक शक्तिशाली समुद्री वेड़ा बनाने के काम में हमें आपके जैसे देशों की मदद की आवश्यकता है।”

१६ जनवरी, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स के सामरिक आलोचक हैन्सन बाल्डविन ने समाचार दिया कि भारतीय और पाकिस्तानी फौजों के अफसर लीवेनवर्थ के अमरीकी फौजी कालिज में शिक्षा पा रहे हैं ।

अप्रैल, १९४९ में एक भारतीय फौजी मिशन अमरीका गया । इसमें सेना तथा समुद्री बेड़े के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल थे । उक्त उद्देश्य अमरीका में फौजी सामान खरीदना और वहाँ बड़े भारतीय अफसरों की शिक्षा का प्रवच करना था । जुलाई में भारतीय सेना के कर्नल के एम काटोच और कर्नल एस. पंडित को अमरीका में ऊँची फौजी शिक्षा पाने के लिये भेजा गया ।

१९४९ के अन्त में एक और भारतीय फौजी मिशन अमरीका गया । इसमें रक्षा विभाग के मंत्री एच एम पटेल, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल कलवन्त सिंह और समुद्री बेड़े के सेनापति वायस-एडमिरल पैरी भी शामिल थे ।

३० जून, १९५० को लीवेनवर्थ कालिज (अमरीका) के वीक्षान्त समारोह में कुछ भारतीय और पाकिस्तानी अफसरों ने भी भाग लिया ।

१९५१ के शुरू में, दक्षिण भारत में वेलिंग्टन के संयुक्त सैनिक स्टाफ कालिज में कुछ अमरीकी अफसरों ने भी भाग लिया ।

लेकिन, अमरीका में फौजी सामान खरीदने में काफ़ी कठिनाई पड़ी । २७ मार्च, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार प्रकाशित किया

“ भारत और पाकिस्तान दोनों अमरीका से हथियार खरीदना चाहते हैं और इसके लिये डालर खर्च करने को भी तैयार हैं । परन्तु, अमरीकी विदेश विभाग इसकी इजाजत नहीं देता । और यह रोक उस समय तक लगी रहेगी जब तक दोनों डोमीनियनो के बीच मौजूदा तनाव क्रायम रहेगा ।

“ परन्तु, सुदूर पूर्व में तैनात अमरीकी अफसर... चीन के बिखर जाने के कारण, भारत और अमरीका के बीच अधिक से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार हैं । ”

इसके लगभग एक साल बाद अमरीका के न्यूजर्सी प्रदेश में दक्षिणी एम्बोय नामक स्थान में एक बड़ा भारी विस्फोट हुआ । उससे प्रकट हुआ कि

पाकिस्तान को अमरीका जहाज भर-भर कर गोला-बारूद, वम और दूसरा फौजी सामान भेज रहा था, जब कि हिन्दुस्तान को उसने फौजी सामान बेचने से इनकार कर दिया था। १५ जून, १९५० को श्रीमती पंडित ने विदेश विभाग के अधिकारियों से मिल कर इस घटना पर अपनी "चिन्ता" प्रगट की और कुछ गोला-बारूद और शेरमैन टैंक भारत के लिये मांगा।

मार्च १९५१ में भारत सरकार ने अमरीका से फौजी सामान खरीदने के सम्बंध में एक समझौता किया और उसमें अमरीका के पारस्परिक सुरक्षा सहायता कानून (१९४९) की शर्तें मान ली। मगर इस समझौते की खबर प्रकाशित नहीं की गयी—शायद इस खयाल से कि कोई यह न समझे कि अमरीका से गेहूँ कर्ज पर लेने के एवज में भारत को इस समझौते पर दस्तखत करना पडा है।

अमरीका में भारतीय अफसरों की शिक्षा होना और अमरीकी सामान पर भारतीय सेना का निर्भर रहना—ये दो ऐसी बातें हैं जिनके कारण भारत कमी पूरी तरह स्वतंत्र नीति पर नहीं चल सकता। भारत और अमरीका के लेखक लौरेंस के रोजिजर ने लिखा है

“जब कोई कमजोर सरकार किसी बड़ी ताकत से फौजी मदद पाने की कोशिश करती है, तब उसका कम से कम इतना मतलब तो होता ही है कि यह मदद ऐसे ढंग से इस्तेमाल नहीं की जायगी जो बड़ी ताकत के बुनियादी सामरिक दृष्टिकोण से टकराता हो। और एक बार ऐसा सम्बंध कायम हो जाने पर दोनों पक्ष जानते हैं कि यदि उनके बीच कमी कोई तीव्र राजनीतिक या आर्थिक मतभेद पैदा हुआ, तो उनका यह सहयोग जारी न रह पायेगा। यदि विदेशी सलाहकारों को बड़ी ताकत ने वापिस बुला लिया, या फौजी सामान भेजना बन्द अथवा रुक कर दिया तो कमजोर देश की सेना और सरकार सकट में पड़ जायगी। इसलिये, एक बार ऐसा समझौता करने पर, कमजोर सरकार को बड़ी ताकत से राजनीतिक सम्बंध बनाये रखने के लिये एक फौजी कारण भी मिल जाता है।” (पृष्ठ १३१-३२)

मुद्दर पूर्व के सम्बंध में अमरीका से मतभेद

उन आर्थिक और सैनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए किसी को इस बान पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि वैदेशिक मामलों में अफसर भारत की

राय अमरीका से मिलती रही है। भारत सरकार ने मार्शल योजना की खूब प्रशंसा की है। भारत सरकार ने मलाया और टोनीशिया के कम्युनिस्टों की निन्दा करके और बर्मा सरकार को कर्जा देकर अमरीकी सरकार का मतलब साधने में मदद की है। अक्टूबर १९६० की कौमनवेलथ कान्फ्रेंस में भारत सरकार ने फिर से हथियारबन्दी करने और पश्चिमी योरप की ताकतों का गुट बनाने का समर्थन किया था। रोजिजर ने १९५० के शुरु में ही अपनी पुस्तक में यह लिखा था

“ निस्सन्देह, कुछ अन्तरराष्ट्रीय सवालों पर नयी दिल्ली ने अधिकतर कमजोर शक्तियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप अपनाया है। परन्तु, यह स्वतंत्रता समय बीतने के साथ कम होती गयी है। जैसे-जैसे बड़ी शक्तियों के बीच और भारत के अन्दर विरोधी तत्वों के बीच तनाव बढ़ता गया है, वैसे वैसे भारत सरकार धीरे-धीरे ब्रिटेन और अमरीका की ओर बढ़ती गयी है, यद्यपि स्वतंत्र वैदेशिक नीति की शब्दावली को उसने अभी नहीं छोड़ा है।” (‘ भारत और अमरीका,’ पृष्ठ ३५)

लेकिन, १९५०-५१ में चीन, कोरिया, और जापान के सवालों को लेकर भारत और अमरीका की सरकारों के बीच तीव्र मतभेद उठ खड़े हुए।

ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने के बाद, ३० दिसम्बर, १९४९ को भारत सरकार ने चीन की जनवादी सरकार को मानता दे दी। उस समय अमरीका ने उसकी इस कार्रवाई का कोई उग्र विरोध नहीं किया था। परन्तु, ब्रिटेन की तरह भारत केवल कागज़ी तौर पर मानता देकर ही संतुष्ट नहीं हो गया। उसने चीन के साथ पूर्ण कूटनीतिज्ञ सम्बन्ध स्थापित किया और वह खुलेआम इस बात का समर्थन करने लगा कि अन्तरराष्ट्रीय सस्थाओं में चीन की जनवादी सरकार को स्थान मिलना चाहिये। यद्यपि भारत सरकार चीन की अनुपस्थिति में भी सयुक्त राष्ट्र सच की सुरक्षा समिति के फैसलों को मानती रही, फिर भी वाशिंगटन के च्यांग-परस्त अमरीकी राजनीतिज्ञों ने कस-कस कर भारत पर चोट करना शुरू कर दिया।

आम तौर पर कोरिया के सवाल पर भारत की नीति अक्टूबर १९५० तक, अमरीका के साथ रही। सयुक्त राष्ट्र सच के जिस अस्थायी कोरिया कमीशन ने १९४८ में दक्षिणी कोरिया में अलग से चुनाव कराने की इजाजत दी थी,

उस कमीशन के अध्यक्ष एक भारतीय अफसर श्री के. पी. एस. मेनन थे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सभ ने कोरिया के बारे में जो कमीशन बनाया, उसमें भारत की ओर से डा० अनूप सिंह शामिल थे।

२५ जून, १९५० को अमरीका ने सुरक्षा समिति से शिकायत की कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया है। इसके वारह घंटे के अन्दर भारतीय प्रतिनिधि ने, जो उस समय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था, अमरीका की शिकायत पर विचार करने को बैठक बुला भेजी। बैठक के अन्दर उसने अमरीका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि दक्षिणी कोरिया के प्रतिनिधि की बात सुनी जाय, पर उत्तरी कोरिया के प्रतिनिधि को बुलाया न जाय। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने अमरीका के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया था और उससे ३८वें अक्षांश के पीछे अपनी फौजें हटा ले जाने के लिये कहा गया था। उसने उत्तरी कोरिया के इस कथन को अनसुना कर दिया कि हमला वास्तव में दक्षिणी कोरिया ने किया था। उसने अखबारों में प्रकाशित इस समाचार की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि दक्षिणी कोरिया की फौजें कुछ इलाकों में उत्तरी कोरिया के अन्दर घुस गयीं हैं। और जिस तेजी के साथ सुरक्षा समिति के अन्दर एक के बाद दूसरा सवाल उठ रहा था, उसे देखते हुए यह सम्भव नहीं दिखता था कि भारतीय प्रतिनिधि हर सवाल पर नयी दिल्ली से सलाह ले रहा था। लगता है कि उसे एक आम हिदायत दे दी गयी थी कि कोरिया के मामले में अमरीका का समर्थन करो और वह उसी पर अमल कर रहा था।

२७ जून को, उत्तरी कोरिया का जवाब आने के पहले ही और कोरिया में सैनिक हस्तक्षेप करने के अमरीकी फैसले के चन्द घंटे बाद ही सुरक्षा समिति ने वह अमरीकी प्रस्ताव पाम कर दिया जिसमें सभी देशों से दक्षिणी कोरिया की मदद करने को कहा गया था। नयी दिल्ली से हिदायत आने में देर होने के कारण भारतीय प्रतिनिधि इस प्रस्ताव पर समिति की बैठक में वोट न दे सका। लेकिन, बाद में भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करती है और उसने ३०० आदमियों की एक डाक्टरी दृष्टि भी दक्षिणी कोरिया में भेज दी।

७ जुलाई को सुरक्षा समिति ने अमरीका से रक्षा रिपोर्ट दक्षिणी कोरिया में लड़ने वाली नमी विदेशी फौजों की एक चुयुक्त कमान बनाने । भारत ने इस प्रस्ताव पर घोट नहीं किया । लेकिन, बाद में भारत सरकार ने इस प्रस्ताव के मानने का भी ऐलान कर दिया ।

४ नितम्बर को कोरिया कर्गोशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट मयुक्त राष्ट्र की साधारण बैठक (जनरल असेम्बली) के सामने रखी । उसमें गिरोप एप में कोरिया में अमरीकी नीति का समर्थन किया गया था । इसके कुछ दिन पहले यद्यपि भारत सरकार सिंघमनरी सरकार की और अमरीकी नीति की कुछ आलोचना कर चुकी थी, पर भारतीय प्रतिनिधि ने बिना किसी भी तरह की चूँचपर किये रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिया ।

७ सितम्बर को भारत ने सुरक्षा समिति में सोवियत के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें युद्ध के कानूनों को तोड़ कर गैर-फौजी आवादी पर अधा-धुंध वम बरमाने की निन्दा की गयी थी । प्रस्ताव पर बोलते हुए सर भी एन. राव ने कहा .

“ मुझे मानना पड़ेगा कि कोरिया में बड़े पैमाने पर बमबारी की खबरें भारत में काफी फैली हुई हैं और उनसे भारतीय जनता को भारी बक्का लगा है । ”

अमरीकी फौजी कमान के बयानों में भी यह तसलीम किया गया था कि कोरिया के शहरों, गाँवों, और कारखानों पर अधा-धुंध बमबारी की जा रही है । पर भारतीय प्रतिनिधि ने इस आधार पर सोवियत प्रस्ताव का विरोध किया कि अभी इस आरोप की जाँच नहीं हुई है । किन्तु उसने स्वयं भी यह सुझाव नहीं रखा कि इसकी जाँच होनी चाहिये ।

अक्टूबर १९५० तक भारत ने कोरिया के सवाल पर कभी अमरीका के खिलाफ वोट नहीं दिया । इस बात का महत्व कम नहीं समझना चाहिये । जैसा कि अमरीकी रक्षा विभाग ने हाल में कहा था

“ ... एक ऐसी घड़ी में, जिसे युद्धोत्तर सप्ताह के इतिहास की सबसे नाजुक घड़ी कहा जायगा, भारत अमरीका के साथ था । ”

७ अक्टूबर, १९५० को संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण बैठक ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें एक तरह से जेनरल मैकार्थर को उत्तरी कोरिया पर हमला करने की इजाजत दे दी गयी थी। भारत इस बिना पर तटस्थ रह गया कि ऐसा करने पर चीन के लड़ाई में आ जाने का अन्देश है। यहीं से अमरीका और भारत में मतभेद आरम्भ हुआ। इसी समय से भारत सदा वातचीत के द्वारा कोरिया के झगड़े को सुलझाने का प्रयत्न करने लगा और अमरीका किसी शान्तिमय हल के रास्ते में अड़गे लगाने लगा। अमरीका ने प्रस्ताव रखा कि चीन को आक्रमणकारी घोषित कर दिया जाय और उसके साथ किसी प्रकार का व्यापार न किया जाय। भारत ने इसका विरोध किया। ये मतभेद मई १९५१ तक इसी तरह कायम रहे। जब मई में कोरिया में सुलह की वातचीत शुरू हुई तो इस मतभेद पर थोड़ा पर्दा पड़ा गया।

जापानी शान्ति संधि के अमरीकी मसविदे पर भारत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें जापान में अमरीकी फौज रखने और पास के द्वीपों पर अमरीकी अधिकार रखने की बात कही गयी थी। वैसे भारत इन बातों के खिलाफ नहीं था, पर उसका कहना था कि उनके बारे में अमरीका को जापान के साथ अलग से कोई समझौता करना चाहिये। इस आशय का भारत सरकार ने एक नोट भी अमरीकी सरकार को लिखा, पर उसकी यह हिम्मत नहीं हुई कि वह खुल्लमखुल्ला अमरीका का विरोध करे। इसीलिये, उसने सान फ्रांसिस्को के शान्ति सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वहाँ उसे इस बात का अवसर मिल सकता था कि अमरीकी मसविदे में सशोधन करने पर भारत जोर दे सके।

सुदूर पूर्व की समस्याओं पर भारत और अमरीका के मतभेद, वास्तव में, चीन के प्रति उनके भिन्न दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए हैं। चीन के प्रति भारत की भावना शताब्दियों से गहरी महानुभूति की भावना रही है और एक समान शत्रु के रूप में साम्राज्यवादी शोषण का मुकाबला करने के कारण आधुनिक रूप में इस भावना ने दृढ़ भ्रान्तत्व का रूप धारण कर लिया है। अमरीका को अमरीका का दृष्टिकोण प्रधानतः इस बात से बना है कि एक सौ बरस में वह चीन का हिस्सा-बँट करके शोषण करने में भाग लेता रहा है। अतः अमरीका के लोग मानते हैं कि चीनियों को अधिकार है कि वे किसी सरकार पर दबाव डालें, अपने यहाँ बनायें, वहाँ अमरीकी शायद उनका यह

स्वीकार मानने को तैयार नहीं हैं—विजेपफर तर जब कि चीनियों की पसन्द को नापसन्द हो ।

सरकारी तौर पर भारत और अमरीका के बीच जो भी मतभेद पैदा , वे क्षणिक और कुछ विजेप प्रश्नों पर थे । वे प्रायः उन्हीं सवालों पर र उसी समय उठते थे जिन सवालों पर और जब कभी ब्रिटेन और अमरीका बीच मतभेद पैदा होते थे । यद्यपि यह भी सच है कि भारत की तरह ब्रिटेन, १ के प्रति एक दृढ नीति पर न चल सका, कोरिया के सवाल पर वह समर्पण कर बैठा और उसने जापानी सधि पर भी दस्तखत कर दिया ।

भारत अमरीकी मतभेदों की ओर समार का ध्यान १९५०-५१ में आकर्षित हुआ जब कि उनकी वजह से चीन के खिलाफ अमरीका एक सयुक्त र्वा न बना सका । अखबार पढ़ने वाले भारत के लोग जानते हैं कि भारत कार ने यह नीति प्रदानत जनमत के प्रभाव के कारण ही अपनायी थी ।

रत का जनमत

भारतीय जनमत सदा अमरीकी गुट में शामिल होने का दृढ खिरोधी र चीन से मित्रता रखने का प्रबल समर्थक रहा है । एशिया में विदेशी कर्षों के हस्तक्षेप की उसने हर कदम पर निन्दा की है । जब अमरीका ने रिया में हस्तक्षेप किया तो भारतीय जनमत और समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया । विरोध की थी । भारत सरकार द्वारा अमरीका का समर्थन किये जाने के र कुछ समाचार पत्र ढीले पड़ गये, पर जब एचीसन ने प० नेहरू के सुझाव मानने से इनकार कर दिया और सोवियत प्रतिनिधि सुरक्षा समिति में ३ आये तो सभी भारतीय समाचार पत्र फिर बड़े जोरों से अमरीका की लोचना करने लगे ।

रौवर्ट ट्रम्बल ने इस विषय में नयी दिल्ली से एक समाचार भेजा था जो [योर्क टाइम्स के ७ जुलाई, १९५० के अंक में छपा था

“ कूटनीतिज्ञों और यहाँ के दूसरे पर्यवेक्षकों की राय है कि भारतीय जनमत की नाजुक दशा को देखते हुए प्रधान मंत्री प जवाहरलाल नेहरू के लिये यह एक बहुत हिम्मत का काम था कि उन्होंने सुरक्षा समिति का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें उत्तरी कोरियाई

आक्रमण की निन्दा की गयी थी और उसका मुकाबला करने के उपाय निश्चित किये गये थे ।

“ इस मामले में पं नेहरू ने . . . महत्त्वपूर्ण मोड़ दिया था कि हिन्दुस्तान के लोगों का एक बड़ा हिस्सा उनमें नाराज हो जाय । यह हिस्सा वह है जो पूर्व और पश्चिम के प्रश्न से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है । यही कारण है कि नेहरू के कार्य की प्रथमा बहुत माह्र का कार्य बहुर की जाती है ।

“ कोरिया में युद्ध शुरू होने पर बहुत से प्रभावशाली हिन्दुस्तानी अखबारों ने कहा था कि वहाँ का संघर्ष एक अन्दरूनी मामला है जो अपने-आप सुलझ जायगा और जिसमें किसी बाहरवाले को हाथ नहीं डालना चाहिये । राष्ट्रपति ट्रुमन के ऐलान और कोरिया में तत्काल अमरीकी फौजों के कूद पड़ने की सन्त शब्दों में निन्दा की गयी थी और कहा गया था कि- देखो, फिर पश्चिम वाले एक शुद्ध एशियाई मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

“ प्रधान मंत्री ने बहुत ध्यान पूर्वक प्रश्न का अध्ययन और विचार-विनिमय करने के बाद कोरिया पर अपना मत स्थिर किया । अपने मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाने के पहले वे जिन लोगों से मिले, उनमें अमरीका के राजदूत लौय हेण्डरसन भी थे जिन्होंने प्रधान मंत्री को अमरीका का दृष्टिकोण समझाया ।

“ मि हेण्डरसन ने प. नेहरू के सामने अमरीकी दृष्टिकोण का साफ शब्दों में और पूरा स्पष्टीकरण किया जिसे नेहरू ने बड़ी उत्सुकता और दिलचस्पी के साथ सुना । .

“ परन्तु, ठीक मंत्रिमण्डल की बैठक के दिन मि. हेण्डरसन से नेहरू की बातचीत हुई—इस बात को लेकर भारतीय अखबारों में ऐसा प्रचार हुआ कि राजदूत तथा भारत सरकार दोनों को बयान देकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि मंत्रिमण्डल ने जो निश्चय किया है, उसमें अमरीकी ‘ दबाव ’ का कोई हाथ नहीं है । ”

२० अगस्त, १९५० के न्यू यॉर्क टाइम्स में रौबर्ट ट्रुम्बल ने फिर लिखा

“यद्यपि भारतीय पार्लामेंट प्रस्ताव पास करके मोरिया के सम्बन्ध में नेहरू की कार्रवाइयों का समर्थन कर चुकी है, परन्तु अमलियत कुछ और है। पार्लामेंट को नववीरु से डरेने वाले महसूस करते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी अनुशासन का पयोग न करती और सदस्यों को सचमुच इच्छानुसार वोट करने की स्वतंत्रता होती तो नेहरू के जीतने की सम्भावना पन्नाय प्रतिशत से अधिक न रह जाती।”

आगे आने वाले महीनों में भारत सरकार की नीति पर इस स्थिति प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था।

जैसा कि प नेहरू ने २२ मार्च, १९६९ को 'इंडियन फाउंडमिल ऑफ द अफेयर्स' के मामले मापण करते हुए कहा था

“यदि हमारी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से, किसी एक विशेष दिशा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की कोशिश होगी तो स्वयं हमारे देश के अन्दर कठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी। उसका विरोध होगा और हमारे अपने देश के अन्दर ऐसे झगड़े उठ खड़े होंगे जिनसे न हमारा फायदा होगा, न किसी और देश का।”

प नेहरू यह किसको सफाई दे रहे थे ? उन्हें यह सब कहने की क्यों इतनी पड़ी ? जाहिर है कि इन शब्दों के द्वारा प नेहरू उन विदेशी शक्तियों को सफाई दे रहे थे जिनका कहना भारतीय लोकमत के कारण भारत सरकार को पूरा नहीं माना जा रहा था।

लन्दन के इकोनोमिस्ट ने प नेहरू की समस्याओं का इस प्रकार जवाब दिया था

“इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पं. नेहरू अच्छी तरह यह जानते हैं कि अंग्रेज और अमरीका वालों का भारत की समृद्धि और स्वतंत्रता में अपना हित है, उनकी सहानुभूति भी जनतांत्रिक देशों के साथ है और वह समझते हैं कि भारत का भाग्य जनतांत्रिक देशों के साथ बंधा हुआ है। परन्तु, इस बात को भारतीय जनता को साफ-साफ समझाना देना उनके लिये उतना ही मुश्किल काम है, जितना मुश्किल काम अंग्रेज पाठकों को नेहरू की इस कठिनाई को समझाना है।

“ समाजवाद की ओर घटना बन्द करके पं. नेहरू ने त्रिग तरह अपनी सरकार के तर्कों को एकदम पलट दिया और प्रायोज्य पूंजी और व्यवसाय के हित में वातावरण तैयार करना शुरू किया, उम्मेद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी नैर्भयनी और अन्तर्भा पैला हुआ है। उस स्थिति में यदि नेहरू उन नीतियों की सूची में वैदेशिक नीति को और नहीं जोड़ना चाहते जिनके बारे में उन्होंने और मरदार पटेल ने पिछले तीन वर्षों तक अपने समर्थकों के बीच प्रचार किया है, और जिनमें से प्रत्येक नीति को अब ये उलट्टी दिशा में घुमा रहे हैं, तो हमें आश्चर्य की कौन सी बात है। ”

अमरीकी लेखक लौरेंस रोजिजर ने भी कहा है

“ यदि भारत सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय सगलों पर जहरत में ज्यादा साफ रख अपनाया तो उनके लिये मुदिकल पैदा हो सकती हैं। ”

प नेहरू ने खुद अपनी अमरीका यात्रा के दौरान में एक जगह कहा था “ मुझे अपनी जनता को भी अपने साथ रखना है। ”

इस प्रकार, आर्थिक एव सैनिक दृष्टियों से जहाँ भारत ब्रिटेन और अमरीका के साथ बंधा हुआ है, वहाँ जनमत भारत सरकार को खुद नेहरू के शब्दों में “ एक दिशा में बहुत अधिक नहीं ” बढ़ने देता। इस स्थिति में स्वभावतः पश्चिमी देशों की ओर झुकने की, किन्तु खुलेआम उनके साथ न मिलने की नीति सामने आती है।

भारतीय वैदेशिक नीति की हाल की प्रवृत्तियाँ

परन्तु इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि बुनियादी तौर पर भारत की वैदेशिक नीति अग्रज-अमरीकी गुट का पक्ष लेने की है। जब आलोचना किये बिना काम नहीं चलता, तब बहुत ही नम्र शब्दों में, हजार माफ़ी मांगते हुए, अमरीका की थोड़ी बहुत आलोचना भी कर दी जाती है।

३० अगस्त, १९५१ को भारत सरकार ने जापानी सधि के बारे में अपने नोट में कहा था

“ भारत सरकार आशा करती है कि ऊपर के पैराओं में जो भावना जाहिर की गयी है, और जिसका एशिया के लोगों और पूरी मानवता के

भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा, उस सम्प्रदाय में हमारे द्वार अमरीकी सरकार के दृष्टिकोण की एकता जानिए होती है । जो मतभेद दानों के बीच में हैं, वे तरीकों और उपायों के अन्तर्गत हो रहे हैं ।”

१९ सितम्बर, १९५१ को श्रीमती पंडित ने कहा था

“ जहाँ तक चीन को मानना देने का सम्बन्ध है, हमारा विचार है कि हमारे ऐसा करने से ‘स्वतंत्र राष्ट्रों’ की सेवा होगी । हम मानते हैं कि इस मामले में कुछ मतभेद मालूम हो सकता है, परन्तु वास्तव में, एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये हम केवल एक अन्य उपाय का प्रयोग कर रहे हैं । ” (‘दी स्टेट्समैन’, २० सितम्बर, १९५१)

‘इंडियन काउन्सिल ऑफ वॉर्ट अफेयर्स’ के सेक्रेटरी जनरल, श्री अण्णादोराई ने सुझाव रखा था कि यदि भारत केवल वैदेशिक नीति सम्बंधी बयान देना कुछ कम कर दे, तो भारत और अमरीका के सम्बन्धों में भारी सुधार हो जायगा ।

कुछ लोग मतभेदों को कम करके दिखाते हैं, तो कुछ दोनों देशों के समान हितों की बात करते हैं । वैदेशिक विभाग के सेक्रेटरी जनरल सर गिरिजाशंकर वाजपेयी ने कोरिया का युद्ध शुरू होने के कुछ दिन पहले न्यू यॉर्क टाइम्स के मि सी एल सुल्ज़बर्गर से कहा था कि “ हमारी अपनी समस्याएँ इतनी हैं ” कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते, परन्तु

“ यदि तनाव कम नहीं हुआ और दूसरे युद्ध का खतरा पैदा हो गया तो हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी आशाओं के बावजूद युद्ध से अलग रहना हमारे लिये मुश्किल हो जायगा । हम अभी कहना नहीं चाहते कि तब हम किस पक्ष का साथ देंगे, पर मेरा खयाल है कि आप खुद समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है । ”

और जैसे कुछ गलतफहमी रह गयी हो, इसलिये उन्होंने आगे यह भी क्रमा ही दिया कि :

“ सोवियत संघ की तुलना में पश्चिम और हमारे बीच कहीं अधिक आर्थिक और अन्य ढंग के सहयोग का क्षेत्र खुला हुआ है । ”

अक्टूबर, १९५० में लखनऊ में इंस्टीच्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशन्स का जो सम्मेलन हुआ था, उसके प्रतिनिधि इम राय पर पहुँचे थे कि

“ भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया अपने को पटले से झगड़ाने के लिये बाध देना नहीं चाहते कि हर हालत में वे अमरीका का ही साथ देगे। यद्यपि यह कि फ्रांसीसी जैसे मन्त्रियों पर भी वे ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। परन्तु मुख्य मन्त्रियों के बारे में, जैसे मन्त्रियों के बारे में, जिन पर स्वतंत्र संगठन का भाष्य निर्भर है, उन देशों की समान परम्परा उस बात की गारन्टी है और पिछले तीन वर्षों का अनुभव इस बात का सबूत है कि अन्त में दक्षिणी एशिया और अमरीका एक ही पक्ष में दिगामी देगे।”

१९ मितम्बर, १९५१ को श्रीमती पंडित ने न्यू यॉर्क में एक महत्वपूर्ण वचन दिया था और उसमें माफ ऐलान किया था कि भारत की नीति “संयुक्त राष्ट्र सभ का समर्थन करने और स्वतंत्र राष्ट्रों का समर्थन करने” की नीति है। आधुनिक अमरीकी शब्दावली में स्वतंत्र राष्ट्रों का मतलब होता है वे देश जो अमरीका के साथ हैं, भले ही वे स्वतंत्र हों या गुलाम, साम्राज्यवादी हों या सामन्तवादी। श्रीमती पंडित ने कहा था

“संयुक्त राष्ट्र सभ की हाल की साधारण बैठकों में हमने ३८ बार आप लोगों के साथ वोट दिया, ११ बार हम तटस्थ रहे और केवल दो बार आप से हमारा मतभेद रहा।” उनसे यह भी जोड़ दिया था कि

“पिछले वर्षों के हमारे अनुभव ने कम्युनिस्ट आक्रमण के प्रति हमारे विरोध को और भी उग्र बना दिया है।”

लेकिन, यह कौन सा अनुभव था, यह दुर्भाग्य से मालूम न हो सका।

अतः भारत की पूरी वैदेशिक नीति को यदि लिया जाय तो कहना पड़ेगा कि क्रांजी तथा आर्थिक कारणों से हमारी नीति धीरे-धीरे अमरीका-पक्षी बनती जा रही है। अमरीकी विशेषज्ञ फिलिप्स टैलवौट के शब्दों में .

“भारत की वैदेशिक नीति को सबसे प्रबल प्रवृत्ति पहले ब्रिटेन का साथ देने की थी, परन्तु अब वह क्षीण पड़ गयी है। उसका सबूत यह है कि आज अमरीका में अभूतपूर्व संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी डाक्टर, इंजीनियर और विद्यार्थी दिखाई देते हैं।”

पाकिस्तान की वैदेशिक नीति पर एक नोट

ऊपर हमने अमरीका के प्रति भारत की नीति और भारत के प्रति अमरीका की नीति के बारे में जो कुछ कहा, वह नाटो तौर पर पाकिस्तान पर भी लागू होता है।

भारत की तरह पाकिस्तान की भी सरकार यही दावा करता है कि वह एक स्वतंत्र नीति पर चलती है और किसी गुट के साथ मिलना नहीं चाहती। १७ अगस्त, १९४७ को प्रधान मंत्री लियाकत अल ख़ान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में जिना किसी पूर्व-क्षेत्र के पवेश किया है और वह राष्ट्रों के बीच विचारधारा के संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लेगा। परन्तु, अमल में पाकिस्तान भी ब्रिटिश कौमनवेल्थ का सेम्बर बना हुआ है और आम तौर पर, अंग्रेज़-अमरीकी नीति का वह समर्थन करता है। वल्कि सच तो यह है कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों में पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान से अधिक दृढता से अमरीका का साथ दिया है।

पाकिस्तान की अर्थ-व्यवस्था पश्चिमी गुट, और विशेष कर ब्रिटेन, अमरीका तथा अमरीका द्वारा नियंत्रित जापान के साथ बंधी हुई है।

सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान, अंग्रेज़-अमरीकी शक्तियों पर निर्भर करता है। उसकी सेना में अंग्रेज़ अफ़सरों की एक बड़ी मख्या है। पाकिस्तान में हथियार और दूसरा सामान और शिक्षक भी पश्चिम से ही आते हैं।

एक सरकारी प्रकाशन में बताया गया था कि १९४९ में पाकिस्तान के कई सैनिक अफ़सरों को अमरीका में शिक्षा मिल रही थी।

१९४८ और १९५० में अमरीका के समुद्री बड़े के कई जहाज़ समुदावना प्रकट करने के लिये कराँची आये। रक्षा मंत्री इस्कन्दर मिर्जा

जून १९५९ में अमरीका गये। उद्देश्य यह बताया गया था कि "भविष्य में और घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने की दृष्टि में यह अमरीकी सेना से सम्पर्क कायम करने के लिये वहाँ गये हैं।" अपना काम खत्म करने पर उन्होंने एक बयान में कहा था

"हम पाकिस्तानी, दुनिया में शान्ति की आशा करते हैं और वह कायम रहेगी यदि अमरीकी सेना मद्रा तैयारी की हालत में रखी जाये।"

पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में फौजी सामान अमरीका से मिला है। यह, असल में १९ मई, १९५० को प्रकट हुआ जब दक्षिणी एम्बेस में फौजी सामान से भरे एक जहाज में अकस्मात् विस्फोट हो गया। ४ मई, १९५० को प्रधान मंत्री लियाकत अली ख़ाँ ने वार्शिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब के सामने भाषण करते हुए बताया कि उनकी अमरीका यात्रा का एक उद्देश्य "अपनी सेना के लिये आधुनिक सामान हासिल करना" है। दिसम्बर, १९५० में पाकिस्तान ने पारस्परिक सुरक्षा सहायता कानून के मातहत हथियार और फौजी सामान खरीदने का वाक्यादा एक समझौता अमरीका के साथ कर लिया।

१९५० से ही अखबारों में धार-वार ऐसे समाचार निकल रहे हैं कि पाकिस्तान ने उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त और कश्मीर में अमरीका को फौजी अड्डे बनाने देने का प्रस्ताव किया है।

इसलिये, स्वभावतः पाकिस्तान की वैदेशिक नीति पश्चिमी गुट की नीति के साथ चलती है। भारत से कहीं आगे बढ़ कर पाकिस्तान ने अमरीका को खुश करने की कोशिश की। १२ अप्रैल, १९५० को प्रधान मंत्री लियाकत अली ख़ाँ ने सुझाव रखा कि अमरीका को कोशिश यह करनी चाहिये कि ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक सुरक्षा की गारन्टी दे दे। अक्टूबर, १९५० में पाकिस्तान के प्रतिनिधि-मंडल ने संयुक्त राष्ट्र सभ में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि मैकार्थर को उत्तरी कोरिया के इलाक़े में घुसने की इजाजत दी जाय। भारत ने कोरिया कमीशन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन, पाकिस्तान ने उसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जनवरी, १९५१ में प्रधान मंत्री लियाकत

अली ख़ाँ ने ब्रिटेशी सेनाओं को कश्मीर में आने का निमंत्रण दिया। सितम्बर, १९५१ में पाकिस्तान ने जापानी सचिव के अमरीकी सचिवों पर दस्तख़त कर दिया। जून, १९५२ में पाकिस्तान ने वियतनाम में कठपुतली वाओ टाई की सरकार को मानता देने का फैसला किया।

पाकिस्तान तेज़ी के साथ अंग्रेजों के अमर से निकल कर अमरीका के असर में जा रहा है। इसका सबूत यह है कि बाहर से आने वाली वस्तुओं पर चुगी लगाने के मामले में ब्रिटिश कौमनवेल्थ को जो सुविधाएँ मिली हुई थीं, बहुत सी वस्तुओं के लिये वे रद्द कर दी गयी हैं। १९५० में लियाक़त अली ख़ाँ की अमरीका यात्रा, पाकिस्तान-अमरीका के सम्बन्धों में एक विशेष परिवर्तन की सूचक थी। उसी वर्ष एक अंग्रेज लेफ़्टर ने लिखा था

“ ब्रिटेन से कुछ दूर हो जाने के कारण पाकिस्तान दोस्ती और मदद के लिये अमरीका की ओर देखने लगा है। एडमिरल निमित्त के कश्मीर में मतगणना सचालक के रूप में नियुक्त किये जाने का बड़ा स्वागत हुआ और डॉन ने लिखा है कि अंग्रेजों की जगह अमरीकी टेकनीशियन भरती किये जाने चाहिये। ” (रिचर्ड सिमण्ड्स की पुस्तक “ पाकिस्तान की रचना ” से, पृष्ठ १७३)

अमरीकियों ने इन नीतियों को पसन्द किया। महायुद्ध विदेश मंत्री जॉर्ज मर्डी ने २८ जुलाई, १९५१ को ऐलान किया

“ वे लोग (पाकिस्तान के रहने वाले) बहुत दृढता के साथ पश्चिम की ओर, और विशेष कर अमरीका की ओर झुके हुए हैं। ”

“ पाकिस्तान सरकार ने वरेलू कम्युनिस्ट कार्रवाई को कुचलने के लिये सक्रिय कदम उठाया है। पाकिस्तान सरकार ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को तो मानता दे दी है, परन्तु वह कम्युनिज्म के आक्रमणकारी उद्देश्यों को अच्छी तरह समझती है और अमरीका तथा गैर-कम्युनिस्ट देशों से दोस्ती रखना चाहती है। ”

न्यू यॉर्क टाइम्स ने सितम्बर, १९५१ में लिखा था

“ कम्युनिज्म और जनतंत्र के संघर्ष से भारत अपने को सदा अलग सा रखता है, परन्तु पाकिस्तान तो पश्चिमी ताकतों का नैतिक समर्थन करने के मामले में मानो लड़ाकू रुख अपनाये हुए है। ”

पाकिस्तान सरकार को अमरीकी अपना एक दृष्ट समर्थक मानते हैं। वे समझते हैं कि पाकिस्तान में आगे चल कर दूसरी 'मुस्लिम' सरकारों का नेता बनने की सामर्थ्य है। परन्तु पाकिस्तान का जनमत भारतीय जनमत जैसा ही है। उसने चीन और कोरिया के सवालों पर अपनी सरकार को मजबूर कर दिया कि वह भारत सरकार जैसा ही रुख अपनाये। प्रधान मंत्री लियाक़त अली ख़ाँ और उनका मंत्रिमण्डल पाकिस्तानी कौजों को कोरिया भेजने को तैयार था। परन्तु प्रचल जनमत के विरोध के कारण उनके लिये ऐसा कर सकना सम्भव न हुआ।

परन्तु, पाकिस्तान और अमरीका के बीच यदा-कदा जो मतभेद उठ खड़े होते हैं, उनको बहुत महत्व देना भी गलत होगा।

१९४८ के वसन्त में, पाकिस्तान ने सोवियत संघ के साथ राजदूतों की अदला-बदली करने का फैसला किया। ऐसा करके वह "कश्मीर के बारे में सुरक्षा समिति के फैसलों के खिलाफ अपना क्रोध" जाहिर करना चाहता था। एक वर्ष बाद, जब प. नेहरू को अमरीका से निमंत्रण मिला तो प्रधान मंत्री लियाक़त अली ख़ाँ ने ऐलान कर दिया कि वह सोवियत संघ जाने वाले हैं। परन्तु, फिर उन्होंने वह यात्रा स्थगित कर दी और अन्त में तो इरादा ही त्याग दिया और उल्टे वह अमरीका तशरीफ ले गये। पाकिस्तान सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सोवियत सरकार पर डालने के लिये अजीब-अजीब किस्से अख़बारों में छपवाये। पर अन्तरराष्ट्रीय मामलों के पाकिस्तानी विशेषज्ञ के सरवर हसन ने हाल में उनका पर्दाफाश कर दिया। उसने लिखा

“ वह (लियाक़त अली ख़ाँ) यथार्थवादी थे। उनका उद्देश्य अपनी गरीब जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाना था। यह केवल बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के द्वारा ही सम्भव था, जिसके लिये पाकिस्तान के पास न पूंजी थी, न मशीनें और न तकनीकी दक्षता। ये चीजें सिर्फ पश्चिम से ही आ सकती थीं। इसलिये, वास्तव में, वह देश की बुनियादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिये भी पश्चिम पर उसी प्रकार निर्भर करते थे—जैसे वह कश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिये सुलझाने के लिये उस पर निर्भर करते थे।

“ मि लियाक़त अली ख़ाँ की प्रस्तावित रूस यात्रा के लिये पाकिस्तान में बड़ा उत्साह था। उसे स्थगित करके—वल्कि कहना चाहिये कि

उसका इरादा छोड़ कर यदि उन्हे उन्ह अमरीका जाना पड़ा, तो सिर्फ ऊपर लिखी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का कारण ही । ” (पाकिस्तान होराइजन के दिग्दर्शक, १९५१ के अंक में “ मि० लियाकत अली ख़ाँ की वैदेशिक नीति ” शीर्षक लेख से)

सच बात यह है कि पाकिस्तान सरकार को मदा यह उर लगा रहता है कि अमरीका कहीं भारत को एशिया में अपना प्रधान अंग न बनाना तै कर ले और उस कारण कहीं भारत को पाकिस्तान से ज्यादा ‘ टुकड़े ’ न मिलने लगे, और अमरीकी सरकार पर दबाव डालने के लिये उसे देशी जनमत और अन्तरराष्ट्रीय पैतरेवाजी का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं होती है ।

न्यू यॉर्क टाइम्स ने १५ सितम्बर, १९५१ को लिखा था

“ पाकिस्तानी अब अपने से सवाल करने लगे हैं कि सयुक्त राष्ट्र सभ में और अन्यत्र, अमरीका तथा ब्रिटेन की नीति का लगातार दृढता से समर्थन करके उन्हे कोई फायदा भी हुआ है या नहीं ? और क्या भारत की तरह तटस्थता का खेल खेलना ही पाकिस्तान के लिये अधिक लाभदायक न होगा . ?

“ वे कहने लगे हैं कि भविष्य में पाकिस्तान को अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों पर अपना रुख तै करते हुए इसका ज्यादा खयाल रखना चाहिये कि इसमें मेरे लिये क्या है । ”

इस तरह के दबाव के साथ-साथ पहले से अधिक ‘ सहयोग ’ के वायदे भी किये जाते हैं । प्रधान मंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने २२ अक्टूबर, १९५१ को कहा था

“ कश्मीर की समस्या सुन्दरता के साथ हल हो जाय तो हमारी फ़ौजें खाली हो जायेंगी, और तब कोरिया को फ़ौज भेजने के सवाल पर हम गम्भीरता के साथ विचार कर सकेगे । ”

दक्षिण अफ्रीका, कश्मीर और हैदराबाद

सहयोग और पराधीनता में क्या अन्तर है? यही कि सहयोग में दोनों पक्षों को लाभ होना है और पराधीनता में केवल एक पक्ष को। भारत और पाकिस्तान ने अपनी वैदेशिक नीति के द्वारा प्रायः अमरीकी हितों को मजबूत किया है। अमरीकी हितों पर उन्होंने चोट कभी नहीं की। इसलिये, आशा की जा सकती थी कि भारत या पाकिस्तान के बुनियादी हितों का सवाल उठने पर अमरीका भी यही रुख अपनायेगा। इस अध्याय में हम ऐसे तीन सवालों पर अमरीका का रुख देखेंगे।

दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी

१९४६ में अविभाजित हिन्दुस्तान की अन्तरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की थी कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ बर्बर व्यवहार बन्द हो। अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के रगमेद की भावना में अंधे बने शासकों का साथ दिया और भारत का विरोध किया।

अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासकों का साथ देना पसन्द किया क्योंकि उसे इन लोगों की कठर प्रतिक्रियावादी नीति में, भारत की तटस्थता की नीति से अधिक विश्वास था। रगमेद की नीति का अमरीका समर्थन करता है क्योंकि उसे डर है कि दक्षिण अफ्रीका और एशियाईयों के साथ वह खुद जो मेदभाव बरतता है, कहीं उसके बारे में भी किसी अन्तरराष्ट्रीय मंच से सवाल न उठा दिया जाय। इस प्रकार अमरीकी सरकार ने भारतीय तथा अफ्रीकी जनता के शत्रु का पक्ष लिया है और भारत की वैदेशिक नीति के एक बुनियादी सिद्धान्त का सख्त विरोध किया है।

कश्मीर

दूसरा सवाल जो भारत और पाकिस्तान दोनों में सम्बन्धित है और जो संयुक्त राष्ट्र सच के सामने पेश है, वह कश्मीर का मामला है। इस सवाल पर संयुक्त राष्ट्र सच की बहसों में अमरीका सबसे आगे बढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सच की ओर से फ्रैंक ब्रेहम जो कश्मीर के मामले में संयंत्र और एडमिरल चेस्टर निमित्त को मतगणना सचालक नियुक्त किया गया है। ये दोनों सज्जन अमरीकी हैं और उनके जरिये अमरीका इस मामले में बहुत कारगर ढंग से हस्तक्षेप कर सकता है।

परन्तु, यह समझना गलत होगा कि अमरीका ने कश्मीर में केवल जनवरी, १९४८ से, यानी सिर्फ तभी से दिलचस्पी लेना शुरू किया, जब कि कश्मीर का मामला सुरक्षा समिति के सामने आया। २७ अक्टूबर, १९४७ को रौवर्ट ट्रम्बल ने नयी दिल्ली से समाचार भेजा था

“सिखों (फौजियों) को श्रीनगर ले जाने के लिये जो हवाई जहाज किराये पर लिये गये थे, उनमें से एक पर दो अमरीकी अन्वेषक नयी दिल्ली आये—१५० सेण्ट्रल पार्क साउथ, न्यू यॉर्क का रहने वाला लेखक और भाषणकर्ता निकल स्मिथ और शिकागो का फोटोग्राफर लोरेन टूटेल।

“मि० स्मिथ और मि० टूटेल अपने साथ १८,००० फ्रीट लम्बी एक चलती-फिरती फिल्म, जिस पर उन्होंने कश्मीर और पश्चिमी तिब्बत के चित्र खींचे थे, तो बचा कर ले आये, पर ६,००० डालर के मूल्य का कैमरा आदि उन्हें वहीं छोड़ देना पड़ा।

“मि० स्मिथ हाल के उपद्रव काल में बहुत दूर-दूर तक कश्मीर में घूमे। उन्हें पता चला कि यदि कोई बड़ा उपद्रव शुरू हुआ तो स्थानीय शासक उससे फायदा उठा कर महाराजा के खिलाफ बगावत का झण्डा बुलन्द कर सकते हैं। लद्दाख में मि० स्मिथ ने देखा कि स्वतंत्रता की भावना आम तौर पर लोगों में फैली हुई है।”

दूसरे दिन ट्रम्बल ने फिर लिखा

“न्यू यॉर्क के लेखक और भाषणकर्ता निकल स्मिथ, जो कल श्रीनगर से लौटे, खबर लाये हैं कि लद्दाख प्रान्त की राजधानी लेह

में रूस के समर्थन में कुछ कार्रवाई हो रही हैं। लद्दाख के पड़ोस में चीनी तुर्किस्तान है। मि० स्मिथ ने देखा कि गोकि यह एक चीनी प्रान्त है, फिर भी वहां रूसियों का बहुत अमर है।”

ये दो अमरीकी कौन थे और कश्मीर में क्या कर रहे थे ?

मेजर टूटेल ने पिछले महायुद्ध में पाचवीं लड़ाकू कैमरा टुकड़ी के कमांडर की हैसियत से प्रशान्त के युद्ध क्षेत्र में काम किया था। निकल स्मिथ तुक्रिया विभाग का गुर्गा या और विदेशों में जासूसी का संचालन करने वाले अमरीकी सरकार के विभाग (ओवरसीज स्ट्रैटेजिक सर्विसेज) की ओर से फ्रांस, स्याम, भारत, लंका और चीन में काम कर चुका था। हाल में प्रकाशित अपनी एक किताब तिब्बत का सुनहगा द्वार में उसने कश्मीर यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा है

“ मेरे मन में एक विचार चक्कर लगा रहा था। दूसरे महायुद्ध में मैं अक्सर पूर्वी तिब्बत के पहाड़ों के ऊपर सी-४७ हवाई जहाज में बैठ कर उड़ा हूँ और हर बार मेरे मन में यह डरावना विचार मडराता रहा है कि हमारे नीचे हजारों मील तक समतल ज़मीन का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं है, जिस पर हवाई जहाज उतर सके। सवाल यह था कि क्या पैगोंग झील का इलाका भी नीचे उतरने के लिये इतना ही खराब है ? मैं किसी तरह इस सवाल के जवाब का पता लगाना चाहता था। ” (पृष्ठ २३४)

परन्तु, बीमार पड़ जाने के कारण स्मिथ पैगोंग झील की यात्रा न कर सका और टूटेल अकेले ही वहाँ गया।

“ लोरेन ने जो कुछ देखा, उससे मुझे यह विश्वास हो गया कि झील का उत्तरी भाग बीस मील की लम्बाई तक कम से कम दो मील चौड़ा है और किनारे के पास भी उसकी गहराई बहुत काफी है।

“ लोरेन ने अपनी जेब से डायरी निकाली और उसने मुझे दिखाया कि झील के इस छोर पर हवाई जहाजों के उतरने के लिये कई मील लम्बा स्थान मिल सकता है। बल्कि, उसका तो कहना था कि यहाँ ऐसे कई स्थान मिल सकते हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर पहाड़

भी इतने नीचे हं फि झील से उड़ने वाक़ा मो भी हवाई जहाज़ आसानी से उन्हें पार कर सकता है।

“हम ख़ामोश नहें-ख़दे एक-दूसरे को देखते रह गये।”
(वही पुस्तक, पृष्ठ २४८)

अमरीकी अख़बारों ने फरवरी १९४८ में समाचार छपा कि हेट नामक एक अमरीकी ने आज़ाद कश्मीर फौज में कठे महोनें तक ब्रिगेडियर-जनरल की हैसियत से काम किया है और उसका दावा है कि उसने बहुत से हिन्दुओं को अपने हाथ से मारा है। *

उससे जाहिर होता है कि कश्मीर में अमरीका की दिलचस्पी बहुत पुरानी थी और उसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर की भौगोलिक स्थिति थी। उसका सैनिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। रोज़िजर ने अपनी पुस्तक भारत और अमरीका में लिखा है

“कश्मीर, सोवियत संघ का पड़ोसी है और उसकी सीमा अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान (सिंकियांग), तिब्बत, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से मिलती है। शायद इसीलिये, अमरीका को कश्मीर में इतनी दिलचस्पी है।” (पृष्ठ १०५)

भारत सरकार भी यह अच्छी तरह जानती थी कि चीन और सोवियत रूस के खिलाफ युद्ध चलाने के केन्द्र के रूप में कश्मीर में अमरीकियों की बड़ी दिलचस्पी है। २९ अक्टूबर, १९४७ को रौबर्ट ट्रम्बल ने नयी दिल्ली से न्यू यॉर्क टाइम्स में लिखा था

* सर वी० एन० राव ने फरवरी १९५० में सुरक्षा समिति के सामने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था “भारत चाहे तो इस मामले में सख्ती से पेश आ सकता है और हेट की कार्यवाहियों से उसे जो नुकसान पहुँचा है, उसका मुआवज़ा अमरीका से तलब कर सकता है। इसमें जिन लोगों को हेट ने मार डाला, सिर्फ वे ही नहीं आते। भारत चाहे तो इस लड़ाई का पूरा खर्चा मांग सकता है, क्योंकि हेट द्वारा आगे कश्मीर फौज का संगठन किये जाने के कारण ही भारत को यह लड़ना पड़ा।” (‘हिन्दू,’ १४ फरवरी, १९५०)

“.. भारतीय अधिकारियों का स्पष्ट मत है कि भारत की सुरक्षा के लिये कश्मीर पर अधिकार रखना बहुत आवश्यक है। सरकार के जिन बड़े अधिकारियों से मैंने आज बात की, वे सोवियत संघ के बारे में सोच रहे थे जो उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर गिलगिट के पाम कश्मीर को छूता है।

“ एक भारतीय अफसर ने मुझ से कहा ‘ इस इलाके की वसी प्रजा चूकि मुसलमान है, इसलिये पाकिस्तान को इस सीमा की रक्षा की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी हमें है।’ इस अफसर के विचार में कश्मीर के पहाड़ों को सुरक्षा का पर्याप्त साधन नहीं माना जा सकता।”

इस प्रकार, बड़े भारतीय अफसर अमरीका को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सोवियत संघ के खिलाफ दोनों सरकारों के द्धित एक है। इस का हौआ खड़ा करके और उससे लड़ने के लिये मदद का आश्वासन देकर वे पाकिस्तान से होड़ करना चाहते थे।

१ जनवरी, १९४८ को भारत सरकार ने सुरक्षा समिति से कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की शिकायत की। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जवाब में माग की कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी बातों पर मतभेद है, उन सब पर सुरक्षा समिति गौर करे। अमरीकी और अग्रेज प्रतिनिधियों के रुख से लगता था कि वे भी इस प्रस्ताव को पसन्द करते हैं। जहाँ तक कश्मीर का सम्बन्ध था, उन्होंने भारत की शिकायत को अनसुना कर दिया और माग रखी कि सुरक्षा समिति के मातहत वहाँ ‘ तटस्थ ’ शासन कायम किया जाय और कश्मीर को उसके हाथ में सौंप दिया जाय। जाहिर है कि ‘ तटस्थ ’ शासन का मतलब अग्रेज-अमरीकी गुट के भेजे हुए विदेशी अफसरों का शासन है। ब्रिटिश और अमरीकी प्रतिनिधियों को कश्मीर में स्वतंत्र मतगणना कराने की इतनी चिन्ता न थी, जितनी वहाँ अपना शासन स्थापित करने की थी।

२० जनवरी, १९४८ को सुरक्षा समिति ने एक जॉच कमीशन नियुक्त करने का निश्चय किया। उसमें एक मेम्बर भारत का चुना हुआ रखा जानेवाला था, दूसरा पाकिस्तान का चुना हुआ और तीसरे सदस्य को पहले दो मेम्बर चुनने वाले थे। सुरक्षा समिति के बहुमत से भारत नाराज था, उसने

चेकोस्लोवाकिया को चुना। पाकिस्तान ने अपना सदस्य चुनने में देरी की। अग्नेज-अमरीकी गुट को मौका मिला, उगने दो महीने के लिये कमीशन के काम को खड़ाई में डाल दिया। सुरक्षा समिति का अध्यक्ष हर महीने बदलता रहा। वह अमरीका से राय लेकर भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को गुप्त बातचीत के लिये बुलाना रहा। अन्त में, पाकिस्तान ने अजेन्टाइना को कमीशन का मेम्बर नामजद कर दिया।

२१ अप्रैल को अमरीका और ब्रिटेन ने काम जगादा होना का बहाना बना कर सुरक्षा समिति से कमीशन के सदस्यों की मर्यादा को बढ़ा कर पाँच करने की इजाजत ले ली। दो नये स्थान बेल्जियम और फ़ौलम्विया को दिये गये। ये दोनों देश अमरीका के आवीन ह। साथ ही प्रस्ताव में यह भी जोड़ दिया गया कि यदि भारत और पाकिस्तान द्वारा नामजद दो मेम्बर तीसरे मेम्बर को दस दिन के भीतर चुनने में असमर्थ रहते ह, तो फ़्रांसीसी प्रतिनिधि इस स्थान के लिये किसी को नामजद कर देगा। इस तरह अमरीका खुद भी कमीशन में घुस गया।

भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इस प्रस्ताव पर एतराज किया था, पर कमीशन को मुविदा देने के लिये दोनों ही तैयार हो गये। भारत ने कुछ विशेष प्रवच भी किया। जैसे

“शेख अब्दुल्ला के समर्थकों से सगती से कहा गया कि वे कोई विरोध प्रदर्शन न करें।” (टाइम्स, लन्दन, ११ जुलाई, १९४८)

अमरीका के शामिल हो जाने के बाद कमीशन तुरन्त काम करने लगा। २० जुलाई को उमने त्रिग्वी ली से कहा कि एक बड़ा फ़ौजी अफसर सैनिक सलाहकार बना कर कमीशन की मदद के लिये भेजा जाय। २४ जुलाई को लन्दन के टाइम्स ने समाचार छपा :

“कमीशन को भारत सरकार से इजाजत मिल गयी है कि वह सामरिक परिस्थिति की प्रारम्भिक जाँच करने के लिये एक अमरीकी फौज के मेजर और एक बेल्जियन प्रतिनिधि दो सदस्यों की एक उपसमिति को कदमीर भेजे।”

सैनिक परिस्थिति की यह जाँच कमीशन के अमरीकी सदस्य के सैनिक सलाहकार मेजर फ्रांसिस एम स्मिथ और बेल्जियन के अस्थायी सदस्य

हेरी ग्राफे ने की। कमीशन मन्चिवालय का अभिज्ञ सदस्य रिचर्ड सिमण्ड्स भी इन लोगो के साथ गया था।

कमीशन ने विस्तृत पैमाने पर राजनीतिक और आर्थिक जांच कराने के लिये भी कई जगहों कश्मीर भेजे। परन्तु पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता कराने के लिये उसने कुछ न किया। उल्टे, उसने दोनों सरकारों से परस्पर विरोधी बातें करके उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश की और सितम्बर, १९४८ से फरवरी १९४९ तक वह योरप में जाकर बैठ गया।

कश्मीर में पिछले साल के वसन्त से ही लड़ाई बन्द थी। इस कौड़ी सीमा को भारत और पाकिस्तान ने १ जनवरी, १९४९ को वाक़ायदा समझौता करके पक्की कर दिया। दूसरे रोज़ मौरिस देलवौय नामक एक बेल्जियन जनरल कश्मीर तशरीफ़ ले आया। फरवरी तक ३६ सैनिक दर्शक वहाँ पहुँच गये थे। इनमें से १७ अमरीका से आये थे, ६ मैक्सिको से, ५ बेल्जियम से, ४ कनाडा से और ४ नॉर्वे से। अमरीका और उसके गुट वाले कश्मीर में मजबूती के साथ जम गये।

फिर कमीशन ने सुझाव रखा कि संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रधान मंत्री को कश्मीर के लिये एक मतगणना सचालक नियुक्त कर देना चाहिये जिसके हाथ में शासन के विस्तृत अधिकार रहे। ६ मार्च, १९४९ को प नेहरू ने बताया कि इस पद के लिये जनरल वाल्टर बेडेल-स्मिथ को चुना गया है। स्मिथ चूंकि बीमार पड़ गये, इसलिये २२ मार्च को त्रिग्वी ली ने फ्लोड एडमिरल चेस्टर निमित्ज़ की नियुक्ति का ऐलान कर दिया। यह बात महत्व से खाली नहीं है कि इस पद के लिये चुने गये दोनों नाम अमरीकी अफसरों के थे। बेडेल-स्मिथ एक जनरल था जो वाद में अमरीकी सरकार के ससारव्यापी केन्द्रीय खुफिया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निमित्ज़ समुद्री बेड़े का बड़ा अफसर था। मतगणना सचालक की तनखा ४५,००० डालर वार्षिक रखी गयी। इससे जाहिर होता है कि इस पद को कितना भारी महत्व दिया गया है।

गोकि कमीशन पहले मध्यस्थता या बीच बचाव कराने वाला कमीशन कहलाता था, पर वह दोनों पक्षों को कभी एक साथ बैठाने की बात न करता था। अगस्त, १९४९ में बड़े अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक होने वाली थी।

कमीशन ने उसे मगूँल कर दिया और उल्टे, अमरीकी मदस्य के सुझाव पर प्रस्ताव रखा कि एडमिरल निमित्त को पंच वन कर झगड़े का फैसला दे देना चाहिये । राष्ट्रपति ट्रुमन ने (और स्वयं निमित्त ने भी) भारत और पाकिस्तान पर यह प्रस्ताव मान लेने के लिये दवाव डाला । परन्तु भारत ने इनकार कर दिया । इस समय तक कमीशन और उसके गैरनिर्णय दर्जकों की ' निगरानी ' के बावजूद आजाद कश्मीर की फौज चढ कर ३२ वटालियन हो गयी थी और वह पूरी तरह हथियारों से लैस थी ।

अमरीका अब कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी लेने में तैयार था । वह एडमिरल निमित्त को सर्वोच्च शासक और पंच वन कर भेजना चाहता था । परन्तु भारत सरकार के विरोध के कारण उसे एक बीच का रास्ता निकालना पडा । १४ मार्च, १९५० को क्यूबा, नॉरवे और ब्रिटेन के सहयोग से अमरीका ने सुरक्षा समिति से एक मध्यस्थ नियुक्त करा लिया । इन चार सरकारों ने एक राय से सर ओवेन डिक्सन को इस पद के लिये चुना जो युद्ध काल में वार्शिंगटन में आस्ट्रेलिया के राजदूत थे और यह सकेत किया कि यदि भारत और पाकिस्तान ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया तो भी नियुक्त उन्हें ही किया जायगा । १३ अप्रैल को सुरक्षा समिति ने डिक्सन का नाम मजूर किया और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने उसे मान लिया । प्रधान मंत्री ली ने तुरन्त पेशनयाफ्रता अमरीकी जनरल कुर्त्ने एच हौजेज को डिक्सन का सैनिक सलाहकार नियुक्त कर दिया ।

कुछ महीने बाद डिक्सन ने रिपोर्ट पेश की कि वह अपने काम में असफल रहा है और सिफारिश की कि कश्मीर का वॉटवारा कर देना चाहिए ।

जनवरी, १९५१ में जो कौमनवेल्थ कान्फ्रेंस हुई, उसमें आस्ट्रेलिया और न्यू-जीलैण्ड के अमरीका-परस्त प्रधान मंत्रियों ने कश्मीर में अपनी फौजें भेजने का सुझाव रखा । पाकिस्तान सरकार ने इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया, पर भारत ने उसे नहीं माना ।

फरवरी १९५१ में, अमरीका और ब्रिटेन ने सुरक्षा समिति से एक दूसरा ' मध्यस्थ ' नियुक्त करने की इजाजत ले ली । जनरल आइज्जनहौवर का नाम भी आया, पर बाद में अग्नेज-अमरीकी प्रतिनिधियों ने डा ग्रैहम को चुना । भारत सरकार ने फरवरी वाले प्रस्ताव का विरोध किया था, परन्तु अमरीकी

वैदेशिक विभाग का दवाव पड़ने पर ग्रैहम का उसने स्वागत किया। एक साल की मेहनत के बाद ग्रैहम महाशय ने २५ अप्रैल, १९५२ को रिपोर्ट दी कि अब एडमिरल निमित्ज को भी इस मामले में डाल देना चाहिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले पाँच साल से अमरीका लगातार कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। वह सयुक्त राष्ट्र सभ में चौधरी बना हुआ है। उसने बार-बार ऐसी माँगें पेश की हैं जो सर्वथा अनुचित थीं। बार-बार भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने दुनिया के सामने यह वादा किया कि वे कश्मीरियों को इन “पच्चों” की बातें मानने के लिये मजबूर करेंगे, गोकि कश्मीरी जनता ऐसी बातों के सख्त खिलाफ थी।

सुरक्षा समिति का बहुमत अमरीका की मुठ्ठी में है। उसका प्रयोग करके अमरीका ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों को विवश कर दिया कि उस बहुमत का समर्थन पाने के लिये वे अमरीका की खुशामद करें। इसका परिणाम यह हुआ है कि कश्मीर अनिश्चित काल के लिये दो टुकड़ों में बँट गया है और कश्मीरी स्वयं अपने भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते।

भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने प्रायः यह स्वीकार किया है कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। उदाहरण के लिये, १३ जुलाई, १९५१ को प. नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सामने कहा था

“कश्मीर को, गलती से भारत या पाकिस्तान को मिलने वाला इनाम समझा जाता है। मालूम होता है कि लोग यह भूल जाते हैं कि कश्मीर कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। कश्मीर का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है और वहा रहने वाले ही अपने भाग्य का अन्तिम निर्णय कर सकते हैं।”

परन्तु सुरक्षा समिति की बहसों में हमेशा यह मान कर चला जाता है कि कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाना पड़ेगा। जैसा कि शेख अब्दुला ने २९ अप्रैल, १९५० को कहा था

“.. जब कि प्रत्येक रियासत को यह अधिकार दिया गया था कि वह या तो दोनों में से किसी एक डोमिनियन में शामिल हो जाय या

स्वतंत्र रहे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ हमें मजबूर कर रहा है कि हम भारत या पाकिस्तान, किसी न किसी जेनीनियम में अख्तियार शामिल हो जायें।”

इसीलिये, मतगणना पर जोर दिया जा रहा है और विधान परिषद का विरोध हो रहा है। विधान परिषद यह तर्क कर सकती है कि राज्य रजत रहे या किसी संघ में शामिल हो जाय, बल्कि वह शामिल होने की शर्तों पर भी बातचीत चला सकती है। और अमरीका तो कश्मीरी क्रोध से मतगणना में बोट देने का साधारण हक भी छीनने को तैयार बैठा है। वह जम्मू का विभाजन करना चाहता है। मई, १९५० में एडमिरल निमित्त ने पेलान किया था कि कश्मीर के सवाल को बातचीत के जरिये हल किया जा सकता है। ३ अक्टूबर, १९५१ को दिल्ली के अमरीका-परस्त साप्ताहिक थ्रैश ने गुआत्र रखा था कि कश्मीर को एक संयुक्त भारत-पाकिस्तानी शासन के हाथ में सौंप देना चाहिये जिसके मातहत कश्मीरियों को केवल स्थानीय स्वायत्त शासन का अधिकार हासिल हो।

असल में कश्मीर के सवाल पर अमरीका अपनी समार व्यापी नीति का ही अनुसरण कर रहा है। शेख अब्दुल्ला ने अप्रैल, १९४८ में ही कहा था

“ (सुरक्षा समिति के) अधिकतर सदस्य कश्मीर को केवल रूस के एक पड़ोसी देश के रूप में ही देखते हैं और उसे भविष्य में हम पर आक्रमण करने के लिये एक महत्वपूर्ण फौजी अड्डा समझते हैं। ”

पं नेहरू ने ६ फरवरी, १९५० को कहा था कि भारत पर जो दबाव पड़ रहा है, उससे प्रकट होता है कि कश्मीर के सवाल पर विचार करते समय कुछ बाहरी प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। २८ अक्टूबर, १९५० को उन्होंने कहा कि अंग्रेज-अमरीकी शक्तियाँ ‘रंगे हुए चश्मों’ से कश्मीर को देख रही हैं। और वे अक्सर अपने दृष्टिकोण से कश्मीर की सुरक्षा और कश्मीर में फौजी अड्डे बनाने की बात सोचती हैं।

इस प्रकार, अमरीका वालों के हाथ में पड़ कर कश्मीर का स्थानीय क्षणका एक गम्भीर अन्तरराष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। इससे मुकसान कश्मीरी जनता का ही हुआ है। आज हालत यह हो गयी है कि अगर शेख अब्दुल्ला कश्मीरी क्रोध के आत्मनिर्णय के अधिकार और प्रभु-सत्ता का जिक्र तक कर

देते हैं—जैसा उन्होंने १० अप्रैल, १९५२ के अपने वयान में किया था—तो भारत, पाकिस्तान और अमरीका के अधिकारियों में वौखलाहट पैदा हो जाती है। इस स्थिति को पैदा करने की मुख्य जिम्मेदारी अमरीकी सरकार पर है।

हैदरावाद

जब निजाम और उसके गुट ने हैदरावाद को भारत से अलग करने के उद्देश्य से सुरक्षा समिति से हस्तक्षेप करने को कहा तो अमरीका फौरन उनकी मदद को उठ खड़ा हुआ। अमरीकी प्रतिनिधि जेसप ने वोट दिया कि निजाम की शिकायत पर अवश्य विचार करना चाहिये। जब भारत ने हैदरावाद पर चढाई शुरू कर दी तो उसने भारत की निन्दा की। अमरीकी अखबारों ने एक स्वर से भारत को गालियाँ सुनायीं।

बाद में पता चला कि निजाम सरकार ने अमरीकी सेना के तीन हवा-बाजों को नौकर रखा था। उनमें से एक साहब कनकटीकट के कोलोनल जौन मौन्टे कौब थे। इन लोगों से कहा गया या कि चालीस थण्डरबोल्ट (पी-४७) और पाच ढी सी-३ के हवाई जहाज वे निजाम सरकार के लिये खरीदें। इसके अलावा निजाम ने अमरीका में प्रचार करने के लिये एक अमरीकी प्रचारक फ्रम को कई बड़ी रकमें दी थीं।

मार्च १९५० में, हैदरावाद के भूतपूर्व प्रधान मंत्री मीर लायक अली पाकिस्तान भाग गये। कहा गया कि बी सी मेयर्स नामक एक अमरीकी इंजीनियर और व्यापारी ने भागने में उनकी मदद की थी।

चूँकि निजाम की सेना की बहुत जल्दी हार हो गयी, इसलिये, शायद ऐसी अधिक गम्भीर घटनाएँ न हो पायीं जिनमें अमरीका का हाथ नजर आता।

अमरीका की ' हिमालय सम्बंधी ' नीति

युद्ध के बाद से ही अमरीका हिमालय के इलाके में विशेष दिलचस्पी ले रहा है। इस इलाके में अमरीका जो कुछ करता है, उमका हथारे पड़ोसी देशों पर गहरा असर पड़ता है। इसलिये, उसके इन कामों पर भारत तथा पाकिस्तान की जनता को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

अफगानिस्तान

अमरीकी वैदेशिक विभाग की नज़रों में अफगानिस्तान " एक महत्वपूर्ण और सैनिक दृष्टि से बड़ी लाभदायक स्थिति वाला देश " है। १७ दिसम्बर, १९४८ को किश्चियन साइंस मॉनिटर ने यह समाचार छपा था

" सोवियत संघ, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच का पहाड़ी सरहदी इलाका—यानी अफगानिस्तान उन देशों में है जिनमें अफ्रेज़ों का असर घटने के साथ-साथ अमरीकी असर बढ़ता जाता है।

" अफगान सरकार अधिकाधिक अमरीका की समर्थक बनती जाती है। उसने अनेक अमरीकी व्यापारियों और टेकनिकल विशेषज्ञों को अपने यहाँ बुला लिया है। अफगानिस्तान से हाल में आने वाले मुसाफ़िरो ने बताया है कि अफगान राजधानी में आजकल ७०० विदेशी रहते हैं और उनमें से लगभग आधे अमरीकी हैं।

" अफगानिस्तान के निर्यात व्यापार में अमरीकी फ़र्मों का हिस्सा बढ़ता जाता है। वहाँ के अधिकतर कराकुल को अमरीका रोएँदार कपड़े बनाने के लिये ख़रीद लेता है। कराकुल अफगानिस्तान का मुख्य निर्यात है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान में जो विदेशी पूजी और

इस्तेमाल की चीजें बाहर से आ रही ह, उनका अधिकतर भाग अमरीका से आता है ।

“ कुछ समाचारों के अनुसार, यदि कुछ अमरीकी कम्पनियाँ नये उद्योगों में पूजी लगाने को तैयार होंगी, तो अफगानिस्तान सम्भवत अमरीकी कम्पनियों को खान खोदने के विशेष अधिकार देने से इनकार न करेगा । ”

न्यू यौर्क टाइम्स ने २९ मई, १९४९ को लिखा था

“ लड़ाई खतम होने के बाद से अफगानिस्तान ‘ अमरीकी वनता ’ जा रहा है । ”

युद्ध के बाद से अफगानिस्तान के व्यापार में सबसे प्रमुख स्थान अमरीका का है । १९४६ में, न्यू यौर्क और ब्वाज (इडाहो) की मौरिसन-क्नुडसन कम्पनी को बाध, पुल और सडकें बनाने का ठेका दिया गया । १९४९ में अमरीकी भूगर्भशास्त्रियों के एक दल ने देश की जाँच-पड़ताल की । सोवियत समाचार पत्रों ने बार-बार आरोप लगाया है कि अमरीकावाले अफगानिस्तान में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के वहाने फौजी सडकें बना रहे हैं और सैनिक महत्व की दूसरी चीजों के आँकड़े जमा कर रहे हैं । -

खुद अमरीकी अखबारों में बहुत सी ऐसी बातें छपी हैं जिनसे सोवियत पत्रों द्वारा लगाये गये आरोप सही साबित होते हैं । १७ दिसम्बर, १९४८ को क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा था

“ अफगानिस्तान में अमरीका की दिलचस्पी मुख्यत राजनीतिक और सैनिक कारणों से बढ़ रही है । ”

आगे उसने लिखा था .

“ अफगानिस्तान के हाल के इतिहास में सोवियत का कहीं सख्त दबाव नहीं मिलता. ।

“ इसके अलावा कोई संगठित कम्युनिस्ट पार्टी या उग्रवादी दल भी अभी अफगानिस्तान में नहीं पैदा हुआ है ।

“ फिर भी, अफगान सरकार का खयाल है कि रूसी असर का मुकाबला करने के लिये उसे बाहरी मदद की आवश्यकता है । ”

२३ मई, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने नयाचार प्रकाशित किया था

“ दो हफ्ते तक जोरदार सवाल करने पर भी काबुल में मोवियत वालों की किसी असाधारण कार्रवाई का पता नहीं चला ।

“ फिर भी, कुछ विदेशी कूटनीतिज्ञों ने इस बात का भय प्रकट किया है कि भविष्य में यह सम्भव है कि मोवियत स्वयं इस देश में दिलचस्पी लेना शुरू कर दे ।”

पुराने जमाने में इसी तरह के कारण बता कर तीन बार अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी । अफगान सरकार अमरीका वालों से फसने के लिये पूरी तरह राजी मालूम पड़ती है । १८ नवम्बर, १९४९ को डी कोल्ले स्मिथ ने हिन्दू में लिखा था

“ अफगान सूचना मंत्री, रिदव्या के सैयद मुहम्मद खाँ ने मुझे बताया था कि उनका देश बोल्शेविज्म का प्रेक्लाव रोکنने के लिये पश्चिम से सहयोग करने को तैयार है ।”

अफगानिस्तान में अमरीकी नीतियों के कारण यदि कहीं उसका मोवियत चष या चीन से कोई झगडा हो गया, तो जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के लिये उसका परिणाम गम्भीर होगा ।

अमरीका कितना खुल कर इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा है, इसका एक सबूत यह है कि उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के झगडों में भी टांग अडाना शुरू कर दिया है । मार्च १९५० में, अमरीका के धुमन्तू राजदूत जेसप ने दोनों देशों की यात्रा की । जून में, अमरीका ने इस सवाल के सम्बन्ध में एक नोट अफगानिस्तान भेजा । दिसम्बर में, उसने गैर-रस्मी तौर पर कुछ प्रस्ताव दोनों देशों के सामने रचे । जनवरी १९५१ में, वैदेशिक विभाग का एक विशेष प्रतिनिधि नोट के आधार पर आगे बातचीत चलाने के लिये काबुल गया । मार्च में सहायक विदेश मंत्री जॉर्ज मधी काबुल और करौंची तशरीफ ले गये ।

कश्मीर के मामले को लेकर अमरीका जिस तरह भारत और पाकिस्तान को दबाता आ रहा है, ठीक उसी प्रकार सीमा के झगडे को लेकर उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दबाने का मौका मिल गया है ।

सिंक्रियांग

अफ़गानिस्तान के पूर्व की ओर हिमालय के क्षेत्र में भारत की सीमा चीन को छूती है। इन दो देशों के आपसी सम्बन्ध पर एशिया का भविष्य निर्भर करता है। इसलिये, भारत-चीन सीमा पर अमरीकी कार्रवाइयों का सारे एशिया और पूरे ससार के लिये महत्व है।

अमरीका कई साल से सिंक्रियांग के प्रान्त में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। सुदूर-पूर्व के मामलों के अमरीकी विशेषज्ञ ओवेन लैटिमूर ने सिंक्रियांग को "दुनिया की धुरी" कहा है। लडाई के बाद से सिंक्रियांग जानेवाले अमरीकी पत्रकारों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। मार्च १९४९ में न्यू यॉर्क टाइम्स के सम्वाददाता वाल्टर सुलिवेन ने उसमान बेटर नामक उस नामी डकैत से मुलाकात की जिसे चीन की जनवादी सरकार ने युद्ध अपराधी घोषित कर रखा था। उसमान ने उससे कहा कि वह चीनी आजाद फौज को सिंक्रियांग में घुसने नहीं देगा और अपनी ५,००० की फौज लेकर उसका मुकाबला करेगा।

१९५०-५१ में चीनी आजाद सेना ने उसमान और उसके सगी-साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुक़दमा चला जिसमें उन पर १,१७५ हत्याओं और २३० डकैतियों का आरोप लगाया गया। उसमान ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी कूटनीतिज्ञ उसकी मदद किया करते थे। चीनी अधिकारियों ने तिहुआ में अमरीकी सहायक-दूत और ब्रिटिश दूत के घरों की तलाशी ली। उससे-इन साक्षियों का भण्डाफोड़ करने वाली और सामग्री भी मिल गयी।

इस सामग्री से पता चला कि अमरीकी सहायक दूत डगलस मैकियरनन अपना अधिकतर समय जासूसी करने और सिंक्रियांग में क्रान्तिकारी आन्दोलन पर हमले कराने में खर्च करता था। १९४७ में, उसने मंगोलिया जनतंत्र की सीमा पर झगड़े कराने के लिये कुछ झगड़े कराये थे और उनमें खुद भाग लिया था। जुलाई १९४८ में, उसने उसमान और एक दूसरे डकैत जानिम खॉ को अपने जासूसों में भरती कर लिया था। सितम्बर १९४९ में, जब कि सिंक्रियांग की फौजों ने कुओमिन्तांग के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, पर नयी जनवादी सरकार अभी अपने को वहाँ जमा नहीं पायी थी, तो मैकियरनन

रेडियो के दो सेटों को लेकर पूर्वी सिंक्रियाग की ओर भाग गया। वहाँ वह उसमान और जानिम खाँ वगैरा से मिला। उसने उन्हें सोना और गोला-बारूद दिया तथा सिंक्रियाग में तोड़फोड़ का काम जारी रखने की हिदायत दी।

इसके बाद मैकियरनन के दल ने तिब्बत होकर भारत आने की चेष्टा की। २९ जुलाई, १९५० को अमरीकी वैदेशिक विभाग ने ऐलान किया कि मैकियरनन को १३ अप्रैल, १९५० को सीमा पार करते समय कुछ तिब्बती सतरियों ने गोली मार दी। कुछ सप्ताह बाद रायटर ने समाचार मेजा कि मैकियरनन के साथ दो श्वेत हस्ती और मारे गये थे। उसने यह भी बताया कि तिब्बत सरकार ने एक विशेष दूत भेजकर सतरियों को आदेश दिया था कि एक अमरीकी दल सीमा पार करने वाला है और उस पर गोली न चलायी जाय। दूत तीन दिन ढेर से पहुँचा। उस दूत को और गोली चलाने वाले सतरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अमरीकी राजदूत इत्यादि जिस बद्रहवासी के साथ तिहुआ से भागे, वह भी सन्देह पैदा करने वाली बात है, क्योंकि दूसरे चीनी शहरों में वे कुओमिन्ताग के पतन के बाद भी जमे हुए थे। तिहुआ वालों के भागने के लिये जो लम्बा-चौड़ा इन्तजाम किया गया था, उससे पता चलता है कि अमरीकी सरकार इन लोगों के सुरक्षित ढग से भाग आने को बहुत महत्व देती थी। चीनियों द्वारा जाँच किये जाने पर यह सन्देह सच निकला।

मैकियरनन के घर की तलाशी ली गयी तो १५३ पेटी विस्फोटक पदार्थ, बहुत सा गोला-बारूद और जासूसी का काम करने के लिये विशेष तौर पर बना हुआ एक रेडियो सेट वहाँ से मिला।

दिसम्बर, १९५० में ब्रिटिश राजदूत जी० फौक्स-होम्ज़ के घर की तलाशी ली गयी तो पता चला कि मैकियरनन के साथ उसकी साँठ-गॉठ थी। तलाशी में गोला-बारूद की दो बड़ी-बड़ी पेटियाँ, एक खबरें भेजने और खबरें नोट करने वाला रेडियो सेट, और कुछ कागज मिले जिनसे मैकियरनन और उसमान के सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता था। फौक्स-होम्ज़ ने अमरीकी दूतावास की जासूसी की कुछ रिपोर्टें छिपा दी थी। सिंक्रियाग में तैनात कुओमिन्ताग की ५ वीं घुड़मवार फौज के कमांडर मा चंग-सियाग और

चार अन्य युद्ध अपराधियों को भारत भाग जाने के लिये पासपोर्ट उसने दिया था ।

इन समाचारों से ऐसा मालूम होता है कि सिंक्रियांग में अमरीकियों की ये सरगर्मियों भारत सरकार की रजामन्दी के बिना नहीं हो सकती थीं । इनसे यह बात भी साफ हो जाती है कि हाल में कश्मीर में बहुत से कजाक भगोड़े किस तरह आ गये हैं और उनके कारण भारत और चीन के बीच बدمन्गरी पैदा हो गयी है ।

सिंक्रियांग में अमरीकी सरगर्मियों से कश्मीर के सवाल पर भी रोशनी पड़ती है और यह मालूम हो जाता है कि आखिर वहाँ अमरीका क्यों इतने जोरों से दिलचस्पी ले रहा है । सिंक्रियांग में किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिये कश्मीर एक केन्द्र के रूप में काम देता है ।

नेपाल

दूसरे महायुद्ध से एक सौ साल पहले तक नेपाल का बाहरी दुनिया से कोई सम्बन्ध न था । यह अलगाव अमरीका ने तोड़ा । २४ मई, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने सम्पादकीय लेख में लिखा था

“ युद्ध के बाद अमरीका का असर नेपाल के राजनीतिक दुर्ग में घुसने में कामयाब हुआ और अमरीका की कोशिशों का वहाँ स्वागत किया गया । ”

सितम्बर, १९४९ में नयी दिल्ली स्थित अमरीका के विदेशी आर्थिक व्यवस्था विभाग के कुछ विशेषज्ञ नेपाल गये । कहा गया कि ये लोग “ नेपाल के आर्थिक विकास और अमरीका से सीधे-सीधे व्यापार करने की सम्भावना पर गैर-रस्मी तौर पर बातचीत करने ” के लिये वहाँ गये हैं । लगभग इसी समय लन्दन स्थित नेपाली राजदूत वाशिंगटन गया और वहाँ अमरीकी राष्ट्रपति और दूसरे बड़े अमरीकी अधिकारियों से मिला । जुलाई और अगस्त १९४६ में, कमांडिंग जनरल बाबर शमशेर जंग बहादुर राना के नेतृत्व में एक नेपाली सद्भावना-मण्डल अमरीका की यात्रा को गया । यह मण्डल अमरीका के वैदेशिक एवं युद्ध विभागों का मेहमान था । नवम्बर, १९४६ में नयी दिल्ली स्थित अमरीकी दूत जॉर्ज मेरेल नेपाल के प्रधान मंत्री को एक

अमरीकी पदक से विभूषित करने के लिये काठमाण्डू गया। अप्रैल १९४७ में, सात आदमियों का एक अमरीकी कूटनीतिक मिशन जोसेफ सी० सैट्थर्वेट के नेतृत्व में मित्रता के समझौते पर हस्ताक्षर करने और विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिये नेपाल गया। सैट्थर्वेट ने नेपाल के राजा को टुमन का एक खत दिया जिसमें नेपाल की स्वतंत्रता स्वीकार की गयी थी।

फरवरी १९४८ में, नेपाल और अमरीका ने राजदूतों ही अदला-बदली करने के बारे में समझौता किया। मई में राजदूत हेनरी ग्रेडी अपनी पत्नी और पाँच कर्मचारियों के साथ राजा के सामने अपना प्रमाण-पत्र पेश करने के लिये काठमाण्डू गये। ग्रेडी के उत्तराधिकारी लैथ हेण्डरसन ने भी कई बार काठमाण्डू की यात्रा की।

१८ फरवरी, १९५० को लन्दन के टाइम्स ने यह समाचार छापा कि नेपाल सरकार ने सबके बनाने, बिजली के स्टेशन बनाने, बिना तार के तार का प्रबंध करने, खाने खोदने और सिंचाई की योजनाएँ चालू करने के लिये ब्रिटेन और अमरीका दोनों से मदद मागी है।

३१ जुलाई, १९५० को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार छापा कि राना सरकार किसी भारतीय, स्विट्स या अमरीकी कम्पनी को खनिज पदार्थों की जाँच-पड़ताल का काम देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

इस प्रकार रानाशाही बहुत-तेजी के साथ अंग्रेज-अमरीकी गुट में मिलती जा रही थी। प्रोफेसर दिलीरमण रेग्मी ने १९५० में ही कहा था कि नेपाल का महाराजा निकट भविष्य में एक तीसरे महायुद्ध की आशा लगाए हुए है और उसके विचार में इस युद्ध में नेपाल और भारत अंग्रेज-अमरीकी गुट का साथ देगे।

७ नवम्बर, १९५० को हिन्दू ने समाचार भेजा कि राना सरकार के विरोधियों का कहना है कि रानाओं ने “ ब्रिटेन के छोटे साझेदार—यानी भारत के सहयोग से ” नेपाल को “ अंग्रेज-अमरीकी गुट का अड्डा ” बना दिया है। नेपाल में अमरीकी यात्री बड़ी मख्या में भर आये हैं। ऊपर से कहने को तो ये लोग पक्षी, पौधे और फल-फूल जमा करने आये हैं, पर अन्दर-अन्दर वे कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। रानाशाही के विरोधियों का कहना था कि ये आसार अच्छे नहीं हैं।

अमरीका के येल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय भूगोल समिति और स्मिथ-सोनियन इंस्टीच्यूट ने एक वैज्ञानिकों की टुकड़ी नेपाल भेजी थी। इसके नेता डॉ० सिडनी डिलन रिपले थे। रिपले साहब की जीवनी पर नजर डालिये तो पता चलता है कि १९४२ में हरवर्ड विश्वविद्यालय की पढाई खतम करने के बाद उन्हें ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज (केन्द्रीय जासूसी विभाग) ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में जासूसी के कामों का संचालक नियुक्त कर दिया था और युद्ध के अन्त तक वह इसी पद पर बने रहे थे। १९४६ में उनको येल के पीबडी अजायबघर का सहायक संचालक नियुक्त किया गया और उसके बाद फौरन ही उन्हें नेपाल भेज दिया गया।

अमरीकी योजनाओं में नेपाल का महत्व उस समय मालूम हुआ जब चीन के साथ तिब्बत के सम्बंधों का सवाल सामने आया। २४ नवम्बर, १९४९ को हिन्दू ने समाचार छपा था

“ ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार एकमात्र सम्भव नीति यही हो सकती है कि तिब्बत को अपने घोषित स्वायत्त शासन के अधिकार पर जमे रहने के लिये प्रोत्साहित किया जाय और काठमाण्डू स्थित ब्रिटिश राजदूत के जरिये कोशिश की जाय कि तिब्बती सरहद से कम्युनिज्म को दूर रखने की इच्छा से प्रेरित होकर नेपाल दरबार-लासा के लामा शासन का बराबर समर्थन करता रहे। ”

अमरीकी भी बराबर इसी ढंग की बातें कर रहे थे और रानाओं को भी ये बातें अच्छी लगती थीं। जुलाई, १९५० में नेपाल के महाराजा ने न्यू यॉर्क टाइम्स के सम्वाददाता से कहा कि उसे “ यह देख कर बड़ी खुशी है कि कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सभ की कार्रवाई को इतना अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है। ”

६ नवम्बर, १९५० को युनाइटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने कलकता से समाचार भेजा कि नेपाल के प्रधान मंत्री ने बड़ी घबराहट में अमरीका से अपील की है कि तिब्बती सरहद पर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये वह जल्द से जल्द काफ़ी हथियार नेपाल भेजे। नयी दिल्ली में नेपाली दूतावास ने तो इस समाचार का खण्डन किया, पर रानाशाही के नेपाली विरोधियों का कहना था कि यह समाचार सही है।

रानाशाही पर अमरीकी असर को बढ़ते हुए देख कर भारत के सरकारी हल्कों में भी चिन्ता पैदा हुई क्योंकि यहाँ नेपाल को भारत के प्रभाव क्षेत्र में समझा जाता था। जिस रोज नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा अमरीका से हथियार मागने का समाचार निकला था, उम्मी रोज यानी ६ नवम्बर को नेपाल के राजा ने काठमाण्डू में भारतीय राजदूतावास में शरण ली। एक सप्ताह के भीतर नेपाली कांग्रेस की फौजों ने भारत से नेपाल पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज और अमरीकी अखबारों को आशा थी कि विद्रोह बहुत जल्द कुचल दिया जायगा। इसलिये, उन्होंने ऐलान कर दिया कि राजा शासन करने के अयोग्य है, और पश्चिमी सरकारों को उसके तीन वर्ष के बालक को राजा मान लेना चाहिये। प्रधान मंत्री ने इस बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया था।

परन्तु तराई में राना-विरोधी शक्तियाँ बल पकड़ती गयीं और जनवरी में रानाशाही ने घुटने टेक दिये। उधर भारत सरकार को डर था कि विद्रोह कहीं बहुत आगे न बढ़ जाय। उमने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर रानाओं से समझौता करने के लिये जोर दिया। समझौता हो गया और रानाओं तथा कांग्रेसी नेताओं की संयुक्त सरकार कायम हुई। परन्तु जन आन्दोलन के एक भाग ने संघर्ष जारी रखा। इसे कुचलने के लिये भारतीय फौजों को नेपाल सरकार से सहयोग करने का हुक्म दिया गया। जब यह कोशिश नाकामयाब रही तो रानाओं का पक्ष और कमजोर हो गया।

पर नेपाल में अमरीकियों की सर्गमियों नहीं रुकी। २३ जनवरी, १९५१ को राना-कांग्रेस समझौता होने के कुछ दिन बाद, अमरीका और नेपाल ने 'चौथे सूत्र' के समझौते पर दस्तखत कर दिये। खनिज पदार्थों का एक विशेषज्ञ प्राथमिक जाँच करने के लिये तुरन्त नेपाल पहुँच गया। २७ अप्रैल, १९५१ को दोनों सरकारों ने अपने-अपने दूतों का पद बढ़ा कर उन्हें राजदूत बना दिया। अमरीका बार-बार काठमाण्डू में अपना राजदूतावास खोलने के लिये इजाजत मांग रहा था। परन्तु प नेहरू ने नेपाल सरकार को सलाह दी कि उसे ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिये क्योंकि फिर चीन सरकार भी काठमाण्डू में दूतावास खोलना चाहेगी।

ठीक इन्हीं दिनों भारतीय समाचार पत्रों में खबरें छपीं कि अमरीकी पादरी भारत-नेपाल सीमा के निकट कुछ अनुचित कार्यों में व्यस्त हैं।

परन्तु वर्ष के अन्त तक, रानाओं की भौति काप्रेसी सरकार भी कम्युनिस्टों का हौआ खड़ा करने लगी। दिसम्बर १९५१ में, एम० पी० कोइराला ने न्यू यॉर्क टाइम्स के सम्वाददाता को बताया कि नेपाली फौजें तिब्बत वाली सीमा की रक्षा करने को पहुँच गयी हैं। नेपाली पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल ने कहा कि तिब्बत से कम्युनिस्ट नेपाल में घुस रहे हैं, उन्हें रोकने के लिये फौज सीमा पर भेजी गयी है। यह कम्युनिस्टों के नेपाल में घुसने की बात पहाड़ों पर चढ़ने के शौकीन एरिक शिप्टन नामक एक अंग्रेज की रिपोर्ट के आधार पर कही जा रही थी।

तिब्बत

सदियों से यह बात समी लोग मानते हैं कि तिब्बत चीन का एक अविभाज्य अंग है, यद्यपि उसे स्वायत्त शासन के अधिकार प्राप्त हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये यदि कुओमिन्ताग सरकार को चीन से सद्देहने के बाद चीन की नयी सरकार इस सम्बन्ध को कायम रखना चाहती है। परन्तु, भारत सरकार ने उसे राय दी कि उसकी फौज को तिब्बत में नहीं घुसना चाहिये और जब उसकी सलाह नहीं मानी गयी तो भारत सरकार ने खुलेआम चीनी सरकार की निन्दा की। वह यह भी भूल गयी कि कुछ ही दिन पहले उसकी फौजें भी ठीक इसी तरह हैदराबाद में घुसी थी। कहा जाने लगा कि भारत और चीन के सम्बन्ध अब टूट जायेंगे। स्टेट्समैन ने तिब्बत में चीन का विरोध करने के लिये भारत, पाकिस्तान और वर्मा का संयुक्त मोर्चा बनाने की अपील की। चीनियों का कहना था कि विदेशियों के प्रभाव के कारण तिब्बत का मसला शान्ति के साथ हल नहीं हो पा रहा है। अमरीका, और भारत में उसके मित्र इस बात से इनकार करते थे। भारत और चीन की दोस्ती को तोड़ने के लिये विदेशियों की ओर से जो कोशिशें हो रही हैं, उन्हें समझने के लिये तिब्बत के मवाल पर ज़रा विस्तार से मोचने की आवश्यकता है।

चीनी सेना के घुसने के बहुत पहले से ही अमरीका तिब्बत में दिलचस्पी लेने लगा था। १९४२ में दो अमरीकी जासूसों को तिब्बत भेजा गया था। दुद काल में कई बार अनर्गकों हवाई जहाज तिब्बत में उतारे (इस वहाने से

कि जहाज खराब हो गये थे) और अमरीकी सरकार ने तिब्बत के अधिकारियों को बिना तार के तार के यंत्र (वायरलेस सेट) भेंट किये ।

३ मार्च, १९४६ को एक तिब्बती सवभावना-मण्डल दिल्ली आया और अमरीकी प्रतिनिधि से मिला । वह राष्ट्रपति ट्रुमन के नाम मित्र राष्ट्रों की विजय पर बवाई का मन्देश लाया था । इसके कुछ दिन बाद लन्दन और न्यू यॉर्क से प्रकाशित होने वाली इन्टेलीजेंस डाइजेस्ट की ओर से अमरीकी डि राइनकोर्ट नामक एक फ्रांसीसी पत्रकार कलिम्पोंग के रास्ते से तिब्बत गया । भारत में अग्रेज अधिकारियों ने और तिब्बत में उनके प्रतिनिधियों ने उसकी मदद के लिये कुछ न उठा रखा । यहाँ तक कि स्वयं दलाई लामा ने भी उससे मुलाकात की । १९४७ में अमरीका के एक अनुभवी जासूस निकल स्मिथ को फौजी अड्डों के लिये स्थान चुनने के उद्देश्य से कश्मीर और पश्चिमी तिब्बत का दौरा करने की इजाजत और आवश्यक सुविधाएँ दी गयीं ।

जैसे-जैसे कुओमिन्ताग के पतन का समय नजदीक आता गया, वैसे वैसे लासा की लामाशाही अमरीका के नजदीक आती गयी और चीन से तिब्बत को अलग करने की कोशिश करने लगी । १९४८ में तिब्बत का एक व्यापारी मिशन अमरीका और ब्रिटेन गया । तिब्बत स्वतंत्र और प्रभुसत्ता प्राप्त देश नहीं था । वह चीन का एक प्रान्त मात्र था । परन्तु, इस मिशन को अग्रेज और अमरीकी अधिकारियों ने तिब्बती पासपोर्टों के आधार पर अपने देशों में आने की अनुमति दे दी । क्रिस्टौफर रैंड नामक पत्रकार ने एक साल बाद लिखा कि “ बहुत से जानकार लोगों का खयाल है कि यह मिशन, वास्तव में, फौजी मदद मांगने गया था । ”

८ जुलाई, १९४९ को तिब्बत के अधिकारियों ने कुओमिन्ताग के प्रतिनिधियों को अपने यहाँ से निकला दिया । साथ ही वे लोग कुछ स्वतंत्रता का ढोंग रचने लगे । चन्द हफ्ते बाद, अमरीकी रेडियो पत्रकार लीवेल टौमन और उसका पुत्र अमरीका गया । उन्होंने राष्ट्रपति ट्रुमन का एक पत्र दलाई लामा को दिया । उसमें क्या लिखा था, यह आज तक मालूम नहीं हो सका है । एक राज्य का अध्यक्ष दूसरे देश के एक प्रान्त के शासक को पत्र लिखे— कूटनीति के इतिहास में यह एक अनोखी कार्रवाई थी ।

१० अक्टूबर, १९४९ को लैवेल टौमस ने कलकत्ता में कहा कि तिब्बत के अधिकारी कम्युनिज्म के बढ़ाव को रोकने के लिये बाहरी मदद चाहते हैं और भारत को इस काम में प्रमुख भाग लेना होगा। एक सप्ताह बाद, उसने न्यू यॉर्क के अखबारों के प्रतिनिधियों से कहा कि अमरीका को चाहिये कि वह तिब्बत को आधुनिक हथियार भेजने का कोई तरीका निकाले और छापेमार लड़ाई के उपाय बताये। उसने यह भी बताया कि टुमन और एचीसन के नाम वह तिब्बती शासकों से पत्र और जवानी सन्देश लाया है।

इन सन्देशों में क्या था, यह २५ अक्टूबर के न्यू यॉर्क टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार से मालूम हो सकता है कि अमरीका का वैदेशिक विभाग तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा था। आगे अखबार ने लिखा था

“ इस सवाल को लेकर कुछ कूटनीति की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं क्योंकि अमरीका तिब्बत के पहाड़ी इलाक़े को बहुत दिनों से चीन का भाग मानता आया है। ..

“ तिब्बती सरकार ने अभी तक गैर-सरकारी तौर पर कम्युनिस्ट फौजों को रोकने के लिये सैनिक सहायता मांगी है।

“ तिब्बत को अलग देश मान लेने पर अमरीका के लिये यह सम्भव हो सकेगा कि कम्युनिज्म को रोकने के लिये विदेशों को हथियारबन्द करने के वास्ते जो फण्ड (हथिया) है, उसमें से कुछ रकम वह तिब्बत के लिये खर्च कर सके। ”

ये खबरें पं० नेहरू की अमरीका यात्रा के समय निकली थीं। ध्यान रहे कि तिब्बत में हथियार भेजने का भारत के सिवा और कोई रास्ता नहीं था।

नवम्बर में, तिब्बत के कार्यवाहक राज्याधिकारी (रीजेन्ट) ने एक अमरीकी खबर एजेंसी के सवालों का जवाब देते हुए तिब्बत की आजादी का ऐलान कर दिया और “ सभी राष्ट्रों से ” सहायता की अपील की।

इस समय तक भारत सरकार भी तिब्बत में खूब दिलचस्पी लेने लगी थी। २७ जुलाई, १९४९ को रायटर ने समाचार भेजा कि प नेहरू निकट भविष्य में लामा जाने की बात सोच रहे हैं। २९ जुलाई को लन्दन के टाइम्स ने दिल्ली का यह समाचार छपा

“ तटस्थ दर्शकों का विचार है कि हाल में भारत सरकार और दलाई लामा की सरकार के बीच जो अधिक घनिष्ठ सम्बंध स्थापित होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, उनसे प्रतीत होता है कि कम्युनिज़्म को पश्चिम की ओर फैलने से रोकने के लिये एक और मजबूत दीवार खड़ी हो रही है । ”

१० अगस्त को युनाइटेड प्रेस आफ अमरीका ने बताया कि वाशिंगटन के राजनीतिक क्षेत्र “ पुराने चीन-तिब्बत सम्बंध की जगह भारत-तिब्बत सम्बंध स्थापित करने की सम्भावना पर ” विचार कर रहे हैं । इसके कुछ दिन बाद सिक्किम स्थित भारतीय राजनीतिक अफसर एच एस दयाल किसी विशेष काम के लिये लासा चल दिये ।

१० जनवरी, १९५० को एक अमरीकी खबर एजेंसी ने लन्दन से समाचार भेजा कि “ तिब्बत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये क्या किया जाय, इस प्रश्न पर भारत, ब्रिटेन और अमरीका के बीच समझौता हो गया है । ” दो दिन बाद नयी दिल्ली के वैदेशिक विभाग ने ऐलान किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, पर उसने यह नहीं कहा कि इस प्रकार की कोई बातचीत भी नहीं हुई है । हिन्दू ने १३ जनवरी, १९५० को लिखा

“ जहाँ तक भारत का सम्बंध है, तिब्बत की मदद में भारतीय फौज के जाने का कोई सवाल नहीं उठता । परन्तु, यदि तिब्बत को हथियार और गोला-बारूद की मदद भेजनी है, तो जाहिर है कि यह मदद भारत होकर ही जा सकती है । पर स्पष्ट है कि यह एक ऐसा नाजुक सवाल है जिस पर कोई सरकारी बयान नहीं निकल सकता । ”

इसके चन्द दिन बाद लासा से एक सद्भावना-मण्डल भारत, अमरीका और कुछ दूसरे देशों की यात्रा के लिये रवाना हो गया । उसका चीन जाने का इरादा नहीं था ।

जनवरी १९५०, में चीन में जनवादी राज्य के स्थापित होने के तीन महीने बाद तिब्बत में यह हालत थी । लासा की लामाशाही चीन से लड़ने के लिये सक्रिय रूप से विदेशों से मदद पाने की कोशिश कर रही थी । अंग्रेज और अमरीका वाले तिब्बत को चीन से अलग रखने की चेष्टा कर रहे थे । भारत की नीति ऐसी थी जिससे उनकी इस कोशिश में मदद मिलती थी ।

चीन की जनवादी सरकार तिब्बत के सवाल का कोई शान्तिमय हल निकालने की कोशिश कर रही थी। २१ जनवरी, १९५० को उसने तिब्बत के अधिकारियों को निमंत्रण दिया कि वे "सवाल का शान्तिमय हल निकालने के वास्ते बातचीत चलाने के लिये" अपने प्रतिनिधि को पीकिंग भेजें। ३० जनवरी, १९५० को उसने माग की कि विदेशों को भेजा गया सद्भावना-मण्डल वापिस बुला लिया जाय। साथ ही उसने तिब्बत को "उचित क्षेत्रीय स्वायत्त शासन अधिकार" देने का आश्वासन दिया।

तिब्बत के शासकों की तत्काल प्रतिक्रिया यह हुई कि ३१ जनवरी को 'रेडियो तिब्बत' ने ऐलान किया कि दलाई लामा ने सम्भव हमले का मुकाबला करने के लिये पड़ोस के देशों से मदद मांगी है। यह रेडियो रेजिनाल्ड फौक्स नामक एक अग्रेज ने तैयार किया था। हर्रार नामक एक अस्ट्रियन को पूर्वी मोर्चे पर फौज की कमान हाथ में लेने को भेजा गया। औफ़रनाइडर नामक एक दूसरे अस्ट्रियन को महत्वपूर्ण पुलों और नदियों की देखरेख करने का काम सौंपा गया।

इसके बाद शायद लामा सरकार की राय में कुछ परिवर्तन हुआ और उसने टालमटूल की नीति पर चलना शुरू किया। फरवरी में चीन सरकार से बातचीत करने के लिये एक मिशन भी लासा से रवाना हो गया। परन्तु, वह भारत में आकर अटक गया और चीन जाना स्थगित करने के लिये नित नये वधाने तलाशने लगा। वह अप्रैल में कलकत्ते पहुँच गया था। जून तक वह हागकांग जाने के लिये-अग्रेज अधिकारियों की अनुमति की बात देखता रहा। ५ जून को भारतीय पुलिस ने बताया कि मिशन का वीसा (अनुपति पत्र) रद्द कर दिया गया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने उसे राय दी कि चीनी राजदूत के आने तक उसे भारत में ही इन्तजार करना चाहिये। मिशन के मददगारों ने तुरन्त इस राय को मान लिया।

इस बीच दलाई लामा का भाई, ग्यालो थोण्डुप एक दूसरे मिशन पर निकला। उसके लिये उसे न पामपोटों की दिक्कत हुई, न वीसा की। वह कलकत्ता में ठहरे हुए तिब्बतियों से मिला और फिर मई में च्यांग काई-शेक से मिलने फार्मोसा चला गया।

९ मई, १९५० को कलकत्ता में ठहरे हुए मिशन के नेता ने ऐलान

किया कि तिब्बत को नेपाल-तिब्बत संधि के अनुसार नेपाल से फौजी मदद पाने की आशा है ।

१० मई को, कलकत्ता के वोटानिकल गार्डेन्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट डॉ० के विस्वास कुछ वैज्ञानिकों के साथ दार्जीलिंग से तिब्बत के लिये रवाना हो गये । बताया गया कि वह वनस्पति जीवन का अध्ययन करने के लिये तिब्बत गये हैं ।

२० अगस्त को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार छपा

“ तिब्बत वालों ने भारत से ज्यादा हथियार खरीदना शुरू कर दिया है .

“ भारत ने निश्चित रूप से कूटनीतिक क्षेत्र में दलाई लामा की ओर से लड़ना शुरू कर दिया है । ’

२४ अगस्त को नयी दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस के सामने बोलते हुए पं० नेहरू ने बताया कि वार्शिंगटन, लन्दन, मास्को, और पीकिंग में तैनात भारतीय राजदूत इस बीच तिब्बत के सवाल पर अक्सर विचार-विनिमय करते रहे हैं ।

२ सितम्बर, १९५० को **मैनचेस्टर गार्ज़ियन** ने लिखा कि कलकत्ता में पढ़े हुए तिब्बती मिशन के नेता का कहना है कि यह “ स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करता है ” कि उसकी सरकार तिब्बत के दरों की रक्षा करेगी या नहीं ।

तिब्बती मिशन ने ६ सितम्बर तक भारत में चीनी प्रतिनिधियों से मिलने की कोई कोशिश नहीं की । ६ सितम्बर को वह कलकत्ता में चीनी प्रतिनिधि से मिला । उसने कहा कि मिशन को फौरन पीकिंग के लिये रवाना हो जाना चाहिये । परन्तु तिब्बती प्रतिनिधियों ने चीनी राजदूत का इन्तजार करना बेहतर समझा, यद्यपि उसने भी आकर पीकिंग जाने की ही सलाह दी ।

अक्टूबर को एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने-वाशिंगटन से समाचार भेजा कि अमरीका ने जो तिब्बत की मदद करने में सुस्ती दिखाई है, वह सिर्फ इसीलिये कि उसके खयाल में चीनियों के तिब्बत की ओर बढ़ने की अभी कोई सम्भावना नहीं है। उसने लिखा

“अमरीकी कर्मचारियों ने आज बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि चीनी कम्युनिस्टों की तिब्बत पर चढ़ाई करने की बातें कोरी-गीदड़-भभकियाँ हैं।

“आक्रमण असम्भव तो नहीं है, परन्तु तिब्बत के विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले महीनों में बरफीली हवाएँ और बर्फ से ढँके हुए पहाड़ी दर्रे कोई बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करने की आज्ञा न देगे।”

३० अक्टूबर, १९५० को नयी दिल्ली में यह खबर पक्की हो गयी कि तिब्बत ने भारत से मदद तो मांगी है, पर यह नहीं बताया है कि वह किस तरह की मदद चाहता है। जब भारत से कोई उत्तर नहीं गया तो ७ नवम्बर को तिब्बत के अधिकारियों ने सीधे सयुक्त राष्ट्र सभ से मदद मागी।

इस बीच, चीनी आज्ञाद फौज ने रौवर्ट वेन्स्टर फोर्ड नामक एक अग्नेज रेडियो चालक को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आरोप लगाय कि वह गुप्त फौजी खबरें जमा करता था और उसने एक बड़े चीनी अफसर को जो तिब्बत वालों से बातचीत करने गया था, जहर देकर मार डाला था फोर्ड ने यह स्वीकार किया कि उसका लौवेल टौमस से बराबर सम्पर्क था।

एक और समाचार के अनुसार

“अक्टूबर, १९५० में दलाई लामा की सरकार कुछ अमरीकी नागरिकों के इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार कर रही थी कि छोटे दलाई लामा को हवाई जहाज से भारत ले चला जाय”

२७ फरवरी, १९५१ को अमरीकी प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग उपनमिति के नामने सहायक विदेश मंत्री डीन रस्क की गवाही थी। उसके दौरान में प्रतिनिधि सभा के सदस्य टैनियल जे फ्लड और रस्क के बीच यह वार्ताबान हुई

“ मि फ्लड क्या आप तिब्बत की मौजूदा परिस्थिति पर कुछ कहना चाहेंगे—विशेष कर लाल चीनियों के उस हमले का ध्यान में रखते हुए जो अब ठण्डा पड़ गया है ?

“ मि रस्क तिब्बत से सूचना मगाना हमारे लिये बड़ी कठिन समस्या बन गया है। तिब्बत के लोग अमरीकियों का वहाँ जाना पसन्द नहीं करते और पिछले कई वर्षों में लावेल टौमस और उसके पुत्र को छोड़ कर और कोई अमरीकी वहाँ नहीं जा सका है। हमने कुछ लोगों को वहाँ भेजने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हुए। इसलिये हमें सूचना घूम फिर कर हिन्दुस्तानियों के जरिये या और इसी तरह के उपायों से—अप्रत्यक्ष ढंग से मिलती है ...।

“ मि. फ्लड भारत तो आपके ही क्षेत्र में है न ?

“ मि. रस्क अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, आगे की बातचीत लिखी नहीं जानी चाहिये।

“ (आगे की बातचीत लिखी नहीं गयी ।) ”

इससे मालूम हुआ कि एक तो लावेल टौमस कोरा पत्रकार नहीं था, बल्कि जासूस था, दूसरे, अमरीका के वैदेशिक विभाग को भारत सरकार से खबरें मिला करती थीं, तीसरे, मालूम होता है कि तिब्बत के मामले पर दोनों सरकारों के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था।

१४ मार्च, १९५१ को हिन्दू ने काठमाण्डू से आया हुआ यह समाचार प्रकाशित किया कि नेपाल और भारत का एक संयुक्त सैनिक मिशन कोलोनल काटोच के नेतृत्व में तिब्बत को रवाना हो गया है। पाठकों को याद होगा कि भारतीय सेना के इस अफसर काटोच को अमरीका में ट्रेनिंग मिली थी।

२७ मई, १९५१ को चीन और तिब्बत में समझौता हो गया जिसके अनुसार चीन के जनवादी राज्य के अन्दर तिब्बत को स्वायत्त शासन का हक दे दिया गया और इस प्रकार तिब्बत का सवाल हल हो गया। परन्तु अमरीकी हस्तक्षेप वहाँ जारी रहा।

१७ जुलाई, १९५१ को एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने लन्दन से समाचार भेजा

“ पश्चिमी कूटनीतिज्ञों ने आज बताया कि छोटे दलाई लामा ने अमरीका के पास सन्देश भेजा है कि वह लाल चीन के साथ अपने देश की नयी सधि को तोड़ देने की बात सोच रहा है। ”

कहा गया कि दलाई लामा का यह सन्देश किसी तीसरे आदमी के जरिये भारत में अमरीकी राजदूत लैय हेण्डरसन के पास पहुँचा है।

दलाई लामा का बड़ा भाई ताक त्सेर लामा ८ जुलाई, १९५१ को न्यू यॉर्क पहुँचा। २ अगस्त, १९५१ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार छपा कि वह एक मित्र से मिलने, “ पश्चिमी ज्ञान ” प्राप्त करने और स्वास्थ्य लाभ करने अमरीका आया है। लामा का सारा खर्चा “ स्वतंत्र एशिया कमिटी ” ने दिया। इस समिति के अध्यक्ष अमरीका के जासूस विभाग के पुराने अफसर जॉर्ज एच ग्रीन जूनियर थे।

तेरहवां अध्याय

भारत में अमरीकी जासूस

अमरीकी कूटनीति का वाया हाथ जासूसी है, तो दाहिना हाथ प्रचार । जासूसी से किसी देश की ताकत और कमजोरियों का पता चलता है और अपनी नीति निश्चय करने में सहायता मिलती है । प्रचार के द्वारा उस नीति को जनता के बीच मनवाया जाता है ।

जासूसी चीज ही ऐसी होती है कि उस पर रहस्य का पर्दा पड़ा रहता है । फिर भी इतनी सामग्री ज़रूर प्रकाशित हो चुकी है जिससे भारत में अमरीकी जासूसी के विस्तार तथा उसके उद्देश्यों का पता चल जाय ।

अमरीका की पहली वाज्जान्ता, गैर-फौजी गुप्तचर सस्था १९४१ में "आफिस ऑफ़ दि कोआरडिनेटर ऑफ़ इनफ़ोर्मेशन" (सूचना-केन्द्रीकरण कार्यालय) के नाम से वैदेशिक विभाग के मातहत कायम हुई । १९४२ में, अमरीका के लड़ाई में शामिल हो जाने के बाद, इसकी, जगह एक स्वतंत्र विभाग "आफिस ऑफ़ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज (ओ० एस० एस०)" के नाम से खोला गया । १९४५ में ओ० एस० एस० भंग कर दिया गया और उसकी शाखाएँ वैदेशिक एवं दूसरे विभागों के मातहत कर दी गयीं । सरकार के तमाम महकमों की जासूसी की कार्रवाइयों का एक केन्द्र से संचालन करने के लिये, १९४६ में एक केन्द्रीय जासूसी विभाग (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ग्रुप) स्थापित किया गया । १९४८ में इस सगठन के स्थान पर एक और भी बड़ी सस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेंसी (सी० आई० ए०) के नाम से बनायी गयी । यह एजेंसी सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति और राष्ट्रपति के मातहत काम करती थी । राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, जिसके मातहत इस एजेंसी की स्थापना हुई है, उसके नीचे लिखे उद्देश्य बताये गये हैं "विभिन्न सरकारी महकमों और सस्थाओं की गुप्तचर कार्रवाइयों का एक

केन्द्र से संचालन करना ” और “ ऐसे अन्य काम करना जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की राय में केन्द्रीय ढंग से ज्यादा अच्छी तरह किये जा सकते हैं । ”

येल विश्वाविद्यालय के प्रोफेसर शरमेन कैन्ट ने, जो पहले ओ० एस० एस० के एक बड़े अफसर थे, जासूस विभाग के अनेक बड़े अफसरों की मदद से एक किताब लिखी है “ स्ट्रैटेजिक इन्टेलिजेन्स फ़ौर अमरीकन वर्ल्ड पौलिसी ” (अमरीकी विश्व नीति के लिये सामरिक सूचना व्यवस्था) । उसमें कैन्ट ने जासूसी करने वाले सरकारी महकमों में ये नाम गिनाये हैं विदेश विभाग, रक्षा विभाग, व्यापार विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग, अर्थ विभाग, न्याय विभाग, चुंगी कमीशन, इत्यादि । दूसरे शब्दों में विदेशों से सम्बंध रखने वाला प्रत्येक सरकारी विभाग जासूसी करता है । कैन्ट का कहना है कि अक्सर सब से अच्छी जासूसी वह विभाग कर सकता है जिस पर सबसे कम इसका शक हो सकता है ।

सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेंसी (सी० आई० ए०), केन्द्रीय संचालक की हैसियत से इस बात का खयाल रखती है कि हरेक महकमा अपने पूरे क्षेत्र से लाभ उठाये । यदि कोई विभाग किसी विशेष प्रकार की सूचना में दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो एजेंसी उसे मजबूर कर सकती है कि अपने विभाग के लिये न सही, तो अन्य कामों के लिये उस प्रकार की सूचना भी वह एकत्रित करे । सी आई ए इसका भी खयाल रखती है कि विभिन्न विभागों में जासूसी का काम करने के लिये उचित ढंग के आदमी छाँट कर नियुक्त किये जाये ।

सी आई ए कई विदेशी जासूस विभागों के सहयोग से काम करती है और एक लेखक के शब्दों में “ अग्रेज जासूसों से भी ज्यादा हिम्मत और निडरता से काम लेती है । ” १९४९ तक इस एजेंसी का खर्च ८ करोड़ डालर हो गया था और उनके मातहत ६,६१५ पेजेवर जासूस काम करते थे ।

टच्यू० पार्क आर्मस्ट्रॉंग ने, जो वैदेशिक विभाग में जासूसी के कामों की देखरेख करते हैं, २६ फरवरी, १९५१ को अमरीकी प्रतिनिधि सभा की एक उपसमिति के सामने बयान देते हुए ऐलान किया था कि अमरीका का जासूस विभाग बहुत ही कार्य-शुगल है और दूसरे देशों के गुप्तचर विभागों से श्रेष्ठ है । उपसमिति के एक सदस्य ने पूछा कि अमरीका

के जासूस विभाग को सबसे अधिक गुप्त सूचना कहा से मिलती है।
मि. आर्मस्ट्रॉंग ने उसका यह उत्तर दिया

“ अधिकतर गुप्त सूचनाएँ विदेशों में अपने दूतों और प्रतिनिधियों से
हमें मिलती हैं ।

“ इसके अतिरिक्त, फौजी सूचना व्यवस्था के द्वारा, और मित्र
सरकारों से सूचना का विनिमय करके...भी हमें सूचना मिलती है ।”

राजदूतों को अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिये बहुत बड़ी-बड़ी रकमों दी
जाती हैं। समझा जाता है कि ये रकमों अनिधि सत्कार और दावतों वगैरा के
लिये होती हैं और उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। वैदेशिक विभाग ने
प्रतिनिधि सभा की उपसमिति को बताया कि इन रकमों को प्रायः जासूसी पर
पर खर्च किया जाता है। मिसाल के लिये, अवीनीनिया की राजधानी अदिस
अबाबा में तैनात अमरीकी राजदूत की इस रिपोर्ट को उपसमिति के सामने
पेश किया गया

“ दूतावास में होनेवाले समारोहों के अवसर पर अवीनीनिया से तथा
अन्य सूत्रों से बहुत सी बहुमूल्य जानकारी बिना किसी कष्ट के प्राप्त की
गयी है। दूतावासों में दावतों के अवसर पर अवीनीनिया के अफसरों,
व्यापारियों, और कूटनीतिज्ञों के साथ मेरी और दूतावास के सलाहकार
की अनेक बार बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है।

“ मैंने पता लगाया है कि मेरी रिपोर्टों के लिए जितनी जानकारी की
बहुरत पड़ती है, उसका ठीक आधा भाग उन लोगों से प्राप्त हो जाता
है जिनसे मेरी मुलाकात इन दावतों में होती है ।

“ मेरे घर पर (या दूसरे स्थानों पर) होने वाली दावतों या समारोहों
में से शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसका लाभ मैंने राजनीतिक और
आर्थिक जानकारी प्राप्त करने के लिए न उठाया हो । बहुधा मेरा यह
अनुभव रहा है कि आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा,
और वास्तव में एकमात्र साधन, यही है कि उस समस्या के बारे में
सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को दोपहर या शाम के खाने
के लिये बुला लें ।”

आर्मेस्ट्रॉंग ने यह भी बताया कि गुप्तचर विभाग केवल उन्हीं लोगों का प्रयोग नहीं करता जिनको जासूसी के काम का अभ्यास होता है, बल्कि वह वैज्ञानिकों और दूसरे प्रकार के विशेषज्ञों का भी इस्तेमाल करता है

“ हम इस काम के लिए लोगों को दो तरह से चुनते हैं । एक तो हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो या तो किसी खास विषय के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं—अर्थात् जिनको किसी देश या क्षेत्र के बारे में, विशेष रूप से, उसके राजनीतिक इतिहास, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संस्कृति और मनोवृत्ति के बारे में विस्तृत और गहरा ज्ञान होता है—या जिन्हें किसी खास व्यवसाय या पेशे की ट्रेनिंग मिली हुई होती है, जैसे वे लोग जो इस्पात के उद्योग के, या यातायात के अथवा पेट्रोल उद्योग के विशेषज्ञ हैं ..दूसरे, वे लोग चुने जाते हैं जो दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत कुशल होते हैं और दूसरों की सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना और सम्पर्क बढ़ाना जानते हैं और जिन्हें दूसरों को खुश रखने की कला मालूम है । ”

शरमेन कैन्ट ने अपनी पुस्तक में बताया है कि अमरीका के गुप्तचर विभाग का उद्देश्य दूसरे देशों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करना है । अमरीका की गुप्तचर व्यवस्था दूसरे देशों की सैनिक शक्ति में ही नहीं, बल्कि उनकी अर्थ-व्यवस्था, उनकी जन संख्या, उनके सगठनों, उनकी नीति तथा वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों में भी दिलचस्पी रखती है, और यह सारी सूचना वह केवल उन देशों के बारे में ही नहीं जमा नहीं करती जिनके शत्रु होने का अन्देशा होता है, बल्कि उन देशों के बारे में भी जमा करती है जो तटस्थ या मित्र देश हैं ।

कैन्ट ने भी गुप्त सूचना जमा करनेवालों की सूची में सबसे पहला नाम वैदेशिक विभाग के अफ़मरों का रखा है । इसके बाद उसकी सूची में “सर्वजनिक जीवन में प्रमुख अन्य लोगों का, जैसे विशेष कमीशनो के सदस्यों, अन्तरराष्ट्रीय काफ़ेन्सों में अमरीकी प्रतिनिधियों, और विदेशों का भ्रमण करने वाले काफ़ेन्स के सदस्यों का ” तथा “ लेखकों, पत्रकारों और जगली जानवरों के निहारियों का ” नाम आता है । लेम्बर्क ने हम सम्बंध में ऊँची शिक्षा और अनुमान की सन्धाओं का बटन ही महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि

“महत्वपूर्ण जानकारी जमा करने में ये सर्राए हमारे लिये सबसे बहुमूल्य साधनों का काम देती हैं।”

भारत में अमरीकी जासूसों का जाल

अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था का साधारण वर्णन ऊपर पढ़ने और भारत का सामरिक महत्व ध्यान में रखने पर यह बात तो अपने आप समझ में आ जानी चाहिये कि भारत में अवश्य ही अमरीकी जासूसों का बड़ा भारी जाल बिछा होगा।

१५ दिसम्बर, १९४८ से १५ दिसम्बर, १९५१ तक के दौरान में अमरीकी के राजदूतावास और उप-दूतावासों के कर्मचारियों की सख्या हिन्दुस्तान में ५६ से बढ़ कर १०२ और पाकिस्तान में २२ से बढ़ कर ४६ हो गयी। सन् १९५१ के पहले ६ महीनों में अमरीकी सरकार के सूचना तथा शिक्षा सम्बंधी विनिमय कार्यक्रम के मातहत हिन्दुस्तान में ४९ तथा पाकिस्तान में २० अमरीकी कर्मचारी नियुक्त थे और हिन्दुस्तान में ३९७ और पाकिस्तान में १०३ स्थानीय नागरिक नौकर थे। इसके अलावा पारम्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के आधीन अभी हाल में यहा अनेक “टेकनिकल (तकनीकी)” विशेषज्ञ भी भेजे गये हैं। २० जनवरी, १९५२ को भारतीय समाचार पत्रों ने ४३ ऐसे विशेषज्ञों और अफसरों के नामों की एक सूची छपी थी।

इन अफसरों के अलावा हजारों ऐसे अमरीकी हैं जो स्थायी रूप से हिन्दुस्तान में रहते हैं या यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। २४ फरवरी, १९५० को उप-प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने पार्लामेंट में बताया था कि भारत में ३,४९७ अमरीकी रह रहे हैं। सितम्बर में उनकी सख्या बढ़ कर ४,१५७ हो गयी। भारत आनेवाले अमरीकी यात्रियों की सख्या और भी तेजी से बढ़ी। १३ दिसम्बर, १९४९ को सहायक विदेश मंत्री जॉर्ज मर्फी ने बताया कि १९४९ के पहले दस महीनों में २,००० अमरीकी नागरिकों को भारत आने के लिये अनुमति-पत्र (वीसा) दिये गये थे। १९५० में भारत ने ३,८९२ अमरीकी यात्रियों को वीसा दिये। पूरे योरप से आने वाले यात्रियों की सख्या इससे कम थी।

परन्तु सख्या से अधिक महत्वपूर्ण इन अमरीकियों को मिले हुए विशेष अधिकार और विशेष सुविधाएँ हैं।

अमरीकी राजदूत के साथ लगे हुए गर्मनारी गानारण टंग के राजनीतिक प्रतिनिधियों से चित्तुल भिन्न है। अमरीकी सहायना पाने को हमारी सरकार इतनी चैनन नी कि उगने अमरीकी प्रतिनिधियों को ऐसे अधिकार देना स्वीकार कर लिया जिन्हे गानारणनया कोउ सरकार न देती। अमरीकी राजदूत के तरह-तरह के महायक होने ए। कोउ गैनिक महायक है तो कोइ मजदूर सहायक और कोइ लुपि महायक, कोउ सूचना अफगर है तो कोइ भम सूचना अफगर कोइ सांस्कृतिक प्रतिनिधि है तो कोउ समाज सुधार प्रतिनिधि। ये लोग वैदेशिक विभाग के अतिरिक्त भारत सरकार के दूसरे विभागों और गैर-सरकारी व्यक्तियों और सगठनों से भी बराबर सम्पर्क ररते हैं।

राजदूत और उनके महायकों के सारे अधिकार सूचना अफगरों और पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के मातहत आये हुए विशेषज्ञों को भी मिले हुए हैं। उन पर हमारे देश के कानून लागू नहीं होते उन पर हमारी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके जरिये राजधानी तथा मुख्य बन्दरगाहों से लेकर प्रदेशों तक अमरीका की ओर से सब कुछ सुनने वालों, सब कुछ नोट करने वालों का जाल हमारे देश में फैला हुआ है। ये लोग प्रादेशिक सरकारों के अधिकारियों से मिलते हैं, हजारों पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और व्यापारियों से दोस्ती ररते हैं। पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के मातहत आये हुए लोग अभी पचास कम्युनिटी डेवलपमेण्ट प्रोजेक्टों (सामुदायिक विकास योजनाओं) की देखरेख कर रहे हैं जिनके नीचे कुल १ करोड़ की आवादी आ जाती है। इसकी सख्या आगे और बढ़ने ही वाली है।

भारत में स्थायी रूप से रहने वाले अमरीकियों में २,००० पादरी हैं जिनका लगभग दस लाख ईसाइयों और करोड़ों गैर ईसाइयों से सम्पर्क है। फिर व्यापारी हैं जिनके सभी बड़े शहरों में दफ्तर और छोटे शहरों में शाखाएँ हैं। देश का एक भी ऐसा कोना न मिलेगा जहाँ अमरीकी पेट्रोल कम्पनियों के डिपो न हों। पेट्रोल कम्पनियों न सिर्फ हजारों हिन्दुस्तानियों को नौकर रखती हैं, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और अखबारों पर काफी असर डालती हैं।

यहाँ जम कर रहने वालों के अलावा कुछ समय के लिये आने वालों की भी सख्या काफी बड़ी होती है। उसमें कुछ लोग पत्रकार की हैसियत से

आते हैं तो कुछ विद्यार्थी के रूप में। और वे देश भर का चक्कर लगाते घूमते हैं। सीमा प्रदेश के नाजुक इलाक़े भी उनकी कृपा दृष्टि से नहीं बच पाते।

इससे जाहिर है कि हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में कोई महत्वपूर्ण बात ऐसी नहीं हो सकती जिसकी सूचना किसी न किसी अमरीकी को न मिल जाय। अमरीकी जासूस विभाग के बड़े से बड़े अफसर खुद जितना मान चुके हैं, उसके बाद कोई अमरीकी इस सन्देह से परे नहीं माना जा सकता कि वह हमारे मुल्क में जासूसी करने नहीं आया है।

३० अक्टूबर, १९५१ को फुलब्राइट योजना (विद्यार्थियों की अदला-बदली की योजना) के मातहत आया हुआ एक विद्यार्थी, फ़िलिप हौकिंस हिमालय की तराई में दूर मुक्तेश्वर नामक स्थान पर हानिकारक कीटाणुओं का अध्ययन करते हुए मर गया। प्रश्न यह है कि क्या हौकिंस केवल कीबों-मकोबों में ही दिलचस्पी रखता था, या सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालय की तराई में किसी और खोजबीन में लगा हुआ था। अमरीकी राजदूतावास का कर्मचारी रौबर्ट हैन्क्रौक जनवरी १९५२ में, अमृतसर के नज़दीक एक मोटर दुर्घटना में मारा गया। क्या बजह थी कि वह मोटर पर नयी दिल्ली से पाकिस्तान के लिये रवाना हुआ था, जब कि वह यह अच्छी तरह जानता था कि सड़क के रास्ते पर हजार तरह के खतरे हैं और दोनों तरफ की फौजें सरहद पर डटी हुई हैं। परन्तु अमरीका के जासूसों के वारे में जानने के लिये कोरी अटकल-बाज़ी की ही ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ठोस सबूत भी मौजूद हैं।

युद्ध के दिनों के कारनामे

भारत में अमरीका की ओर से जासूसी की नींव युद्ध के दौरान में डाल दी गयी थी। उस जमाने के वारे में, ओ एस एस के एक गुप्तनाम अफसर ने एटलान्टिक मंथली नामक पत्रिका में अप्रैल १९४८ में लिखा था

“ . सुदूर पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया में, अमरीका ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो पहले लगभग शुद्ध ब्रिटिश और डच इलाका था। इसका परिणाम बहुत शीघ्र और जोरों के साथ दिखायी दिया। इसके साथ साथ, वहाँ पूर्णतः स्वतंत्र अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था की भी नींव पड़ गयी। ”

कोलोनल लुई जौन्सन, जो १९१० में अमरीकी नवनीर्द्ध मिशन के प्रमुख की हैसियत में भारत आये थे और जो बाद में यहाँ राष्ट्रपति रूजवेल्ट के व्यक्तिगत दूत नियुक्त किये गये, अमरीकी गुप्तचर विभाग के माथ पत्रिष्ठ मन्वध रखते थे। १९५१ में उन्होंने यह बात गुलेआम स्वीकार की थी (इसी पुस्तक का द्गरा अध्याय देखिये)। परन्तु आश्चर्य की बात है कि किमी हिन्दुस्तानी अज्ञात ने उनका चयान नहीं छापा।

कोलोनल जौन्सन के बाद भारत में मि विलियम फिलिप्स, अमरीकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। वह इसके पहले लन्दन में ओ० एस० के प्रमुख थे।

भारत में अमरीकी फौज के आने के साथ साथ फौजी गुप्तचर विभाग के अफसर और ओ० एस० एस० के कर्मचारी भी चञ्ची सरया में भारत आये। १९४१ की गरमियों में अमरीका की केन्द्रीय फौजी कमान के फौजी गुप्तचर विभाग ने अपने दो अफसरों, लेफ्टिनेट कर्नल डब्ल्यू० ड्रेपर और लेफ्टिनेट वी० एच० सूत्रो को ब्रिटिश फौजों के साथ दर्शकों की हैसियत से काम करने के लिये यहाँ भेजा था। ओ० एस० एस० का दक्षिण-पूर्वी एशियाई कार्यालय लका में कैडी नामक स्थान पर था और एक गुप्त ट्रेनिंग कैम्प त्रिकोमाली से १५ मील की दूरी पर था। ओ० एस० एस० का कलकत्ता दफतर टालीगंज के ओ-हाउस में था। ओ० एस० एस० का एक दस्ता और १५ ट्रेनिंग कैम्प आसाम के जगलों में फैला हुआ था। बड़े अफसर सब अमरीकी थे, पर साथ ही अनेक हिन्दुस्तानी भी इसमें भरती किये गये थे।

अमरीका के वैदेशिक विभाग ने गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों की एक सूची प्रकाशित की है। उसमें १६ रिपोर्टें ऐसी हैं जिनका सम्बंध भारत अथवा दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों से था। इन रिपोर्टों को ओ० एस० एस० के “ खोज और विश्लेषण ” विभाग ने तैयार किया था। उनमें भारत के विभिन्न इलाकों की भी रिपोर्टें थीं और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की भी। सूची के कोड (साकेतिक) नम्बरों से पता चलता है कि ऐसी क़रीब सौ रिपोर्ट और हज़ारों मेमोरेण्डम तैयार किये गये थे। जाहिर है कि इन दस्तावेजों के लिये काफी जानकारी भारत में जमा की गयी होगी।

युद्धोत्तर कालीन कार्रवाइयाँ : राजदूतों के कारनामे

आर्मस्ट्रॉंग और वैंट ने अपनी किताब में जैसा बताया है कि सबसे अच्छी जासूसी राजदूत लोग और उनके सहायक करते हैं। नयी दिल्ली के अमरीकी राजदूतावास का एक कर्मचारी, कौनरेड वेक्कर पहले गुप्तचर विभाग में काम करता था। डौरोथी स्पेंसर नाम की एक महिला कर्मचारी पहले ओ० एस० एस० के खोज और विश्लेषण विभाग में काम कर चुकी है। करॉंची मे अमरीकी राजदूतावास का तीसरा सेक्रेटरी डेविड टेलर इनाइडर १९४९ में अमरीकी हवाई फौज का गुप्तचर था।

भारत और पाकिस्तान मे अमरीकी राजदूतावासों के कर्मचारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लाजिमी है कि इसके साथ उनकी गुप्त कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही होंगी। १९५२ में कुछ नये पदों पर लोगों को नियुक्त करने के लिये, वैदेशिक विभाग ने अमरीकी कांग्रेस के सामने यह कारण पेश किया था

| स्थान | पद | उद्देश्य |
|------------|-----------------------------|---|
| नयी दिल्ली | सहायक आर्थिक अफसर | भारतीय अर्थ व्यवस्था के उन बहुत पेचीदा और विस्तृत परिवर्तनों पर रिपोर्ट तैयार करने में मदद देना जिनमे अमरीका की दिलचस्पी है। |
| | राजनीतिक स्टेनोग्राफर | राजनीतिक विभाग मे रिपोर्ट तैयार करने का काम बढ़ गया है और स्टेनोग्राफर की आवश्यकता है। |
| करांची | मजदूर रिपोर्टिंग अफसर | आजकल इस पद पर कोई आदमी नियुक्त नहीं है। दूतावास की और सरकार के मजदूर विभाग की राय है कि इस नवजात देश मे मजदूरों के सम्बन्ध मे जो घटनाएँ हों, उनकी रिपोर्टें तैयार करने के लिये एक अलग अफसर होना चाहिये। |

| स्थान | पद | उद्देश्य |
|--------|---------------------------|---|
| बम्बई | राजनीतिक- स्टेनोग्राफर | राजनीतिक और आर्थिक विभाग का गुप्त काम बढ़ गया है जिसके कारण एक कर्मचारी और नियुक्त करना आवश्यक हो गया है। |
| मद्रास | राजनीतिक स्टेनोग्राफर | गुप्त सूचनाओं के लिये आवश्यक है। अभी यहाँ कोई अमरीकी स्टेनोग्राफर नहीं है। |
| ढाका | कोड क्लर्क | गुप्त पत्र-व्यवहार और कोड का काम बहुत बढ़ गया है, उसके लिये एक अनुभवी आदमी चाहिये। |

यहो इतना और जोड़ देना उचित है कि बम्बई, मद्रास और ढाका में अमरीकी राजदूतों के नहीं, कौंसलों के दफ्तर हैं, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय कानून के मातहत राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिये।

अमरीकी पत्रकार भी जासूसी करते हैं

अमरीकी पत्रकारों का भी गुप्तचर विभाग से घनिष्ठ सम्बन्ध मालूम पड़ता है। **न्यू यॉर्क टाइम्स** के सम्वाददाता, रौबर्ट टूमबल के भेजे हुए समाचारों से इस सम्बन्ध पर कुछ प्रकाश पड़ता है। टूमबल भारत में चार बरस से है और इस महाद्वीप का कोना-कोना छान चुका है। ८ नवम्बर, १९५० को उसने लिखा था

“... अन्दर की जानकारी रखने वाले सूत्रों से इस सम्वाददाता को आज पता चला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आशा है कि पीपिंग (पीकिंग) सरकार का अगला कदम नेपाल में उठेगा।”

९ नवम्बर, १९५० को उसने “ एशिया में सीमा विस्तार के लिये सोवियत की समर नीति ” विषय पर एक लेखमाला लिखी जो २०, २३, और २४ नवम्बर के **न्यू यॉर्क टाइम्स** के अकों में छपी। पहले लेख में उसने बताया कि जिस जानकारी के आधार पर वह लेख लिख रहा है, वह उसने “ खुफिया रिपोर्टों से ” प्राप्त की है, जिन्हें “ बहुत असाधारण ढंग के गुप्तचर कार्य के द्वारा, जिसकी तफ़सील नहीं बतायी जा सकती,

प्राप्त किया गया था।” टूम्वल ने बताया कि उसको यह सूचना पश्चिमी तिब्बत की यात्रा करके लौटने वाले “योग्य खोजियों” से मिली थी। तीमरे लेख में उसने लिखा कि उसके लेख की सामग्री “एक अनोखी खोज” के द्वारा प्राप्त हुई है और “पश्चिमी तिब्बत और हिमालय के अन्दर घुस कर” निकाली गयी है। अन्त में, उसने एक विशेष कम्युनिस्ट-विरोधी गुप्तचर जाँच का जिक्र किया, जो भारत में की गयी थी।

२६ नवम्बर को, उसने दरभंगा (बिहार) से समाचार भेजा

“नेपाली कांग्रेस पर अधिकतर समाजवादियों का प्रभुत्व है। परन्तु उसके अल्पायु विद्रोह ने वास्तव में कम्युनिस्टों के सुनियोजित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। नेपाली सीमा के निकट इस शहर में यह समाचार हमें गुप्त सूत्रों से मिला है।”

हम यहाँ इस बात पर विचार करना नहीं चाहते कि टूम्वल की कितनी कहानियाँ सच्ची हैं और कितनी कोरी गप्पें हैं। हम यहाँ इस बात की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि टूम्वल ने खुद स्वीकार किया है कि उसका भारतीय और अमरीकी जासूसों और भारतीय तथा नेपाली राजनीतिक पार्टियों के अन्दर घुसे हुए गुप्त अमरीकी एजेंटों से सम्बन्ध था।

विश्वविद्यालय, खोज संस्थाएँ, आदि

वैदेशिक विभाग के गुप्तचर विभाग के विशेष अफसर, डब्ल्यू० पार्क आर्मस्ट्रॉंग ने २६ फरवरी, १९५१ को प्रतिनिधि सभा की एक उपसमिति के सामने बयान देते हुए कहा था

“हमने यहाँ और विदेशों के विश्वविद्यालयों, वर्जीफे देने वाली संस्थाओं और खोज करने वाली संस्थाओं से बड़े विम्बृत पैमाने पर सहयोग करने की व्यवस्था कर ली है।”

रौकफेलर फाउण्डेशन नामक वर्जीफे देने वाली संस्था कई वर्षों से भारत में काम कर रही है और १९४९ से तो उमशा सुन्दर पूर्वी कार्यालय भी शराई से बगलौर आ गया है। ओर पिछले वर्षों से फोटे फाउण्डेशन भी भारतीय रंगमंच पर उतर आयी है।

१९५१ के अन्त तक, फोर्ड फाउण्डेशन भारत और पाकिस्तान को ४० लाख डालर के वजीफे दे चुकी थी। २८ मार्च, १९५२ को उसने एशिया तथा मध्य पूर्व के बारे में खोज करने के लिये १०० अमरीकियों को वजीफे देने का ऐलान किया।

फोर्ड फाउण्डेशन के अध्यक्ष पॉल हॉक्रमेन हैं जो पहले मार्शल योजना के सचालक थे। उनके सहायक सचालक मिन्टन काट्ज़ हैं जो पहले योरप में मार्शल योजना के दूत का काम करते थे और जो लड़ाई के दिनों में ओ० एस० एस० की ओर से जासूसी कर चुके हैं। फाउण्डेशन ने विदेशों में ट्रेनिंग देने और खोज करने के काम का सचालन करने के लिये एक बोर्ड बना रखा है। यही बोर्ड वजीफे देता है। इसके अध्यक्ष गॉर्डन ग्रे हैं, जो पहले अमरीकी सरकार के युद्ध मंत्री थे।

अमरीका की राष्ट्रीय भूगोल समिति एक गैर-सरकारी खोज सस्था है। परन्तु, उसका खुद का दावा है कि सरकार के रक्षा विभाग से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। समिति के युद्ध कालीन कार्यों की रिपोर्ट देते हुए, उसके अध्यक्ष ने हाल में ही कहा था

“आपकी समिति ने अमरीका के युद्ध उद्योग की सबसे बड़ी सेवा यह की है कि उसने भू-मंडल के बड़े भागों के बहुत ही सही नक्शे तैयार करके दिये।

“अमरीकी फ्रौज के इंजीनियर विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेण्ट जनरल यूजीन रेबोल्ड ने, जो फ्रौज के लिये नक्शे बनाने के काम का सचालन करते थे.. लिखा है ‘नक्शे के लिये हम राष्ट्रीय भूगोल समिति पर इतना अधिक निर्भर करते हैं कि वास्तव में अब हम समिति को अपने फ्रौजी नक्शे बनाने वाले विभाग का ही एक अंग समझते हैं।’

“युद्ध विभाग ने लड़ाई के दौरान में राष्ट्रीय भूगोल समिति के दस लाख से अधिक नक्शे इस्तेमाल किये। अमरीकी समुद्री बेड़े ने भी कई हजार नक्शे उससे लिये।

“युद्ध के दौरान में आपकी समिति के नक्शे बनाने वालों ने युद्ध विभाग और समुद्री विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम किया। ..”

अभी हाल तक इस समिति ने भारत के सम्बंध मे अधिक काम नहीं किया था और उसकी पत्रिका में भारत के बारे में जो लेख प्रकाशित हुआ करते थे, वे प्रायः मन्दिरों की बनावट और महाराजाओं की शान-शौकत के बारे में होते थे। परन्तु अब उसने स्थायी रूप से अपना एक फोटोग्राफर भारत मे नियुक्त कर दिया है और कुछ महत्वपूर्ण इलाकों की जाँच करायी है। समिति की पत्रिका, **नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन** के अकों से पता चलता है कि वह कश्मीर, नेपाल, वखान, सिक्किम और आसाम में खोज करा चुकी है।

अगस्त १९४६ में समिति के फोटोग्राफर वेत्ज़ेल ने कश्मीर की छान-बीन की। परन्तु उसने अपना अनुभव १९४८ तक प्रकाशित नहीं किया, जब कि कश्मीर में लड़ाई चल रही थी। उस वक्त भी उसने केवल कश्मीर घाटी का वर्णन छपा और सरहदी इलाकों के बारे में चुप्पी साधे रहा। मई १९५१ में इस पत्रिका में एक भारतीय फिल्म निर्माता की पत्नी, श्रीमती एनाधी भवनानी का एक लेख उनकी श्रीनगर से लेह और हिमिस तक की यात्रा के बारे में छपा। लेह लद्दाख की राजधानी है और हिमिस तिब्बत की सरहद पर पडता है। वेत्ज़ेल ने इस लेख के साथ छपने के लिये इन इलाकों के फोटो दिये।

वेत्ज़ेल भारत में स्थायी रूप से तैनात था। उसके अतिरिक्त समिति समय-समय पर भारत के सैनिक महत्व के स्थानों की खोज-बीन करने के लिये विशेष प्रतिनिधि भेजती रहती थी। उसकी पत्रिका के नवम्बर १९५० के अंक में जॉ शोर और फ्रैंक शोर की वखान यात्रा का वर्णन छपा। वखान पाकिस्तान के कब्जे में एक बहुत सकरी सी ज़मीन की पट्टी है जो सोवियत संघ और कश्मीर के उस हिस्से के बीच पडती है जो आजकल पाकिस्तान के कब्जे में है। ये दोनों लेखक तुर्की और ईरान के ऐसे इलाकों को पार करके काबुल पहुँचे थे जिन पर आजकल फौजी नियंत्रण है और जहाँ माधारणतः किसी को घुसने की इजाज़त नहीं मिलती। इसी प्रकार अफ़गानिस्तान की सरकार, आम तौर पर, किसी यात्री को वखान जाने की अनुमति नहीं देती, परन्तु इन लोगों को उसने इजाज़त भी दे दी और दिकाजत के लिये फौजी सिपाहियों का एक दस्ता और एक दुभापिया भी साथ में कर दिया।

ये दोनों लेखक एक बार फिर १९५२ में पाकिस्तान आये और पेशावर तथा रावलपिंडी गये। डॉन ने १५ मार्च, १९५२ को लिखा

“आशा की जाती है कि वे लगभग एक सप्ताह तक रावलपिंडी में ठहरेंगे। गिलगिट और हुजा जाने का भी उनका इरादा है।”

मार्च १९५२ में, नेशनल ज्योग्रैफिक मैगज़ीन ने एफ० किंगडन-वार्ड नामक एक अग्रज का एक लेख प्रकाशित किया। इन महाशय ने १९५० के शुरु में, बीज जमा करने के बढ़ाने आमाम-तिब्बत सरहद का दौरा किया था। उसी साल अगस्त में आमाम में भूचाल आ गया। परन्तु, उस समय तक किंगडन वार्ड सदिया के इर्द-गिर्द के इलाके का दौरा कर चुका था और पूर्वी तिब्बत की लुहित घाटी के ऊपरी भाग में पहुँच गया था। चीनी आज़ाद फौज के आने के पहले ही वह उस इलाके में तैनात भारतीय फौज की मदद से भाग गया।

नेपाल में भी अमरीकी यात्री इसी तरह के कई दौरे कर चुके हैं।

१९४६ में, अमरीका की एक सरकारी सस्था, स्मिथसोनियन इंस्टीच्युशन, और येल विश्वविद्यालय की ओर से यात्रियों का एक दल पक्षी जमा करने के लिये भारत और नेपाल आया। उसने यहाँ छ महीने बिताये। इस दल के नेता सिडनी रिपले थे।

इन्हीं दो सस्थाओं और राष्ट्रीय भूगोल समिति की ओर से यात्रियों का एक और दल पशु-पक्षी एकत्र करने के लिये १९४८-४९ में फिर नेपाल आया। इसके नेता भी डॉ० रिपले थे। वेंजेल दल के साथ था। कहा जाता था कि ये लोग एक ऐसी विचित्र चिड़िया की तलाश में थे जो ६० वर्ष से किसी वैज्ञानिक को नहीं दिखाई दी थी। २० जनवरी, १९४९ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने समाचार छपा कि रिपले ने नेपाल के प्रधान मंत्री से न्यू यॉर्क के चित्रकार चार्ल्स वास्करवील को निमंत्रण दिलाया है कि वह नेपाल आकर वहाँ के राजा, प्रधान मंत्री और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाये।

यदि डॉ० रिपले के बारे में कुछ मालूम हो जाय तो यात्रियों के इन दलों की असलियत का भी पता लग जाय।

रिपले साहब ने १९४२ में हरवर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त की। १९४२ से १९४५ तक उन्होंने दक्षिण-पूर्वी एशिया में ओ०

एस० एस० के जासूसी के डायरेक्टर के पद पर काम किया। १९४६ में वह येल के पीवही अजायबघर के सहायक व्यवस्थापक नियुक्त किये गये और तुरन्त नेपाल की यात्रा को रवाना हो गये। उनके मित्र वास्करवील महोदय हवाई फौज में लेफ्टिनेंट-कर्नल और सरकारी चित्रकार थे।

१९४९-५० में, गिफागो के प्राकृतिक अजायबघर ने मध्य नेपाल की खोज करने के लिये एक दल भेजा। फतेहगढ के अमरीकी मिशन अस्पताल के डाक्टर कार्ल ई. टेलर उसके साथ गये। लौट कर उन्होंने अमरीकी भूगोल समिति के पत्र **ज्योग्रैफिकल रिव्यू** में एक लेख लिखा और उसमें बताया कि उन्होंने काली-गडक और पोखरा घाटियों का दौरा किया था।

युद्ध के पहले तक किसी विदेशी का नेपाल में दिखाई देना बड़ी अजीब और अनशुनी सी बात समझी जाती थी। पर १९४९ तक ३०० विदेशी काठमाण्डू हो आये और उनमें से ५० तो अन्दर तक घूम आये। १९४९ के बाद से तो मानो वहाँ अमरीकी कूटनीतिज्ञों, पत्रकारों और वैज्ञानिकों का ताता लग गया है।

यहाँ न्यू यॉर्क के इंस्टीच्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशन्स पर भी विचार कर लेना चाहिये। इसका खर्चा रीकफेलर तथा कारनेगी फाउण्डेशनों के दान से चलता है। साथ ही, सुदूर पूर्व के साथ व्यापार करने वाली कुछ कम्पनियाँ भी उसे रुपया देती हैं। इंस्टीच्यूट की अमरीकी शाखा सरकार के आदेश पर काम करती है। हाल में च्यांग काई-शेक के अमरीकी समर्थकों के गुट ने इस इंस्टीच्यूट पर तथा उसकी अमरीकी शाखा पर च्यांग काई-जेक की आलोचना करने के लिये बड़े सख्त हमले किये। इंस्टीच्यूट के मंत्रियों ने कहा कि अमरीकी खुफिया विभाग (फ्रेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन) उसके कागज-पत्र की जाँच कर ले। बाद में, अमरीकी काँग्रेस की समितियों ने इन कागजों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार, भारतीय तथा अन्य देशों की शाखाओं के गुप्त पत्र, और इंस्टीच्यूट की रिपोर्टें सब अमरीकी सरकार के पाम पहुँच गयीं।

इंस्टीच्यूट के आलोचकों को सकार्डें देते हुए, उसके भूतपूर्व प्रवान मंत्री एडवर्ड कार्टर ने ३० मार्च, १९५० को कहा कि सुदूर पूर्व, योरप तथा मोवियत सब का १९३६ में, दौरा करने के बाद

“ हम लोगों ने (कार्टर तथा ओवेन लैटिमूर ने) मॉन्ट्रो में अमरीकी राजदूतावास के कर्मचारियों को उन देशों की एक रिपोर्ट दे दी थी

जिनका हमने दौरा किया था। अमरीका लौटने पर मैंने वार्गिंग्टन में वैदेशिक विभाग के अफसरों से भी अपने दौरे के बारे में तफसील के साथ बातचीत की थी।”

अर्थात्, उच्च शिक्षा, खोज और अनुसंधान से सम्बन्ध रखने वाली सस्थाओं के नेता, विदेशी विद्वानों के साथ निजी बातचीत करके जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे वे सीधे अमरीका के सरकारी महकमों को पहुँचा देते हैं। ये लोग अक्सर भारत और पाकिस्तान आते हैं, यहाँ तरह-तरह के सम्मेलन करते हैं—जैसे, १९४९ का दिल्ली में भारत-अमरीका सम्मेलन और १९५० का लखनऊ में प्रशान्त सम्बन्ध सम्मेलन—जिनमें देश के प्रभावशाली व्यक्ति एकत्रित होते हैं। इस्टीच्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशन्स के प्रतिनिधि विदेशों में रिसर्च या खोज करने जाते हैं। जे. ए. करन नामक एक साहब भारत में डेढ़ साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में खोज करते रहे। आजकल इस सस्था की ओर से श्री मीनू मसानी के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के बारे में खोज की जा रही है।

अमरीकी विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों ने ससार के कुछ विशेष क्षेत्र छाँट लिये हैं जिनके बारे में वे खोज करते हैं। अमरीका की समाज विज्ञान खोज परिषद ने कहा है कि इस व्यवस्था का “सरकार के लिये भारी महत्व है।”

भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में इस प्रकार की खोज कौर्नेल विश्व-विद्यालय में, डॉक्टर लौरिस्टन शार्प के नेतृत्व में होती है, जो पहले वैदेशिक विभाग के कर्मचारी थे। उनके विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में ‘चौथे सूत्र’ के कार्यक्रम के अन्तर्गत चलनेवाली नमूने की योजनाओं में काम करते हैं। न्यूजवीक नामक पत्र ने उनके बारे में लिखा था

“स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करते हुए, कौर्नेल विश्व-विद्यालय के ये विद्यार्थी उत्तम वीज, सिंचाई, खाद, खेती के औजार और दूसरी ऐसी चीजों के बारे में सलाह देते हैं।

“परन्तु इस योजना से अन्त में जो सबसे बड़ा लाभ होनेवाला है, वह यह है कि उसके द्वारा अनेक ऐसे अमरीकी विद्वान और विशेषज्ञ तैयार हो जायेंगे जो भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखेंगे।”

अमरीका के अन्दर भारत के वारे में खोज कराने और ट्रेनिंग देने वाली सबसे प्रसिद्ध सस्था ' साउथ एशिया रीजनल स्टडीज़ इंस्टीच्यूट ' है जिसे पेन्सिलवेनिया के विश्वविद्यालय ने १९४७ में कायम किया था और जिसे न्यू यॉर्क का कार्नेगी कापोरेशन आर्थिक सहायता देता है। वैदेशिक विभाग तथा दूसरे सरकारी महकमे अपने कर्मचारियों को एशियाई भाषाओं तथा राजनीतिक मामलों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये इस सस्था में भेजते हैं। मद्रास में अमरीका के भूतपूर्व कौंसल रोबर्ट रूसो, जो आजकल नयी दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास में पुस्तकाध्यक्ष हैं, और कलकत्ता में अमरीकी कौंसल निकोलस टैकेर इस सस्था में ट्रेनिंग पा चुके हैं। उन्हे वैदेशिक विभाग ने शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ भेजा था।

इस सस्था के अध्यक्ष विलिमय नौर्मन ब्राउन नाम के एक सज्जन हैं, जो १९१८ से अमरीकी फौज तथा समुद्री बड़े के गुप्तचर विभागों में काम करते आये हैं। १९४१ से १९४५ तक वह वाशिंगटन में ओ० एस० एस० के एक बड़े अफसर थे। ब्राउन साहब " कमिटी औन सर्दन एशिया " के भी अध्यक्ष हैं। यह कमिटी अमरीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार की शिक्षा का संचालन करने के लिये बनायी गयी है।

दक्षिणी एशिया की समस्याओं का अध्ययन करने वाली दूसरी सस्थाएँ मिनीसोटा और कैलीफोर्निया के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत हैं। मिनीसोटा विश्वविद्यालय ने तो स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया था कि

“ हमने प्रेजुएट स्तर के विद्यार्थियों को गुप्तचर कार्य की बुनियादी शिक्षा देने और इस प्रकार फौजी और गैर-फौजी सरकारी महकमों के लिये दक्ष कर्मचारी तैयार करने का कार्यक्रम आरम्भ किया है। पूर्वी और दक्षिणी एशिया उन क्षेत्रों में से है जिनका हम कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अध्ययन करने का प्रवव किया गया है। ”

कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय विभाग के डेविड गुडमैन मॅन्डलवौम हे जो १९३७-३८ और १९४९-५० में भारत भी हो गये हैं। ये हजरत १९४२ में अमरीकी गुप्तचर विभाग के ब्रिटिश विभाग में काम करते थे और १९४६ वह में वैदेशिक विभाग के खोज और गुप्तचर कार्यालय के भारत-लक्षा मन्वधी महकमे में काम करते थे।

पिछले साल कोलम्बिया विश्वविद्यालय में पाकिस्तान सरकार की आर्थिक मदद से एक पाकिस्तान इंस्टीच्यूट की स्थापना की गयी थी। इस इंस्टीच्यूट के एक शिक्षक, जिनका नाम जे सी हूरेवित्ज़ है, लड़ाई के जमाने में ओ एस एस और वैदेशिक विभाग के जासूसी डिवीजन में काम कर चुके हैं।

इसके अलावा अमरीकी विश्वविद्यालयों में पढने वाले विदेशी विद्यार्थी भी गुप्तचरों का काम करने के लिये भरती किये जाते हैं।

विदेशी विद्यार्थियों के दाखले आदि की व्यवस्था इंस्टीच्यूट ऑफ इंटरनेशनल एज्यूकेशन (अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा की संस्था) करता है और वही उन्हे मिलने वाले वजीफों की देखरेख करता है। इसे फोर्ड फाउण्डेशन जैसी संस्थाओं से धन मिलता है। हाल में, इस इंस्टीच्यूट ने कोरा डुवौय को पिछड़े हुए देशों की शिक्षा सम्बन्धी साधनों तथा आवश्यकताओं का निर्णय करने वाले एक कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया है। युद्ध के समय यह महिला ओ० एस० एस० में काम करती थी। वह दक्षिणी एशिया सम्बंधी खोज की संचालिका थी और उसका प्रधान कार्यालय लका के कैंडी नामक स्थान में था। अक्टूबर १९४५ में उसे वैदेशिक विभाग की गुप्तचर शाखा के दक्षिणी क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था और १९४९ तक वह इसी पद पर रहा।

दूसरी संस्थाएँ और अमरीकी यात्री

अमरीकी गुप्तचर विभाग से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी संस्थाओं में सान फ्रांसिस्को की कमिटी फौर ए फ्री एशिया (स्वतंत्र एशिया समिति) का विशेष उल्लेख करना जरूरी है। इस समिति को पैसा क्लूसेड फौर फ्रीडम (' स्वतंत्रता संग्राम ') नामक वह संगठन देता है जिसके नेता जनरल लुसियस डी० क्ले हैं। समिति का उद्देश्य " एशिया में कम्युनिज़म से लोहा लेना " बताया जाता है। इसके लिये, वह अमरीका में रहने वाले भारतीयों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करती है। पिछले वर्ष डाक्टर राममनोहर लोहिया अमरीका गये थे तो उन्होंने इस समिति के तत्वावधान में हुई एक सभा में भाषण दिया था।

इस समिति के पहले अध्यक्ष जॉर्ज एच ग्रीन थे जो बीस साल तक न्यू यॉर्क के नेशनल सिटी बैंक में नौकरी करने के बाद, लड़ाई के जमाने में

ओ एस एस के मातहत, और १९४८-४९ में मार्शल योजना के अन्तर्गत चीन में काम कर चुके हैं। दिसम्बर १९५१ में चीन की जगह एलेन वैलन्टाइन नामक एक व्यापारी नियुक्त किया गया जो १९४८-४९ में हॉलैंड में मार्शल योजना का संचालक था।

समिति के सदस्यों में इन शक्तिशाली कम्पनियों के अध्यक्ष शामिल हैं अमरीकन ट्रस्ट कम्पनी, जनरल मिल्स कार्पोरेशन, पैसिफिक गैस एण्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी, पैन-अमरीकन एयरवेज, सेफवे स्टोर्स, स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी औफ कैलीफोर्निया और वेस्टर्न पैसिफिक रेल रोड।

अन्त में, कुछ अमरीकी यात्रियों का भी जिक्र कर देना उचित होगा जो हाल में भारत हो गये हैं।

जनवरी १९५१ में, सुदूर पूर्व का दौरा करते हुए विलियम डैनोवन साहब भारत तशरीफ लाये थे। यह सज्जन लड़ाई के जमाने में ओ एस एस के संचालक थे। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी ने समाचार छापा था कि उनकी इस यात्रा का असली उद्देश्य उन अमरीकी जासूसों के कार्य-क्षेत्रों को फिर से निश्चित करना था जो चीन से भाग आये थे।

३१ मार्च, १९५१ को जस्टिस विलियम डगलस ने घोषणा की थी कि पं नेहरू ने उन्हें हिमालय क्षेत्र के तिब्बत की सीमा से लगे हुए भाग में ४०० मील तक घूमने की अनुमति दे दी है। इसके चन्द दिन पहले इन महाशय ने बताया था कि उन्हें दलाई लामा से मिलने जाना है। इसके भी पहले वह यूगोस्लाविया और ईरान की यात्रा कर आये थे और सोवियत पत्रों ने उसी समय कहा था कि वह असल में जासूसी करने की गरज से वहाँ गये थे।

१९५१ में ही विलियम बुलिट साहब भी लाइफ पत्रिका का सम्वाददाता बनकर भारत का दौरा कर गये थे। सोवियत पत्र प्राचदा के कथनानुसार यह महाशय एक पुराने अमरीकी जासूस हैं।

अमरीकी जासूसों को मिलने वाला भारतीय सहयोग

ऊपर हमने जो कुछ बताया है, उसे यह बात तो पाठकों के सामने साफ हो गयी होगी कि अमरीका का गुप्तचर विभाग भारत में भी काम करता

है, और भारत का महत्व देखते हुए उसके बड़े भारी अफमर यहाँ के काम की देखरेख करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं ।

जब भारत मे कांग्रेसी सरकार की स्थापना की सभावना पैदा हुई तो अमरीका को इस बात की बड़ी चिन्ता हुई कि पता नहीं नयी सरकार कैसी होगी, वह भरोसा करने लायक होगी या नहीं । इसलिये, उसने युद्ध समाप्त होते ही तुरन्त निकल स्मिथ, अमौरी दि राइनकोर्ट, डिलन रिपले आदि गुप्तचरों को भेजा कि कश्मीर, नेपाल और तिब्बत का दौरा करके परिस्थिति की पूरी जाँच-पड़ताल करे । भारत के अग्रेज अधिकारियों ने इन लोगों को विशेष सुविधाएँ दीं । बाद मे यह बात तो साफ हो गयी कि नयी भारत सरकार से अमरीका को डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है । परन्तु, अमरीकी गुप्तचरों की कार्रवाइयाँ बराबर जारी रहीं, बल्कि और बढ़ती ही गयीं ।

अमरीकी गुप्तचर भारत की अन्दरूनी राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी रखते हैं । सरहदी इलाकों पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि रहती है ।

भारत सरकार ने इन लोगों की हरकतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की है । बल्कि, लगता है कि वह अमरीकी गुप्तचर विभाग से पूर्ण सहयोग करती है । २७ अप्रैल, १९४८ को बम्बई के फ्री प्रेस जर्नल ने समाचार छापा था

“ एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी द्वारा भेजे हुए एक समाचार से पता चलता है कि भारत, पाकिस्तान, बर्मा आदि देशों की सरकारों ने अमरीकी वैदेशिक विभाग की दी हुई सूचना के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की है । ”

अगस्त १९४७ के पहले तक तो भारतीय गुप्तचर विभाग अग्रेजों के आधीन था ही, पर लगता है कि उसके बाद भी हालत बदली नहीं है । और ब्रिटिश गुप्तचर विभाग अमरीकी गुप्तचर विभाग के साथ मिल कर काम करता है । अतः हम पाते हैं कि भारत के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के प्रधान तिरपतूर जी. सर्जीवी, १९४९ में किसी अज्ञात विषय पर गुप्त घातचीत करने के लिये अमरीका तशरीफ ले गये थे । इसी प्रकार, यह बात भी मतलब

से ज़ाली नहीं है कि भारत स्थित अमरीकी सम्वाददाता अक्सर जासूस विभाग से मिली हुई सूचनाओं का जिक्र अपनी रिपोर्टों में किया करते हैं ।

१५ दिसम्बर, १९४९ को हिन्दू ने ख़बर छापी थी कि ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के प्रबान, सर परसी सिलिटो भारत में एक कुशल अन्दरूनी और वैदेशिक गुप्तचर विभाग संगठित करने के प्रश्न पर ५० नेहट से विचार-विनिमय करने के लिये आने वाले हैं । उन्हीं दिनों यह ख़बर भी अख़बारों में निकली थी कि सर परसी ब्रिटिश कौमनवेल्थ के दूसरे देशों की यात्रा को भी जाने वाले थे । ग़लत न होगा यदि इन समाचारों का यह मतलब लगाया जाय कि इस तरह भारतीय गुप्तचर विभाग का पूरी तरह से अग्नेज-अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश हो रही है ।

३१ जुलाई, १९५१ को गृह विभाग के सचिव, एच वी आर आर्यंगर ने स्पेशल पुलिस अफसरों के एक सम्मेलन में बताया था कि भारत सरकार अमरीका के खुफिया विभाग (फेडरेल व्यूरो औफ़ इनवेस्टिगेशन) के ढग का केन्द्रीय खुफिया विभाग स्थापित करने वाली है । भारतीय खुफिया अफसरों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजा भी गया था ।

भारतीय, ब्रिटिश और अमरीकी गुप्तचर विभागों का यह सहयोग प्रत्येक भारतीय के लिये चिन्ता का विषय है । यह समझना भूल होगी कि हम तो कोई काम लुक्-छिप कर नहीं करते, इसलिये हमें गुप्तचरों और जासूसों से क्या डर ! भारत सरकार बहुत सी बातें भारतीय जनता से छिपा कर रखती है । परन्तु, अमरीका वालों के लिये सरकार की गुप्त से गुप्त फाइलें खुली रहती हैं । हमारी सरकार का प्रत्येक भेद उनको मालूम हो जाता है । वे हमारी प्रत्येक कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं और उमसे पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं ।

चौदहवां अध्याय

भारत में अमरीकी प्रचार

अमरीकी सरकार की प्रचारक मशीन कितनी विशाल है, इसका कुछ अनुमान इस बात से लग सकता है कि वैदेशिक विभाग के आधे कर्मचारी और आधे साधन केवल सूचना विभाग में लगे हुए हैं। विदेशों में प्रचार करने के लिये डालर पानी की तरह बहाये जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रचारक विभाग (इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन एण्ड एज्युकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम—अन्तरराष्ट्रीय सूचना एवं शिक्षा सम्बंधी विनिमय का कार्यक्रम) की हाल की रिपोर्टों में इन देशों को “महत्वपूर्ण” और “नाजुक परिस्थिति वाला” देश कहा गया है और इन पर और देशों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गयी है।

१९५१ के पहले ६ महीनों में अमरीकी प्रचार विभाग ने भारत में ३,६९,४९८ डालर और पाकिस्तान में १,३१,५८७ डालर खर्च किया था। भारत में इस विभाग के मातहत ४९ अमरीकी और ३९७ भारतीय कर्मचारी नौकर थे और पाकिस्तान में २० अमरीकी और १३० पाकिस्तानी कर्मचारी।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली और करँची के अमरीकी सूचना केन्द्रों का दावा है कि १९५० में १,९४,२४० व्यक्ति उनके दफ्तरों में आये। इनके अतिरिक्त नीचे लिखे स्थानों पर भी या तो अमरीकी सूचना केन्द्र खुल गये हैं, या शीघ्र खुलने वाले हैं—पुरानी दिल्ली, लखनऊ, बंगलौर, हैदराबाद, अम्बाला, बनारस, पटना, नागपुर, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, इलाहाबाद, कटक, लाहौर, ढाका, पेशावर, रावलपिंडी और क्वेटा।

अमरीकी सूचना विभाग की ओर से अमरीकन रिपोर्टर नामक पत्र मारे हिन्दुस्तान में मुफ्त बाँटा जाता है। १९५१ में इस पत्र की १,५०,०००

प्रतियाँ छपती थीं। पाकिस्तान में इस विभाग की ओर से **पनोरमा** नामक पत्र २२,००० की संख्या में निकलता है। जून, १९५१ से **फ्री वर्ल्ड** नामक एक नयी सच्चित्र पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी है।

इन पत्रिकाओं के अलावा, अमरीकी सूचना विभाग देशी अखबारों को तरह-तरह के लेख, समाचार, फोटो, कार्टून अमरीकी पत्रों की प्रतियाँ और दूसरा मसाला भेजता रहता है। भारत में अंग्रेजी तथा ६ देशी भाषाओं में रोज़ समाचारों की बुलेटिन निकलती है, पाकिस्तान में अंग्रेजी और उर्दू में। इस प्रकार, भारत और पाकिस्तान के अखबारों में निकलने वाली बहुत सी सामग्री वास्तव में अमरीकी सूचना विभाग के दफ्तरों में तैयार होती है।

यह विभाग पुस्तकें और पैम्फलेट भी प्रकाशित करके वॉटता है। **जीवित अमरीका** नाम की एक पुस्तकमाला भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के “खास-खास” लोगों के बीच अमरीका की ‘प्रतिष्ठा’ बढ़ाने के लिये निकाली जा रही है। इसकी पहली तीन पुस्तिकाओं की कुल ७,८०,००० प्रतियाँ छपी थीं। स्कूलों में इस्तेमाल करने के लिये एक **संक्षिप्त अमरीकी इतिहास** अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में निकाला गया है। **गौमलिन की जनतंत्र** नामक किताब ग्यारह भाषाओं में छपी गयी है, **वेनेट की अमरीका** नामक किताब दस भाषाओं में, **फेरिस और एजवेल्ड की किताब साझीदार : राष्ट्र संघ और युवक** नौ भाषाओं में, **गाल्ट की किताब राष्ट्र संघ कैसे काम करता है** ग्यारह भाषाओं में, और **वान डोरेन की किताब अमरीकी साहित्य क्या है** बंगाली और उर्दू में प्रकाशित हुई है।

अमरीकी प्रचार विभाग फ़िल्में भी वॉटता है। १९५० में उसके भारतीय दफ्तरों ने १,३१० फ़िल्मों का प्रयोग किया। ये फ़िल्में अंग्रेजी, बंगला, हिन्दी, उर्दू, तामिल, तेलगु, गुजराती और मराठी भाषाओं में थीं। पाकिस्तानी दफ्तरों ने उसी वर्ष ७६४ फ़िल्में वॉटी। भारतीय दफ्तरों के पास ५२ फ़िल्म दिखाने वाली मशीनें और ४ चलते-फिरते सिनेमा थे, पाकिस्तानी दफ्तरों के पास ३० मशीनें और ० चलते-फिरते सिनेमा थे। भारत में उन वर्ष १२,८४८ बार फ़िल्में दिखायी गयीं जिन्हें कुल ५५,१०,००० लोगों ने देखा। पाकिस्तान में १,४९० बार फ़िल्में दिखायी गयीं और उन्हें ८,४०,००० लोगों ने देखा।

प्रचार का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण साधन ' वीयम ऑफ अमरीका (अमरीका की आवाज़) ' नामक रेडियो कार्यक्रम है। जून १९५१ तक उसके अन्तर्गत खास सुदूर पूर्व के लिये अंग्रेजी भाषा में रोज़ सवा चार घंटे का ब्राडकास्ट होने लगा था। फिर आध-आध घंटे हिन्दी और उर्दू का ब्राडकास्ट शुरू किया गया। १९५० से इस कार्यक्रम को रेडियो सीलोन प्रसारित करता है और लका में तीन नये और बड़े ताकतवर रेडियो प्रसारक यंत्र लगाये जा रहे हैं।

प्रचार का एक और कार्यक्रम विद्यार्थियों और शिक्षकों, पत्रकारों और सम्पादकों और " जनमत बनाने वाले खास-खास लोगों " का विनिमय या आदान-प्रदान करना है। ३ मई, १९५२ को सार्वजनिक कार्य विभाग के सहायक मंत्री होलेण्ड सार्जेण्ट ने बताया था

“ चालू कार्यक्रमों के अन्तर्गत हर साल सरकार कुल १३,००० लोगों को विदेशों से यहाँ अध्ययन, ट्रेनिंग और राजनीतिक शिक्षा के लिये लाने वाली है। ”

२ फरवरी, १९५० को भारत के साथ अमरीका का जो फुलब्राइट समझौता हुआ था, उसके मातहत इस प्रकार के आदान प्रदान पर पाँच वर्षों में १७,५०,००० डालर खर्च किये जायेंगे। पाकिस्तान के साथ इसी तरह का समझौता १ सितम्बर, १९५० को हुआ था। उसके मातहत १२,५०,००० डालर खर्च किये जायेंगे। १९५०-५१ में, २३२ भारतीय और १०० पाकिस्तानी इस सम्बंध में अमरीका गये थे और अमरीका से ४५ लोग भारत में तथा २४ पाकिस्तान में आये थे।

सूचना कार्य की आड में

अमरीकी प्रचार विभाग, जो अपने को सूचना विभाग कहता है, बहुत से ऐसे काम करता है जो न सूचना के क्षेत्र में आता है और न प्रचार के क्षेत्र में।

पहली बात तो यह है कि यह विभाग ऐसी बड़ी-बड़ी रकमों खर्च करता है जिनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

दूसरे, इस विभाग में स्थानीय तौर पर तथा अमरीका में, जो सैकड़ों भारतीय और पाकिस्तानी नौकर रखे गये हैं, उनकी पहले अमरीकी खुफिया

विभाग जाँच करता है। व्यक्तियों का आदान-प्रदान करते समय भी उनके राजनीतिक विचारों की जाँच की जाती है। कागजी तौर पर, अमरीका तथा सम्बन्धित देश के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिती उनका नाम चुनती है, परन्तु अन्तिम निर्णय अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों के हाथों में होता है। और उनकी एक बार अनुमति मिल जाने पर भी वाशिंगटन में वैदेशिक विभाग और विदेशी वजीफों का बोर्ड फिर से उनकी जाँच करता है। बहुत से विद्यार्थियों और शिक्षकों को केवल उनके राजनीतिक विचारों के कारण वजीफे नहीं दिये गये हैं।

तीसरे, इस विभाग की पुस्तिकाएँ, पत्र और फिटम प्राय उन सरकारों की निन्दा करने के लिये तैयार किये गये हैं जिनके साथ भारत की मित्रता है।

चौथे, यह विभाग एक तरह से भारतीय प्रकाशकों और लेखकों को घूस दे-दे कर भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। अमरीकी प्रचार विभाग की छठी रिपोर्ट में कहा गया है कि

“अमरीकी पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन के काम को तेज करने के लिये विदेशी प्रकाशकों को निम्न प्रकार की सहायता दी गयी (१) अमरीकी प्रकाशकों से अनुवाद और प्रकाशन की इजाजत मगवा कर देना, (२) अनुवादित पुस्तक का एक निश्चित सख्या को स्वयं खरीद लेने की गारंटी देना, (३) चित्रों के लिये आवश्यक सामग्री मगा देना, (४) लागत से भी कम दाम पर गुटका या जेवी संस्करण निकालने में प्रकाशकों को आर्थिक सहायता देना।”

इसी विभाग की सातवीं रिपोर्ट में आगे यह लिखा गया था

“सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में अनुवाद के काम पर ज्यादा जोर दिया गया। १५ देशों के स्थानीय प्रकाशकों को २४ भाषाओं में अमरीकी पुस्तकें छापने में इस प्रकार की मदद दी गयी प्राप्ती राइट मगा कर देना, जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ कागज मुहय्या कर देना, महत्वपूर्ण संगठनों और व्यक्तियों को भेंट करने के लिये एक निश्चित सख्या में अनुवादित पुस्तकों को खरीद लेना। मध्य और सुदूर पूर्व में कागज की बहुत कमी थी, इसलिए चुनी हुई किताबों को

प्रकाशित करने के लिये . भारत में प्रकाशकों के वास्ते कागज खरीदा गया ।

“कम्युनिस्ट प्रचार का मुक्तावला करने के उद्देश्य से इस काल में जिन किताबों का अनुवाद किया गया, उनमें ये भी शामिल थीं **सोवियत रूस में वेगार** (डालिन और नोकोलाव्स्की) जो अग्रेजी, चीनी, इटालियन और बर्मी भाषाओं में छपी, और **मास्को में मेरे तीन वर्ष** (स्मिथ), **एक जो बच गया** (वरमाइन) और **मैं क्यों जान बचा कर भागा** (पिरोगोव) जो भारत की ग्यारह भाषाओं में प्रकाशित की गयी...।”

डी० एफ० कराका ने, जो अपनी अमरीका-भक्ति के लिये प्रसिद्ध हैं, २३ जुलाई, १९५१ के **न्यू यॉर्क टाइम्स** में लिखा था

“कुछ सप्ताह हुए मेरे अखबार करेन्ट के दफ्तर में अमरीकी सूचना विभाग का एक सदस्य आया । वह ‘युद्ध अवश्यम्भावी है’ शीर्षक हमारे एक लेख के लिये मुझे बधाई देने आया था । इस लेख में प्रधान मंत्री नेहरू की तटस्थता की नीति की आलोचना की गयी थी । हमारा विचार था कि युद्ध के अवश्यम्भावी-पन के खिलाफ अमरीका जिस तरह लड़ रहा है, उसे देखते हुए तटस्थता का रुख उचित नहीं है । हमसे कहा गया कि भारत में इस लेख का और प्रचार होना चाहिये । मैंने समझा कि यह सज्जन चाहते हैं कि लेख पर से मैं अपना कापीराइट हटा लूँ ताकि उनकी सस्था, यानी अमरीकी सूचना विभाग उसे छाप कर देश में बाँट सके । इस विचार से मैंने कहा कि मुझे ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं है । परन्तु आप के युवा प्रतिनिधि के दिमाग में तो कुछ और ही बात थी । उनकी इच्छा यह मालूम पड़ती थी कि हमारा पत्र ही इस लेख के सन्देश को और फैलाने की व्यवस्था करे । उनने मुझसे कहा कि इसमें जो कुछ खर्च होगा, उसका बन्दोबस्त हो जायगा ।”

पाचवीं बात यह है कि अमरीकी प्रचार विभाग स्थानीय सगठनों और सस्थाओं में खुलेआम हस्तक्षेप भी करता है । छठी रिपोर्ट में लिखा है

“लाहौर के सूचना कार्यालय की सहायता से तीन विद्यार्थी सगठन स्थापित किये गये एक मानव सम्बंध सुधार समिति, जिसके ६५०

सदस्य हैं और जो प्रायः सांस्कृतिक कार्य करती है, दूसरा, कलम और रोशनाई क्लब, जो वाई० एम० सी० ए० में काम करता है, और तीसरी, कम्युनिस्ट-विरोधी पाकिस्तान विद्यार्थी लीग।”

अन्तिम, परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीकी प्रचार विभाग, खुफिया विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम करता है। स्वयं वैदेशिक विभाग ने १८ जनवरी, १९५२ के अपने बयान में इस बात को तसलीम किया है। उसमें कहा गया था कि

“सूचना विभाग के अमली कार्यक्रम तथा वैदेशिक विभाग के गुप्तचर कार्य एवं वैदेशिक नीति का संचालन करने वाली शाखाओं के बीच आवश्यक सम्बन्ध दृढता के साथ कायम रखा जायगा।”

इस प्रकार अमरीकी प्रचार विभाग में नौकरी करने वाले सैकड़ों भारतीय और पाकिस्तानी, वास्तव में, अमरीकी गुप्तचर विभाग के लिये काम करते हैं।

मनोवैज्ञानिक युद्ध

वैदेशिक विभाग की एक बार यह व्याख्या की गयी थी कि वह “मनो-वैज्ञानिक युद्ध करने का एक अमरीकी अस्त्र” है। उसके सूचना या प्रचार विभाग की देख-रेख “मनोवैज्ञानिक समर-नीति निर्धारक बोर्ड” करता है। न्यू यॉर्क टाइम्स के कूटनीतिक सम्वाददाता, जेम्स रेस्टन ने इस बोर्ड को “गंदे हथकण्डों का विभाग” कहा है। वैदेशिक विभाग, रक्षा विभाग और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य हैं।

मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में हाल में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसके लेखक रौबर्ट समर्स ने बताया है कि “मनोवैज्ञानिक युद्ध” शब्दों का प्रयोग पहले-पहल नात्सियों ने किया था। उसके शब्दों में नात्सी :

“योरप को जीतने के लिये मनोवैज्ञानिक युद्ध को मशहूर युद्ध के बराबर महत्त्व देते थे। नात्सी विचारकों की राय में मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ाई के पहले, लड़ाई के दौरान में और लड़ाई के बाद बराबर ही चलता रहता है और उसका उद्देश्य शत्रु को कमजोर करना और तटस्थ देशों के जनमत पर असर डालना होता है।”

दूसरे महायुद्ध के बाद अमरीका की तरफ से मनोवैज्ञानिक युद्ध बड़े पैमाने पर १९४८ में शुरू हुआ और १९५० में उसने अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया ।

फरवरी १९५१ में ' नेशनल कमिटी फौर ए प्री योरप ' (स्वतंत्र योरप के लिये लड़ने वाली राष्ट्रीय समिति) के अध्यक्ष चार्ल्स डी० जैकसन ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में सबसे अधिक धन की और ऐसी मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है जो शत्रु के खिलाफ अच्छे-बुरे हर प्रकार के अस्त्र का उपयोग करने को तैयार हो । वैदेशिक विभाग के एक बड़े अधिकारी ने १९५२ में कहा था

“ पहले हम अमरीका का एक पूरा और सच्चा चित्र दूसरों के सामने पेश करके ही सतोष कर लेते थे । पर अब हमने ज़्यादा जोरदार और उग्र कार्यक्रम अपनाया है . । ”

मैकाथर सम्बन्धी जाँच के समय १९५१ में विदेश मंत्री एन्नीसन ने सेनेट की एक कमिटी के सामने स्वीकार किया था कि उनका विभाग विदेशों में प्रचार करते समय सच्ची खबरों को तोड़ता-मरोड़ता है ।

अमरीकी प्रचार विभाग के अध्यक्ष एडवर्ड बैरट ने बताया है कि विदेशों में बहुत सी प्राइवेट संस्थाओं और सगठनों को आर्थिक सहायता दी जाती है । उसके शब्दों में

“ आजकल हमारे काम का एक बहुत बड़ा भाग विदेशों में ऐसे सगठनों और दलों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है जो हमारे ' सत्य के प्रचार ' में सम्मिलित होने को तैयार हों । ”

समर्स साहब ने फरमाया था कि रेडियो, छपा हुआ साहित्य, फिल्मों और शिक्षकों की बदला-बदली का कार्यक्रम — ये सभी मनोवैज्ञानिक युद्ध के अस्त्र बन गये हैं । यही नहीं, इसी प्रकार

“ विदेशों में व्यापार करने वाली अमरीकी कम्पनियों द्वारा दिये गये विज्ञापन, अमरीकी पेटेन्टों को इस्तेमाल करने की इजाजत, विदेशों को दी जानेवाली आर्थिक सहायता, भारत को दिया गया गेहूँ, और दूसरे ऐसे अनेक आश्वासन और कार्य जिनसे दूसरे देशों में अमरीका के लिये

सहानुभूति उत्पन्न होती है—ये सब कार्रवाइयों भी मनोवैज्ञानिक युद्ध की अख्र बन गयी हैं । ” (समर्स साहब की पुस्तक)

वैदेशिक विभाग, इस क्षेत्र में, खुद काम करने के अलावा दूसरे सरकारी महकमों और प्राइवेट सस्थाओं के द्वारा भी काम कराता है

“ विदेशों में व्यापार करने वाली कम्पनियों ने हमारी बड़ी मदद की है—और हमने भी उन्हें काफी सहायता दी है । विदेशों में अमरीकी माल बेचने वाली कम्पनियों वहाँ अमरीका तथा स्वतंत्रता की हमारी परिभाषा के पक्ष में बड़ी सफलतापूर्वक प्रचार कर सकती है ।

विदेशी समाचार पत्रों में विज्ञापन देने वाली कुछ अमरीकी कम्पनियों अब अपने विज्ञापन इस तरह तैयार करने लगी हैं कि उनसे विदेशों में अमरीकी विचारों का प्रचार करने में भी मदद मिले । ”

(वैदेशिक विभाग की बुलेटिन, १२ मार्च, १९५१)

अमरीकी प्रचार में हमारी सरकार की मदद

अत यह बात स्पष्ट हो गयी कि कहने को अमरीका, भारत और पाकिस्तान को अपना मित्र समझता है, परन्तु वास्तव में वह मनोवैज्ञानिक युद्ध के सभी अस्त्रों का उनके विरुद्ध उपयोग कर रहा है । इन देशों की जनता इस बात को पसन्द नहीं करती । स्वयं न्यू यॉर्क टाइम्स ने २० अगस्त, १९५० को लिखा था

“ हिन्दुस्तानियों को यह बात पसन्द नहीं आती कि कोई उनको प्रचार के जरिये फासने की कोशिश करे । इगलिये, अमरीकी प्रचार को वे मन्देह की दृष्टि से देखते हैं और कमी-कमी तो उमका उट्टा अमर होता है । ”

परन्तु भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें अमरीका के इस मनोवैज्ञानिक महायुद्ध को रोकने के बदले, उल्टे उसकी मदद करती हैं । पहले तो वे सोवियत रूस और चीन के बारे में मन्त्री खबरों को अपने देशों में स्वतंत्रतापूर्वक नहीं आने देतीं । सोवियत नागरिकों को भारतीय मम्बेलनों में शरीक होने के लिये भारत आने के पासपोर्ट नहीं दिये जाते । हाल में रेलवे स्टेशनों पर लगने वाली किताबों की दूकानों पर सोवियत नाहिन्य की विज्ञापन बन्द कर दी गयीं

है। ४ दिसम्बर, १९५१ को न्यू यॉर्क टाइम्स ने ममाचार छापा था कि पाकिस्तान सरकार ने सोवियत साहित्य की बिक्री पर रोक लगा दी है और यह काम उसने “ बाहरी सुझाव ” पर किया है।

भारत और पाकिस्तान की सरकारों से अमरीकी प्रचार विभाग को और किस ढंग की मदद मिलती है, यह स्वयं प्रचार विभाग की सरकारी रिपोर्टों के शब्दों में सुनिये

“ विश्व स्वास्थ्य दिवस पर फिल्म दिखाने का विशेष आयोजन करके अमरीकी सूचना विभाग ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार के सहयोग से काम किया है। ” (पांचवीं रिपोर्ट, पृष्ठ ३२)

“ नयी दिल्ली में, अमरीकी सूचना विभाग को सरकारी सचिवालय भवन की दीवारों पर अपनी सामग्री मुफ्त प्रदर्शित करने की अनुमति मिल गयी है। रोज २०,००० आदमी इस स्थान से गुजरते हैं और यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने किसी विदेशी सरकार को इस स्थान को ऐसे काम के वास्ते इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। अप्रैल में अपनी फिल्मों का वितरण करने के लिये हमें एक नयी सुविधा प्राप्त हुई। अमरीकी सूचना विभाग की फिल्म **हरीकेन सरकिट** दो करोड़ आदमियों को दिखायी गयी। वह इस तरह कि भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा बनायी गयी फिल्मों को दिखाने की जो व्यवस्था है, उसी के द्वारा हमारी इस फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। यह हमारी पहली फिल्म थी जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया, पर हमें आशा है कि भविष्य में हर साल हम अपनी पाँच-छ फिल्मों में इम सरकारी व्यवस्था के जरिये दिखा सकेंगे। ” (पांचवीं रिपोर्ट, पृष्ठ ३२)

“ फिल्म वितरक कम्पनियों और भारत सरकार के फिल्म डिवीजन के जरिये देश के सिनेमा घरों में अमरीकी प्रचार फिल्म की एक विशेष व्यवस्था तैयार हो गयी है। ” (छठी रिपोर्ट, पृष्ठ ३३)

“ लाहौर में पंजाब सरकार के जन-रिपब्लिक विभाग के चलते-फिरते सिनेमा ने लगभग साठे चार लाख व्यक्तियों को अमरीकी सूचना विभाग की फिल्में दिखायीं। ” (मानवीं रिपोर्ट, पृष्ठ ३४)

भारत में अमरीकी पादरी

ईसाई पादरी

भारत में दो हजार अमरीकी पादरी हैं। वे लगभग दस लाख भारतीय ईसाइयों के बीच काम करते हैं और मिशनरी स्कूलों, अस्पतालों, वाई एम सी ए, वाई डब्ल्यू सी ए आदि के जरिये लाखों गैर-ईसाई हिन्दुस्तानियों से उनका सम्पर्क है। देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ ये लोग न मौजूद हों। यहाँ तक कि नागा की पहाड़ियों और भारत-नेपाल सीमा जैसे सैनिक महत्व के इलाकों में भी अमरीकी पादरी जमे हुए हैं।

कुछ वर्षों से अमरीका दिनोंदिन इस बात की कोशिश कर रहा है कि गिरजा घरों को और ईसाई धर्म के सगठनों को अपने कम्युनिस्ट-विरोधी सघर्ष में एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाय। अमरीकी गिरजा घर और धार्मिक सगठन भी खुलकर राजनीतिक वाद-विवाद में हिस्सा लेने लगे हैं। और अब भारत में तैनात अमरीकी पादरियों में भी यह प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी है।

५ मई, १९४८ को अमरीका के मेथोडिस्ट गिरजा घर के वृहद सम्मेलन ने सप्ताह भर में कम्युनिज्म के खिलाफ जिहाद छेड़ने और उस पर चार वर्ष में ५ करोड़ डालर खर्च करने का फैसला किया। ऐलान किया गया कि दो सौ युवा दम्पतियों को कम्युनिज्म से सघर्ष करने की शिक्षा देकर दुनिया के प्रत्येक ऐसे इलाके में भेजा जायगा जिसे कम्युनिज्म ने खनरा है। भारत को उस कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया।

दिसम्बर १९४९ में गिरजा घरों की विद्व ममिति और अन्तरराष्ट्रीय मिशनरी काउन्सिल के संयुक्त तत्वावधान में बंगौर में एक पूर्वी एशियाई

सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में अन्तरराष्ट्रीय मिशनरी काउंसिल के अमरीकी प्रधान मंत्री रेवरेण्ड सी० डब्ल्यू० रैन्सन ने एक रिपोर्ट पेश की। उस पर विचार करने के बाद सम्मेलन ने तै किया कि एशिया में कम्युनिज्म का कैसे मुकाबला किया जाय।

उपरोक्त दोनों समितियों की एक संयुक्त बैठक फिर जुलाई १९५० में टोरन्टों में हुई। उसने न्यू यॉर्क की यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रोफेसर रेवरेण्ड जॉन सी० वैनैट को नियुक्त किया कि वह एशिया जाकर “स्थानीय ईसाई सस्थाओं और दलों से उन समस्याओं पर परामर्श करें जो कम्युनिज्म की प्रगति के कारण पैदा हो गयी हैं।” वैनैट साहब ने लाहौर, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, बंगलौर, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम और कलकत्ता में विचार विनिमय करने के बाद रिपोर्ट दी कि

“प्रत्येक देश में कुछ ऐसे ईसाइयों का एक दल होना चाहिये, जो कम्युनिज्म के बारे में पूरी जानकारी रखते हों, जिन्हें कम्युनिस्ट मिद्धान्तों का ज्ञान हो और जो कम्युनिस्ट दोंव-पेंच से भी परिचित हों। इन लोगों को इसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिये कि जिन देशों में कम्युनिस्टों का राज्य है, विशेष कर चीन में, वहा वास्तव में क्या हुआ है।”

वैनैट साहब के सुझाव पर १९५१ के शुरू में बंगलौर में, “सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिये केन्द्रीय ईसाई इंस्टीच्यूट” की स्थापना की गयी। त्रावणकोर के ए० के० थम्पी नामक एक युवक को, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कम्युनिज्म का काफ़ी अध्ययन किया है, इस इंस्टीच्यूट का कार्यवाहक मंत्री नियुक्त किया गया। पहला कोर्स ४ जून से १५ जून, १९५१ तक हुआ। उसमें ४० विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्हें यह सिखाया गया कि भारत में कम्युनिज्म की चुनौती का ईसाई धर्म क्या जवाब देता है।

कुछ व्यक्तियों को विगेष रूप में छॉट कर अमरीका में ट्रेनिंग पाने के लिये भेजा गया। इलाहाबाद के ईर्विंग क्रिश्चियन कालेज के अमरीकी शिक्षक जॉन वायगेट को और बंगलौर के युनाइटेड थियोलॉजिकल कालेज के त्रावणकोरी शिक्षक जे० रसेल चन्द्रन को १९५० में अमरीका की यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी में भारतीय कम्युनिज्म का अध्ययन करने के लिये भेजा गया था।

एशिया में जितने ईसाई गिरजा घर और सगठन हैं, उनका एक संयुक्त सम्मेलन गिरजा घरों की विश्व काउंसिल ने नवम्बर १९५१ में मनीला में बुलाया था। इस सम्मेलन ने सभी सचचे ईसाइयों को आदेश दिया कि वे “कम्युनिज्म का विरोध करें और कम्युनिस्ट-पीडित देशों की मुक्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करें।”

१८ अप्रैल, १९५२ को अमरीका की ईसाई गिरजा घरों की राष्ट्रीय समिति के विदेशी मिशन विभाग की भारतीय समिति ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें “पिछले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रत्याशित सफलताओं” का मुकाबला करने के तरीके सुझाये गये थे।

वायगेट और चन्द्रन के एक लेख से पता चलता है कि ईसाई पादरी इतने क्यों परेशान हैं। वे लिखते हैं कि त्रावणकोर के कुछ व्यापारियों को छोड़ कर भारतीय ईसाई आम तौर पर धनी नहीं हैं। गिरजा घर या सगठित ईसाई वर्ग ने तो कभी भी एक उग्रवादी सामाजिक शक्ति के रूप में काम नहीं किया है। परन्तु साधारण भारतीय ईसाई सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ नहीं हैं। बहुत से ईसाई कम्युनिज्म और ईसाई वर्ग को परस्पर विरोधी चीजें नहीं समझते। ईसाई विद्यार्थी, कम्युनिस्ट विद्यार्थियों के साथ सहयोग करते हैं और वी० चक्राराई चेट्टियार नामक एक ईसाई तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया है। (इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ मिशनर्स के जनवरी १९५१ के अंक में वायगेट और चन्द्रन का “भारतीय कम्युनिज्म और भारतीय गिरजा घर” शीर्षक लेख)

इस प्रकार अमरीकी पादरी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर उत्साह हो गये हैं और इसलिये अब वे उन विशेष सुविधाओं के अधिकारी नहीं रह गये हैं जो विशुद्ध धार्मिक कार्यकर्ताओं को मिलती हैं।

अप्रेजों के दिनों से ही मिशनरी स्कूलों-कालेजों और अस्पतालों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती रही है। पिछले वर्ष, जब भारत सरकार ने अमरीका से कर्ज पर गेहूँ खरीदा तो उसने अमरीकी सरकार का यह सुझाव मान लिया कि भारत में काम करने वाले अमरीकी मिशनरी अस्पतालों के पाँच अमरीकी संस्थाओं की तरफ से जितना भी नामान भेजा जायेगा, उसके देश के अन्दर आने-जाने आदि का नया उर्जा भारत सरकार देगी। गट रहे

कि भारत सरकार ने गैर-अमरीकी मिशनरी सस्थाओं या भारतीय सस्थाओं को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है ।

भारतीय ईसाइयों को अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रख कर, अमरीकी पादरियों की हरकतों पर गम्भीरता से ध्यान रखना चाहिये । नहीं तो वह समय आ सकता है जब अमरीकी पादरियों की मदद करने वाले भारतीयों को यहाँ की जनता विदेशी एजेन्ट और देशद्रोही समझने लगे । जब तक भारतीय गिरजा घर और ईसाइयों के वार्षिक सगठन विदेशी सस्थाओं के नियंत्रण से मुक्त नहीं होंगे और आर्थिक तथा सगठनात्मक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक बाकी भारतीय जनता से ईसाई सम्प्रदाय के कट जाने का खतरा सदा बना रहेगा ।

भारतीय ईसाई गिरजा घर और सगठन स्वतंत्र हों—इसमें देश की सारी जनता का हित है । किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल किया जाना और एक विदेशी सरकार का हमारी सरकार पर इस सम्प्रदाय की आर्थिक सहायता करने के लिये दबाव डालना—ये ऐसी बातें हैं जिनको यदि नहीं रोका गया, तो खतरनाक नतीजे हो सकते हैं ।

‘ नये ढंग ’ के ‘ पादरी ’

अमरीकी पादरी तो कई पीढ़ियों से भारत में ईसासमूह का सन्देश फैला ही रहे थे । अब हाल में एक नये ढंग के अमरीकी ‘ पादरियों ’ ने भी भारत पर कृपा की है । अमरीकी कार्यक्रम के ‘ चौथे सूत्र ’ के अन्तर्गत आने वाले विशेषज्ञ, व्यक्ति-विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाले प्रोफेसर और विद्यार्थी और ‘ मास्कृतिक स्वतंत्रता सम्मेलन ’ में आनेवाले अमरीकी प्रतिनिधि—सभी को हम इन नये ढंग के पादरियों में गिनते हैं । उनमें सबसे जोरदार अमरीकी मजदूर यूनियनों के दूत होते हैं ।

२० अप्रैल, १९५० को स्वयं राष्ट्रपति ट्रुमन ने इन ‘ मजदूर पादरियों ’ का महत्व स्वीकार करते हुए कहा था

“ यदि अमरीकी मजदूर यूनियनों के सदस्य विदेशों में जाकर वहाँ के मजदूरों को स्वतंत्र अमरीकी मजदूरों की कहानी सुनाये, तो सरकारी कर्मचारियों के दर्जनों भाषणों से अधिक और बेहतर कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचार हो सकेगा । ”

अमरीका की प्रमुख मजदूर सस्थाओं ने भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति की इस सलाह को मान लिया है और वे सरकारी सस्थाओं से पूरा सहयोग कर रही हैं ।

जून १९४८ में अमरीकी फेडरेशन ऑफ लेबर (ए एफ एल) की स्वतंत्र ट्रेड यूनियन कमिटी ने अन्तरराष्ट्रीय मजदूर सगठन (आई एल ओ) के सान फ्रांसिस्को अविवेशन में आये हुए एशियाई प्रतिनिधियों से सम्पर्क कार्यम किया और उनके सामने एशिया में एक कम्युनिस्ट-विरोधी मजदूर सगठन बनाने का सुझाव रखा । उसके मुझावों में एशियाई ट्रेड यूनियन सगठन-कर्ताओं को शिक्षा देने के लिये एक मजदूर फालेज खोलने का प्रस्ताव भी शामिल था ।

नवम्बर-दिसम्बर १९४९ में लन्दन में एक ' स्वतंत्र ' मजदूर सम्मेलन हुआ जिसमें एक ' अन्तरराष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर सघ ' की स्थापना की गयी । भारत की इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (राष्ट्रीय मजदूर सघ या इंटक) और हिन्द मजदूर सभा दोनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शरीक थे और ये दोनों सस्थाएँ इस सघ में शामिल हो गयीं हैं ।

इस सम्मेलन ने एक घोषणापत्र निकाला जिसमें सोवियत सघ और पूर्वी योरप के जनवादी देशों में " पुलिस राज के नीचे दबी हुई जनता की, एकतंत्री अत्याचार से मुक्त होने की कोशिशों " का समर्थन किया गया था ।

सम्मेलन में बार-बार इस बात पर चिन्ता प्रकट की गयी कि पिछड़े हुए देशों के मजदूर यूनियनों में कम्युनिस्टों का असर बढ़ता जा रहा है । अमरीकी और ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि उन्नत देशों के यूनियनों से पैसे लेकर पिछड़े हुए देशों में कम्युनिस्ट-विरोधी यूनियन बनाये जाये, और उनका सगठन करने के लिये क्षेत्र-कमिटियाँ कायम की जाये । यह बात यहाँ तक बढ़ी की इटक की प्रतिनिधि डॉ० मैत्रेयी बोन तरु को सहना पडा कि

" यह बिल्कुल सही है कि क्षेत्र-कमिटियाँ बननी चाहिये, परन्तु उसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इन कमिटियों को बाहर से बहुत मदद नहीं मिलनी चाहिये । उन्हें स्वतंत्र उपायों की तरफ काम करना चाहिये । जहाँ तक उन्नत देशों ने आर्थिक और दूसरे तम की मदद लेने का मवाल है, मेरी राय है कि जरा बोन-मनन पर उनसे मदद लेनी चाहिये । पिछड़े हुए देशों के अपने विदेशी अन्त

नहीं लादना चाहिये। मुझे डर है कि यदि ऐसी कोई बात की गयी तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”

फिर भी, अमरीकी मजदूर सगठन, ‘अन्तरराष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर सघ’ के जरिये और प्रत्यक्ष रूप से, एशियाई मजदूर आन्दोलन में सक्रिय ढंग से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

१९५० में इस सघ ने अपना एक प्रतिनिधि-मण्डल दक्षिण-पूर्वी एशिया में भेजा। मण्डल में दो अमरीकी थे, एक अग्नेज, एक वेल्डियन और एक इंटक का प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी था। इन लोगों ने सिफारिश की कि सिंगापुर में इस सघ का सूचना केन्द्र खोला जाय और भारत में उसके प्रतिनिधि स्थायी रूप से तैनात किये जायें तथा लका और सिंगापुर में दो मजदूर कालेज खोले जायें।

मई १९५१ में इस सघ ने करोंची में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किया। इसमें अमरीकी फेडरेशन औफ लेबर, कुओमिन्तांग के फार्मोसा स्थित मजदूर सगठन, और दक्षिण कोरियाई फेडरेशन औफ लेबर के प्रतिनिधि शरीक हुए थे। कोरियाई प्रतिनिधि ने वहाँ एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें समी मजदूर सगठनों से कहा गया था कि वे कोरिया के बारे में “सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रस्तावों को कार्यान्वित कराने के लिये उचित कार्रवाई करें, आक्रमणकारी को लड़ाई का सामान भेजना बन्द करायें और जो कुछ मदद कर सकते हैं, करें।” यह प्रस्ताव भारत तथा पाकिस्तान के जनमत के ही नहीं, उनकी सरकारों की नीति के भी विरुद्ध था। फिर भी, इंटक के नेता श्री हरिहरनाथ शास्त्री ने सम्मेलन में ऐलान किया कि

“कम से कम हमें जो कुछ करना चाहिये, वह यह है कि इस प्रस्ताव का हम हार्दिक समर्थन करें।”

सरकार के बल पर खड़े हुए अखिल पाकिस्तानी कॉन्फेडरेशन औफ लेबर के प्रतिनिधि फ्रैंज अहमद ने कहा

“मैं इस प्रस्ताव की दिल से तारीफ करता हूँ।”

जून १९५१ में सघ का दूसरा अधिवेशन मिलान में हुआ। उसमें निश्चय किया गया कि पिछड़े हुए देशों में, विशेष कर एशिया में मजदूरों का सगठन खड़ा करने के लिये टाई लाव फौण्ड का एक विशेष फण्ड खोला जाय।

अमरीकी यूनियनों के नेता एशियाई यूनियनों की मदद करने को इतने उत्सुक क्यों हैं, यह स्पष्ट हो जायगा यदि हम विचार कर लें कि यह मदद है किस प्रकार की। सघ की ओर से जो प्रतिनिधि-मण्डल दक्षिणी एशिया का दौरा करने आया था, उसके अध्यक्ष एफ० डब्ल्यू० डैली ने बताया है कि ब्रिटिश उपनिवेशों के मजदूर यूनियनों के नेताओं की शिक्षा का एक कार्यक्रम ब्रिटेन में चलाया गया था, पर वह सफल नहीं हुआ। डैली ने आगे लिखा है

“ .. कुछ नेता बच्चीफे पाकर विदेश गये थे। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके देश का समाज उनकी नयी शिक्षा का स्वागत करने को तैयार नहीं है। वहा मजदूर यूनियनों की सदस्य सख्या इस तरह गिरती जा रही है कि वे अपने मुख्य कर्मचारी को उचित तनखा भी नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थिति में ये लोग सरकार या व्यापारी कर्मों की नौकरियों तलाश करने लगते हैं और मजदूर आन्दोलन से किनारा कम लेते हैं। ”

भारत में सबसे पहले मजदूरों के संगठन का काम उन लोगों ने शुरू किया था जो असल में उदार दिल वाले व दानशील लोग थे और इस काम को भी समाज सेवा का अंग समझते थे। बाद में, कम्युनिस्टों से प्रेरणा पाकर यहाँ नये प्रकार के मजदूर नेता पैदा हुए जो था तो स्वयं मजदूर होते थे या अपने को मजदूरों में घुला-मिला देते थे। स्वतंत्र मजदूर सघ एक तीव्रतरह के—अमरीकी ढंग के—नेता तैयार कर रहा है जो मोटी तनखाएँ लेंगे और अपने को मजदूरों का अफसर या अधिक से अधिक बच्चील समझेंगे।

भारत और पाकिस्तान में इस सघ का रंग अभी से दिग्गई देने लगा है। यह सघ मार्शल योजना, अटलान्टिक समझौते, शुभन योजना आदि का समर्थन करता है और सोवियत रूस तथा चीन का विरोधी है। भारत और पाकिस्तान का जनमत इस नीति के पक्ष में नहीं है। फिर भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सघ के ऐसे सभी प्रस्तावों का नया समर्थन किया है।

अमरीकी फेडरेशन ऑफ लेबर इस सघ में अलग, स्वतंत्र रूप में भी कार्य करता है। इससे इन 'मजदूर पादरियों' और अमरीकी सरकार का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है।

जुलाई १९४९ में, अमरीकी फेडरेशन ऑफ लेबर की स्वतंत्र मजदूर यूनियन कमिटी ने बम्बई में अपना एक दफ्तर खोला। इसके प्रधान मि०

रिचर्ड डेवरेल बनाये गये जो पहले मैकार्थर के मजदूर सलाहकार थे। इन सज्जन ने यहा आते ही राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। १९५० में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की बम्बई शाखा के सामने भाषण देते हुए उसने उत्तरी कोरिया और सोवियत संघ को गालियाँ दीं। १२ अप्रैल, १९५२ को उसने, करौंची से एक वयान दिया जिसमें कहा गया था कि कोरिया में क्रीटाणु-युद्ध करने का अमरीका पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वह निराधार है। स्वतंत्र मजदूर यूनियन कमिटी के मंत्री जॉर्ज मीनी ने अमरीकन फेडरेशनिस्ट के अप्रैल १९५१ के अंक में ऐलान किया था -

“ भारत में हमने एक बहुत सक्रिय दफ्तर खोल रखा है। यह दफ्तर न सिर्फ अमरीका के बारे में सूचना प्रसारित करता है, वह न सिर्फ हमारे देश और हमारी सस्थाओं के खिलाफ कम्युनिस्टों के जहरीले प्रचार का मुकाबला करने में केन्द्र का काम देता है, बल्कि वह भारतीय मजदूर आन्दोलन का भी पथ-प्रदर्शन करता है। ”

इस प्रकार अमरीकी फेडरेशन ऑफ लेबर राजनीतिक काम को अपना मुख्य कार्य मानता है और मजदूर संगठन को गौण स्थान देता है। बल्कि सब तो यह है कि इस संगठन के अध्यक्ष ग्रीन के कथनानुसार वह अपनी अनुचित राजनीतिक कार्रवाई से आगे बढ़ कर अमरीकी गुप्तचर विभाग की मदद भी करने को तैयार है। मई १९५० के अमरीकन फेडरेशनिस्ट के अंक में ग्रीन ने फेडरेशन के सदस्यों को आदेश दिया था कि सोवियत रूस, पूर्वी योरप और चीन में “ गुप्त शक्तियों ” की मदद करने के लिये उन्हें जत्थेबन्दी शुरू कर देनी चाहिये।

यह संगठन अमरीकी सरकार की सलाह से काम करता है—वह सहायक विदेश मंत्री एडवर्ट वैरट के उस लेख से सिद्ध हो चुका है जो अमरीकन फेडरेशनिस्ट के अप्रैल १९५१ के अंक में प्रकाशित हुआ था। उसमें लिखा था

“ हम जानते हैं कि मजदूरों के पास जाने का सबसे अच्छा तरीका मजदूर यूनियनों के जरिये ही है। .

केन्द्रीय सवाल के सामने दूसरी सारी बातें, दूसरे सारे सवाल वे चाहे देशी सवाल हों या विदेशी, फिलहाल, गौण बन गये हैं।”

यानी इन 'पादरियों' के लिये खुद मजदूर वर्ग के दुख दर्द के सवाल, उनकी मांगें भी अब गौण हो गयी हैं। उनके लिये सारा महत्त्व केवल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अमरीका की वैदेशिक नीति का है। ऐसी हालत में भारतीय जनता उन्हें मजदूर नेता नहीं मान सकती। वह उन्हें विदेशी राजनीतिक प्रचारक ही मान सकती है। भारत के जो मजदूर नेता इन लोगों को हमारे देश में बुलाते हैं और उनकी बेजा राजनीतिक हरकतों के खिलाफ चूँ तक नहीं करते हैं, और जो विदेशियों के छोड़े हुए राजनीतिक जेहादों में भाग लेने को सदा तैयार रहते हैं, एक न एक दिन उन्हें जनता के सामने अपनी कार्रवाइयों के लिये ज़रूर जवाब देना पड़ेगा।

भारत में अमरीकी संस्कृति

फिल्में और किताबें

अमरीका पर जोर अपने राज-नैतिक पनारनों के जरिये भारतीयों को व्यक्तिगत रूप में मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए भर्ती करता है, दूसरी ओर फिल्मों और गार्जियन के जरिये वह हमारे पूरे देश के मन पर प्रभाव डालने और हम सभी के दृष्टिकोण को विचलित करने का प्रयत्न करता है।

भारतीय फिल्म व्यवसाय में हॉलीवुड ने अपने पैर जमा लिये हैं। भारतीय सिनेमा घरों में आज अंग्रेजी भाषा में अमरीकी फिल्में, भारतीय फिल्मों से कहीं अधिक नग्या में दिखायी जाती हैं।

भारत में दिखायी गयी बड़ी फिल्मों की संख्या

| वर्ष | भारतीय या पाकिस्तानी फिल्में | अमरीकी फिल्में |
|-----------------------|------------------------------|----------------|
| १९४०-४७ (वार्षिक औसत) | १६५ | २१९ |
| १९४८ | २६० | १९० |
| १९४९ | २११ | २२४ |
| १९५० | १४४ | १८३ |

भारत में दिखायी जाने वाली अमरीकी फिल्मों से हर साल एक करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफ़ा होता है। परन्तु भारतीय फिल्मों को अमरीका में दिखाने की कोई सुविधा नहीं है। भारत के सबसे अच्छे सिनेमा घरों में केवल हॉलीवुड की फिल्में दिखायी जाती हैं। थोड़े दिन से कुछ अमरीकी कम्पनियों ने भारत में ही फिल्में बनाना शुरू कर दिया है, ताकि मुद्रा विनिमय सम्बन्धी बंधनों से उन्हें परेशानी न हो। कुछ अमरीकी कम्पनियाँ

भारतीय कम्पनियों को साझी बनाकर फिल्में बना रही हैं। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया का दूसरे नम्बर का फिल्म उद्योग है, परन्तु हॉलीवुड की असमान प्रतियोगिता से उसे स्वयं अपने देश में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हॉलीवुड में बनी फिल्मों की कुछ विशेषताएँ होती हैं। कहने को उनका उद्देश्य मात्र मनोरंजक होता है। परन्तु भारत के बारे में यद्यपि कोई फिल्म वहाँ बने तो लाजिमी है कि उसमें भारत का मखौल बनाया जाय। औपनिवेशिक देशों के लोगों और हृत्विश्यों के बारे में भी यही बात सच है।

हॉलीवुड में बनी बहुत सी फिल्मों में वर्चरता, क्रूरता और भाँति-भाँति के अपराधों का बखान किया जाता है। उनका नवयुवकों पर कितना घातक प्रभाव पड़ता है, इसकी सत्सार के प्रत्येक देश के लोगों ने सख्त आलोचना की है। ऐसी जहरीली फिल्मों को देश में बिना रोक-टोक के आने देना कहाँ की बुद्धिमानी है ?

और अब हॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी बनने लगी हैं जिनमें किसी न किसी ढंग से युद्ध का प्रचार किया जाता है और सोवियत सघ तथा चीन के खिलाफ होने वाले भावी युद्धों के गीत गाये जाते हैं। ऐसी फिल्में अमरीकी सरकार के इशारे पर बन रही हैं।

पिछले चन्द वर्षों में अमरीकी फिल्म उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप बहुत बढ गया है। १९४७ में गैर-अमरीकी कार्यों की जाँच करने वाली कमिटी की मदद से अमरीकी फिल्म कम्पनियों ने बहुत से डायरेक्टरों, फिल्म के कहानी लेखकों और कलाकारों को प्रगतिशील विचार रखने के जुर्म में नौकरी से अलग कर दिया था। सारे फिल्म उद्योग में दमन और आतंक का राज कायम कर दिया गया है। हॉलीवुड में पहले कुछ इनी-गिनी प्रगतिशील फिल्में बन जाती थीं, और उनसे मुनाफा भी खूब होता था, पर अब उनका बनना भी बिल्कुल बन्द हो गया है। फिल्म कम्पनियों के मालिक सरकार का हुक्म बजाने लगे हैं। १९४९ में, रक्षा मंत्री लुडो जौन्सन ने अमरीका के सिनेमा घरों के मालिकों के सम्मेलन के सामने बोलते हुए कहा था

“हमारे सामने जो काम है, उसमें रक्षा विभाग को फिल्म उद्योग का पूरा सहयोग मिलने का भरोसा है।”

उसके भो; दिन चाय सरकार ने मे पनुनी जहाज एक फिल्म रम्पनी से दिया ताकि वह अपनी फिल्म टास्क फोर्म का, जिन्का विषय युद्ध है, पहला प्रदर्शन रूप नए भारत के साथ कर सके। विश्व ज्ञानि आन्दोलन की एटन-वन विरोधी श्रौतहोम अपीन के जयजय म, अमरीकी सरकार एक फिल्म बनवाना चाहती थी। हीरो ह्यूज नामक फिल्म निर्माता ने १९२० के अन्त में हार्ड फ्रंटियर बनाकर सरकार ही उन्हा पूरी कर दी। १९५१ में सरकार की अनुमति मे जर्मन जनरल रोमेल की पहला में एक फिल्म बनायी गयी। इसका नाम टैजर्ट फौकन था। चान्दर बगर नामक फिल्म-निर्माता ने १९५० में रटा म कि अमरीकी सरकार के लिए फिल्में यानी मिनेमा, हाट्रोजन बग में भी ज्यादा जल्गी ह।

फिल्मों के बारे में जो कुछ हगने कहा, वह किताबों के बारे में भी सच है। भारतीय नगरो में किताबों की दूकानों पर ज्यादातर अमरीकी किताबें दिखाई देती ह। अखबारों और पत्रिकाओं की दूकान सस्ते अमरीकी उपन्यासों और गन्धी अमरीकी पत्रिकाओं से भरी रहती ह। ऊपर से अमरीकी प्रचार विभाग बहुत सी पत्र-पत्रिकाएं मुफ्त में बाँटता है। भारतीय समाचार पत्रों में अमरीकी पत्रों से ले-लेकर लेख छापे जाते हैं। उनकी विषय-वस्तु हौलीवुड की फिल्मों की विषय-वस्तु से बेहतर नहीं होती।

भारत पर अमरीकी विचारों का प्रभाव

अमरीकी किताबों, फिल्मों और प्रचार ने अमरीकी विचारों को भारत में फैला दिया है। विज्ञापन करने में अमरीकियों की होशियारी का क्या कहना। अमरीकी विचारों का भी खूब विज्ञापन किया गया है। नतीजा यह हुआ है कि अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने अमरीकी विचारों को अपना लिया है। इसके दो उदाहरण काफी होंगे।

राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में “शून्य के सिद्धान्त” को लीजिये। अमरीकन फ्रौरेन पौलिस्सी एसोसियेशन (अमरीकी वैदेशिक नीति सघ) की सदस्या वीरा माइकेल्स डीन ने हाल में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति का इन शब्दों में वर्णन किया था

“जर्मनी और जापान की हार, फ्रांस और इटली के पतन, और विशेष कर ब्रिटेन के कमजोर हो जाने के कारण सारे ससार में जगह

कुछ वर्ष पहले इंग्लैण्ड के टोरी, एमरी आदि, यह कहा करते थे कि भारत की गरीबी उमकी अविश्व आवादी के कारण है। अब अमरीकियों ने इस सिद्धान्त को अपना लिया है।

आवादी की समझाओं के एक दूसरे अमरीकी विशेषज्ञ डॉक्टर एल्मर पेन्डेल हैं। उनकी नयी किताब का नाम है 'वेलगाम आवादी'। डॉक्टर वाल्टर पिटकिन ने उसकी भूमिका में ससार के लोगों को इन दो वर्गों में बाँटा है सस्ते लोग और महँगे लोग।

“जहाँ आवादी ज्यादा है और खाने पीने की चीजें कम हैं, वहाँ आदमी महँगे होते हैं, और जहाँ आवादी के लिहाज से भोजन काफी मिलता है, वहाँ आदमी सस्ते होते हैं। . .

“महँगा आदमी कैसा होता है? जिसके लालन पालन पर बहुत खर्च हुआ हो, जिसे खर्चीली आदते पड गयी हों, जो ऐसे कौशल जानता हो जिनके लिये दूसरे लोग बहुत रुपये देने को तैयार हों। ऐसा आदमी अपने को महँगा समझता है। जीवन का उसके लिये बढ़ा महत्व होता है। . . .

“कम से कम साढे सात करोड़ अमरीकी कुछ उतार चढ़ाव के साथ, इसी प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। . .

“पूरी दुनिया में महँगे आदमी बहुत कम हैं, शायद कुल मिला कर लगभग १५ करोड़। दुनिया में एक महँगा आदमी है तो चौदह सस्ते आदमी हैं। जहाँ सस्ते आदमियों की संख्या महँगे आदमियों से बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ लोग आम तौर पर कमजोर, जाहिल, अधविश्वासी और दबू होते हैं। इसलिये, इन कमजोरों पर शासन करने के लिये कुछ ताकतवर लोग खड़े हो जाते हैं। .सस्ते आदमी उनका मुकाबला नहीं कर सकते।”

हिन्दुस्तानी, जाहिर है कि सस्ते आदमियों में गिने जाते हैं। बल्कि असल में तो उनके जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है। वह आगे कहता है

“रूस है गुलामों का एक विराट राज्य। और रूस के बाद मानो गरीबों के मुहल्ले आ जाते हैं जहाँ मानवता का मूल्य सस्ता होते-होते

‘जीरो’ या शून्य हो जाता है और कहीं-कहीं तो उससे भी नीचे गिर जाता है।”

मस्ते आदमियों की मर्यादा अधिक होने के कारण मगार को बड़ा खतरा बताया जाता है

“मस्ते बड़ा खतरा ब्रेलगाम आवादी से है। यह दुनिया ऐसे मस्ते आदमियों की है जो बहुत गरीब हैं और इसलिए इतने कमजोर हैं कि जालिमों को लड़ कर नहीं हरा सकते।”

पिट्रिन के निदान्त को पेंडेंस और आगे बढ़ाता है

“ओमवोर्न (हमारा लुटा हुआ ग्रह के लेखक फेयरफील्ड ओमवोर्न—ले०) कहता है कि जहरत से ज्यादा आवादी दुनिया की दुश्मन हैं। यह सही है। परन्तु ज्यादा आवादी का मतलब है ज्यादा आदमियों का होना। और सी.पी. और सच्ची बात यह है कि जब आदमियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अपने और अपने परिवार के लिये भर पेट भोजन पाना भी नामुमकिन हो जाता है, तब ये सभी आदमी एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन वह है जिसके कामों से हमें नुकसान पहुँचता हो, और जब पड़ोसियों की संख्या इतनी बढ़ जाय कि वे एक-दूसरे की मदद करने से ज्यादा एक-दूसरे की नोच-खसोट करने लगें, तब वे पड़ोसी भी दुश्मन बन जाते हैं। ..

“भारत में, बच्चे पैदा करने वाला हरेक आदमी न सिर्फ अपने सगी-साथियों की खुशी में कमी करता है, बल्कि उनकी उम्र घटा देता है। भारत में लोग औसतन २१ वर्ष की उम्र में मर जाते हैं—अमरीका में लोग प्रायः ६८ वर्ष तक जिन्दा रहते हैं।”

यानी, भारत की कोई भी समस्या हल करनी है तो पहले उसकी आवादी घटाओ! भारतीय “पैदा इतना कम करते हैं कि उन्हें कमी खाने को नहीं मिल सकता।” भारत के लोगों से “बाकी मानवता को कोई लाभ नहीं होता, और न कभी भविष्य में होने की आशा है।” शिक्षा, इजीनियरी, खेती की उन्नति, भूमि-सुधार—ये सब रोग के निदान नहीं हैं, ऊपर से मरहम-पट्टी

करने के नुस्खे हैं। “युनियादी सवाल यह हैं कि जहरत से ज़्यादा बच्चे पैदा किये जा रहे हैं।”

फिर हल क्या है ?

“यदि किन्हीं अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के समय भारत से यह कहा जाय कि उसे अमुक व्यापार-सम्वंधी या अन्य सुविधा केवल उस शर्त पर दी जा सकती है कि वह अपनी आवादी कम करना मजूर करे— तब भारत के कानून बनाने वाले इन सुविधाओं को दिखा कर-लोगों के धार्मिक विरोध को शान्त कर सकेंगे और शायद भारत सरकार स्वयं सतति-निग्रह (वर्ध कण्ट्रोल) या किसी और ढंग से आवादी पर नियंत्रण करने का कार्यक्रम शुरू कर सकेगी।”

“जिस देश की आवादी इतनी अधाधुध बढ़ गयी हो, जैसे भारत की, तो अमरीका को चाहिये कि वह लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वजीफे दे। पहला बच्चा पैदा होने पर पिता से कहा जाय कि यदि वजीफा चाहते हो तो अपनी बच्चा पैदा करने की शक्ति को नष्ट कराना स्वीकार करो। बड़े परिवारों में बाप का भी ऑपरेशन हो जाना चाहिये और लड़के का भी—केवल उस लड़के को छोड़ कर जिसमें बच्चे पैदा करने की शक्ति सबसे अधिक हो, वे लड़के भी छोड़े जा सकते हैं जो राष्ट्र के उन बीस प्रतिशत लोगों में आ जायें जिनकी शक्ति दूसरों से अधिक है। वजीफे की रकम जितनी ही बड़ी होगी, उतने ही अधिक लोग इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित होंगे और उतनी ही तेजी से देश का जीवन-स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा।”

यह है, भारतीय जनता के प्रति अमरीकी विचारकों का दृष्टिकोण।

१९४६ में, जब वाशिंगटन में भारत के प्रतिनिधि अकाल का खतरा रोकने के लिये उधार पर खनाज लेने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अमरीकी अफसर ने जवाब दिया था

“यह सब तो ठीक है, पर जब कृतिया बहुत से पिल्ले जन देती है, तो उनमें से कुछ को तो पानी में डुबा कर मार डालना ही पड़ता है।” (न्यू यॉर्क टाइम्स, १५ दिसम्बर, १९४७, डॉ० आर्थर उपहम पोप द्वारा एक पत्र में उद्धृत)

प्रधान मंत्री नेहरू जी अमरीका यात्रा के समय १४ अक्टूबर, १९४९, को यू० एन० न्यूज पंड वल्ट रिपोर्ट ने लिखा था

“ अमरीका में जो प्रजाता फाल्गु नेहरे जमा हो रहा है, उसे मि० नेहरू भर्ग निगाहों में रखा रह हैं ।

“ परन्तु, मि० नेहरू को पहले उन लोगों को समझाना पड़ेगा जिनकी राय में भारत को और भोजन देने का मतलब उमरी आवादी को बढाना है, और जो कहते हैं कि हम तरह अनाज देकर भोजन और आवादी का नामजग्य नहीं बढाया जा सकता । ”

आडर्च्य और उग की बात यह है कि कुछ भारतीय विद्वान इस वेदमानी से भरे निद्वान्त को भी घोल कर पी गये हैं । मिमाल के लिये अनामलाई विस्वविद्यालय में अर्थ-ज्ञान विभाग के अध्यक्ष, डॉक्टर एस चन्द्रशेखर ने, जिन्होंने अमरीका में जिम्मा प्राप्त की थी, पेन्डेल को एक खत में लिखा था

“ भारत की भयंकर मिमाल सामने होते हुए भी यदि अमरीका वालों ने अपने समृद्ध देश में इसी तरह आवादी को बढ जाने दिया, तो वे अक्षम्य अपराध करगे । ”

अमरीका की वाटमल फाण्डेशन ने हाल में भारतीय विद्यार्थियों के बीच नियन्त्रण-लेपन की एक प्रतियोगिता सगठित की थी । उसमें विषय रखा गया था “ भारत में भोजन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आवादी पर नियन्त्रण करने की समस्या । ” इस प्रतियोगिता का उद्देश्य, जाहिर है कि उपरोक्त विचारों को फैलाना ही था ।

अमरीकी प्रचार को कितनी सकलता मिला रही है और भारतीय बुद्धि-जीवियों पर उसका कैसा घातक प्रभाव पड़ रहा है, इसकी एक मिमाल काफी होगी । जब एमरी ने यह सिद्वान्त बढारा था कि हिन्दुस्तान की गरीबी उसकी ज्यादा आवादी की वजह से है, तब प जवाहरलाल नेहरू ने उसकी स आलोचना की थी । परन्तु, अब वह खुद गरीबी को दूर करने के लिये की पैदावार पर रोक लगाने के हामी बन गये हैं ।

सत्रहवां अध्याय

अमरीकी सरकार के भारतीय मित्र

भारत में अमरीका अपना असर बढ़ाने की जो कोशिशें कर रहा है, उसमें उसे कुछ भारतीयों से भी मदद मिल रही है। ये लोग सरकार में भी पाये जाते हैं और सरकार के बाहर भी। अग्रेजों के जमाने में उनके टोडी हुआ करते थे, अब अमरीकी सरकार के टोडी पैदा हो रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है।

कांग्रेस सरकार पर सबसे ज़्यादा असर उन बड़े पूंजीपतियों का है जो संख्या में तो बहुत कम हैं, पर जिनका देश की अर्थ व्यवस्था पर पूरा कब्जा है। सरदार पटेल जैसे कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार सदा वर्ग-हितों के आधार पर चलती आयी है। स्वयं पटेल इस बात का संकेत पहले कई बार कर चुके थे। ५ जनवरी १९४८ को कलकत्ता क्लब के भोज में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था

“जब मैं आपसे वीनी हुई बातों को एकदम भुला देने को कहता हूँ तो मैं आपको यह भी याद दिला दूँ कि हमारा अर्थ-मंत्री आपके ही वर्ग का आदमी है। हमने जान-बूझ कर और भारत के औद्योगिक भविष्य में विश्वास पैदा करने के लिये उसे इस पद पर नियुक्त किया है। हमारा व्यापार मंत्री भी एक अनुभवी उद्योगपति है।”

यदि सरकार के नेता बड़े पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने के लिये इतने उत्सुक हैं, तो बड़े पूंजीपति भी सरकार से सहयोग करने को तैयार हैं। रॉयल इस्टीमेट्स औफ इन्टरनेशनल अफेयर्स के मुखपत्र वर्ल्ड टुडे के अगस्त १९५० के अंक में एक लेखक ने लिखा था

“दक्षिण पक्ष के लोग—उन वर्गों के लोग जो अग्रेजों की मदद किया करते थे और जिनकी इच्छा अग्रेजों पर निर्भर थी—अब इतने खुश हो

गये हैं कि बहुत से अग्रज पूजापति भी, कभी-कभार योग-बहुत 'नाशभा' निरोद्धने के वादना नहीं सरकार के सबसे पक्के समर्थक बन गये हैं।"

इस क्रिवाव के शुरू के अभ्यासों ने हम ग्न चुके हैं कि भारत के बड़े पूजापति अधिकधिक अमरीकी सम्पत्तियों के साथ गठबन्धन करते जा रहे हैं। विद्वान ने स्टुडेंट्स में गाया किया है तो बालनन्द तीराचन्द ने काइस्लर से, टाटा ने कडे अमरीकी पूजापतियों के नाना जोड़ा है तो साराभाई ने रिक्च में, लालभाई ने अमरीकन गाटनामाटाट में गठबन्धन किया है तो पटियाला के महाराजा ने कोका-कोला में और प्रेमनाथ नय्यर ने डायगो से, इत्यादि। अमरीकी पूजापतियों के ने गाधीदार अमरीकी नीतियों की भी प्रशंसा किया करते हैं। चीनियों की भाषा में वे साम्राज्यवादियों के "पत्तलचट्ट पूजापति गुट" बन गये हैं।

विद्वला के अग्रचार दिन-रात माग किया करते हैं कि भारत सरकार को चाहिये कि वह अमरीका को अधिक में अधिक सुविधाएं दे। वे अमरीकी वैदेशिक नीति का गुलेआम समर्थन करते हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ने तो २६ दिसम्बर, १९४७ में ही लिख दिया था कि अमरीका से कर्ज लिये बगैर भारत का औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता।

"भारत को अमरीका इस प्रकार की मदद देना पसन्द करेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि भारत कैसी वैदेशिक नीति अपनाता है विदेशों में और कैसे लोगों की अपनी नीति समझाने के लिये भेजता है। अभी विदेशों में भारत का कार्य सन्तोषजनक नहीं है।"

ईस्टर्न इकोनोमिस्ट नामक विद्वला के एक दूसरे पत्र ने २ जुलाई, १९४८ को एक सम्पादकीय लेख में लिखा था

"ऐसी तटस्थता जिससे आर्थिक क्षेत्र में कोई लाभ न हो, भली वस्तु हो सकती है, परन्तु वह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अमली तौर पर, इसका मतलब है कि हम अमरीका की ओर झुकने का निश्चय करें। झुकने की दिशा और मात्रा को हम चाहें तो छिपा लें—आखिर कूटनीति इसी काम के लिये तो बनी है। परन्तु झुकना जरूरी है—हमारी बुनियादी आर्थिक आवश्यकताएँ हमें झुकने पर मजबूर कर रही हैं।"

ईस्टर्न इकोनोमिस्ट के सम्पादक यदि हमें अमरीकी मदद का लालच दिखाते हैं तो 'ओडीसस' उपनाम से लिखने वाला उनका लेखक हमें अमरीकी हमले की धमकी देता है। २३ नवम्बर, १९५१ के अंक में उसने लिखा था

“हमें अपने को धोखा नहीं देना चाहिये। अगर तीसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो कोई शक्ति भारत को उससे अलग नहीं रख पायेगी। याद रखना चाहिये कि हथियारों और नामान के मामले में हमारी सेनाएँ विदेशों पर निर्भर करती हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग अपने भोजन के लिये भी बाहर से आने वाले अन्न पर निर्भर करता है।

“आज की अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति में मुझे भारत और ब्रिटेन की स्थिति में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। दोनों कानून की नज़रों में स्वतंत्र राष्ट्र हैं, परन्तु, वास्तव में, दोनों का जीवन बाहर से आने वाले माल पर निर्भर है। जिन्दा रहने के लिये दोनों को अमरीका से समझौता करना ही पड़ेगा और शुरू में दोनों में से किसी को ऐसा सौदा भला नहीं लगेगा।”

भूतपूर्व समाजवादी मीनू मसानी भी, जो आजकल टाटा के नौकर और अमरीका के भारी प्रशंसक हैं, इसी तरह खुलेआम अमरीका की सारी शर्तें मान लेने की सलाह दिया करते हैं।

देशी राजे महाराजे, जमींदार-जागीरदार और साम्प्रदायिक सगठनों के नेता विदेशियों की मदद से अपने निहित स्वार्थों की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिये वे भी उन लोगों की मण्डली में शामिल हैं जो जबरदस्ती भारत को अमरीका की गोद में धकेल देना चाहते हैं।

बड़े पूजीपति और सामन्ती तत्व शक्तिशाली तो बहुत हैं, परन्तु उनकी सख्या बहुत कम है। यदि उन्हें कुछ और लोगों की मदद न मिलती तो हमारे देश में अमरीका का सामाजिक आधार बहुत सकुचित रह जाता, उनके सहायकों की सख्या बहुत कम रह जाती।

शुरू में बहुत से छोटे पूजीपति भी, इस आशा से विदेशियों का साथ देने लगे थे कि अमरीकियों की माँगें मानी जायेगी तो उनकी स्थिति भी सुधर

जायगी। जब अमरीकियों की हरकतों ने गुट उनका नुकसान होने लगा, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना रवैया बदला। कुछ दिनों से छोटे पूंजीपति, भारत सरकार की अमरीकी पूंजीपतियों के साथ पक्षपात करने की नीति के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं।

अमरीका के मित्रों की चौथी लिस्ट कुछ पंच-मेल बुद्धिजीवियों की है। ये वे लोग हैं जिनकी राष्ट्रीयता गायब हो चुकी है और जो अमरीकियों की तरह से सोचते विचारते हैं, हिन्दुरतानियों की तरह नहीं। इनमें से कुछ डाक्टर अम्बेडकर और एम. एन. राय की तरह के अंग्रेजों के पुराने समर्थक हैं और इमलिये उन्हें अमरीका के समर्थक बनने में विशेष रुठिनाई नहीं हुई। कुछ वैसे लोग हैं जिन्हें अमरीका से घृण मिलनी है या दूसरी तरह की सुविधाएँ प्राप्त हैं।

ऐसे बुद्धिजीवियों का सबसे महत्वपूर्ण दल सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में मिलता है। इस पार्टी के विदेशी मामलों के विशेषज्ञ, डा. राममनोहर लोहिया ने पिछले वर्ष कहा था

“ एशिया में उनके (अमरीका के) सबसे अच्छे मित्र सोशलिस्ट हैं। ”

सोशलिस्ट नेता वास्तव में ‘ तीसरी शक्ति ’ बनाने की करते हैं, परन्तु उनका दृष्टिकोण, वास्तव में, अधिकाधिक अमरीका-परस्त होता जाता है। कोरिया के सवाल पर इन लोगों ने भारतीय पूंजीपतियों से भी आगे बढ़ कर सुल्लमसुल्ला उत्तरी कोरिया, चीन और सोवियत संघ से दुश्मनी की नीति अपनायी। ९ जुलाई १९५० को सोशलिस्ट पार्टी के मद्रास अधिवेशन में कोरिया में अमरीकी हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरी किसी भी भारतीय पार्टी ने ऐसा नहीं किया। १९५० के अन्तिम दिनों में सोशलिस्ट नेताओं ने मांग की कि भारत सरकार को सक्रिय रूप से तिब्बत में हस्तक्षेप करना चाहिये। १९५१ के शुरु में, जब अमरीका गेहूँ के बदले में हमसे अपनी वैदेशिक नीति मनवाना चाहता था और भारतीय जनता में इसके खिलाफ प्रचलित असंतोष था, तब डाक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू की आलोचना की और फरमाया कि नेहरू बहुत ज्यादा बोल कर मामला बिगाड़ रहे हैं। मार्च १९५१ में सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता ने एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता सम्मेलन बुलाने में प्रमुख भाग लिया जो अमरीकी मदद

से सगठित हुआ था और जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय "तटस्थता" की भावना का विरोध करना था। ४ मई, १९५१ को डॉ. लोहिया ने बम्बई की एक सभा में बोलते हुए कहा कि यह कतई अनुचित न होगा यदि विदेशी मदद के बदले में भारत से आवादी का बढ़ना रोकने, भूमि-सम्बन्धी कानूनों को बदलने, छोटे उद्योग-धंधे कायम करने और मदद देने वाले देश के शत्रुओं को सैनिक महायत्ना न करने को कहा जाय। जून १९५१ में फ्रैक्फर्ट में योरप की दक्षिण-पश्चिमी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ था और जिसने पश्चिमी देशों की फौजी तैयारी तथा कोरिया में अमरीकी नीति का समर्थन किया था, उसमें डॉक्टर लोहिया ने दर्जक के रूप में भाग लिया था। उसके बाद उन्होंने पहले यूगोस्लाविया और फिर अमरीका की यात्रा की और सान फ्रांसिस्को में स्वतंत्र एशिया समिति के तत्वावधान में भाषण दिया। यह समिति जनवादी चीन से लड़ने के लिये बनायी गयी है। अमरीका से लौटते हुए डॉक्टर लोहिया ने जापान में एक वयान दिया जिसमें उन्होंने चीन की जनवादी सरकार पर हमला किया।

आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने डाक्टर अम्बेडकर के साथ गठ-बन्धन किया जो खुलेआम कह रहे थे कि भारत सरकार को हर मामले में अमरीका का साथ देना चाहिये।

भारत की सोशलिस्ट पार्टी के इस रवैये की एक वजह यह है कि उस पर सोशलिस्ट इंटरनेशनल और ब्रिटिश लेबर पार्टी का बहुत असर है। ३० अगस्त, १९५१ को सोशलिस्ट इंटरनेशनल के ब्यूरो ने एशिया में सोशलिस्ट पार्टियों के बनाने में मदद करने की एक ब्रिटिश योजना स्वीकार की थी। लेबर पार्टी ने इस काम के लिये एक हजार पौण्ड हर साल देने का वायदा किया था। उसी साल १६ दिसम्बर को इंटरनेशनल की जनरल काउंसिल ने भी इस योजना को मंजूर कर लिया।

सोशलिस्ट इंटरनेशनल की नीति कितनी समाजवादी है, यह लेबर पार्टी के अन्तरराष्ट्रीय मंत्री डेनिम हीली के एक लेख में जाहिर हो जाता है। उन्होंने लिखा था

“ हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, यदि हम यह न समझेंगे कि मौजूदा अमरीकी सरकार अपनी नीति में इतनी प्रगतिशील और विवेकपूर्ण

कौमनवलय को छोड़ कर अमरीकी गुट में शामिल हो जाना चाहिये । अपील में आगे कहा गया था

“ हमारी आशा है कि स्वतंत्र भारत अपने सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर, और खुद पहलकदमी करके, अंग्रेज-अमरीकी शक्तियों के नेतृत्व में काम करने वाले सत्कार के जनतांत्रिक देशों का समर्थन करेगा—प्रशंसा कि ये शक्तियाँ भारत के बुनियादी हितों के खिलाफ कभी काम न करें—और दुनिया के सभी बड़े सवालों पर उनका साथ देगा । ” (मौडर्न रिव्यू, कलकत्ता, जनवरी १९४९)

इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में वे लोग थे . डॉक्टर तारकनाथ दास, रामलाल वाजपेयी, मणीन्द्र गुहा, रामनाथ पुरी, गोविन्द विहारी लाल, हरनाम सिंह, श्रीमती रामचन्द्र, एस० एन० उपाध्याय, वी० कोकटनूर, प्रफुल्ल मुकर्जी, गोदाराम चन्ना, नृपेन्द्र लाहिड़ी, और स्वामी निखिलानन्द ।

इस दल के नेता डॉ तारकनाथ दास हैं जो १९०६ से अमरीका में रह रहे हैं और वहीं के नागरिक हैं । वह नियमित रूप से मौडर्न रिव्यू में लिखते रहे हैं और कुछ दिनों से उन्होंने भारतीय जन सभ के मुखपत्र **और्गनाइज़र** में भी लिखना शुरू कर दिया है । अपील पर हस्ताक्षर करने के समय वह वाट्सन फ्राउण्डेशन के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष थे ।

डॉ० दास के बाद गोविन्द विहारी लाल इस बोर्ड के अध्यक्ष हुए । ये सज्जन अमरीका के घोर प्रतिक्रियावादी पत्रों में (हर्स्ट के समाचार पत्रों में) वैज्ञानिक लेख लिखा करते हैं । ६ सितम्बर, १९५१ को **न्यू यॉर्क जर्नल अमरीकन** के अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था

“ उसे (भारत को) अमरीका की प्रेरणा और सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि और कहीं से उसे यह नहीं मिल सकता ।

“ सम्यता और सस्कृति की रचना के लिये जिन बड़ी चीजों की आवश्यकता है, उनके लिये गौतम बुद्ध की तरह पात्र हाथ में लेकर भीख मांगने के लिये निकलना अच्छे गुणों में गिना जायगा । और अमरीका विशाल हृदय और उदारता के साथ भीख देना जानता है । ”

उपसंहार

“ अंग्रेजों ने अगले वर्ष भारत का नियंत्रण छोड़ कर वहाँ से दृष्टने का निश्चय कर लिया है, परन्तु उग्रवाद भी वे भारत की रक्षा में सहयोग देंगे। भारत के लिये घड़ा खतरा तिरफ हस से है। प्रश्न यह है कि कुछ समय बाद यदि इंग्लैण्ड में—अमरीकी मदद के बिना—भारत की रक्षा करने का अपना वचन पूरा करने की सामर्थ्य न रही, तो क्या होगा।

“ यदि ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़ों को हमें ही उठाना है तो फिर और टुकड़ों के साथ बटे और केन्द्रीय टुकड़े भी हम क्यों नहीं उठा लेते? यदि हमें दिवालिये साम्राज्य का रिसीवर (लेनेवाला) बनना ही है तो फिर हम पूरी शक्ति और अधिकार की माग क्यों नहीं करते?”

—न्यू यॉर्क डेली न्यूज का अप्रलेख, ४ मार्च, १९४७

अमरीका के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अखबार में इस सम्पादकीय को निकले पाँच वर्ष हो गये हैं। इन पाँच वर्षों में अमरीका के भारत का रिसीवर बनने की बात एक भारी खतरा बन गयी है।

भारत की अर्थ-व्यवस्था पर अमरीकी नियंत्रण बढ़ता जाता है और उससे भारतीय समाज के निकृष्टतम तत्वों को बल मिल रहा है। प्रोफेसर डी आर गाडगिल भारत में अमरीकी पूजा के आने के समर्थक हैं, परन्तु उन्होंने भी लिखा है

“ केवल एक देश है जो वर्तमान समय में पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं को कई बरस तक लगातार बड़े पैमाने पर मदद देने की सामर्थ्य रखता है। वह है अमरीका। परन्तु लगता है कि इस देश की सबसे अधिक दिलचस्पी एक ऐसे सामाजिक दर्शन का अनुसरण करने में है जो विशेष प्रकार की परम्पराओं वाले एक धनी देश लिये भले ही बहुत उपयुक्त हो, परन्तु दूसरी परिस्थितियों में ७०

ऐसी व्यक्तिवादी भावनाओं और समाज-विरोधी हितों के मजबूत होने का खतरा है जो अर्थ-व्यवस्था का सुनियोजित संगठन करने के प्रयत्नों को सख्त बका पहुँचा सकती है। इसलिये, यदि जिसकी आशा नहीं है, वह बात भी हो गयी, और भारत जैसे देश की उन्नति के लिये (अमरीका ने) बड़े पैमाने पर पूंजी लगाना स्वीकार कर लिया, तो उससे भी, वर्तमान परिस्थितियों में, तत्काल हमारे सामाजिक उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, बल्कि एक ओर एकाधिकारी पूंजी की शक्तियाँ मजबूत होंगी और दूसरी ओर, सामाजिक असंतोष और विग्रह बढ़ जायेंगे।”

दूसरे शब्दों में, अमरीकी मदद को सामाजिक विग्रह बढ़ाने का नुस्खा समझना चाहिये।

जैसा कि डेली न्यूज बता चुका है, अमरीका की नीति भारत के सावनों को तीसरे महायुद्ध के वास्ते इस्तेमाल करने की है। न्यू यॉर्क टाइम्स के भूतपूर्व सम्वाददाता, जॉर्ज ई० जोन्स ने १९४८ में ही लिख दिया था कि:

“भौगोलिक दृष्टि से वह (भारत) पूरव और पच्छिम के मुख्य हवाई रास्तों के बीचोबीच पड़ता है और उसकी विशाल भूमि भविष्य में हमला करने के अड़े के काम आ सकती है।”

अमरीकियों की नजरों में भारत से अच्छा कोई फौजी अड्डा नहीं हो सकता। यहाँ उन्हें विशाल क्षेत्रफल, बड़ी आबादी, अतुलित साधन और सैनिक महत्व की अनेक वस्तुएँ भारी परिमाण में मिलती हैं। उस पर बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें स्वयं अपनी अधिकतर आमदनी फौजी महकमों पर खर्च कर रही हैं। कोरिया के उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि इस अड़े का इस्तेमाल करते समय अमरीका, भारत के लोगों की जान और माल को दो कौड़ी का समझेगा और सदियों की मेहनत से बनी इस सभ्यता को नेस्तनाबूद करवा देने में एक क्षण के लिये भी न हिचकेगा।

और यह अमरीकी योजना हम पर उस वक्त लादी जा रही है जब हम एक दूसरे क्रूर साम्राज्यवाद से पीड़ियों तक लड़ने के बाद अपने स्वतंत्रता संग्राम के चरम शिखर पर पहुँचे हैं। जिम सपने को सच्चा बनाने के लिये हमारी जनता ने अनेकों कष्ट महे और मृत्यु तक से लोहा लिया, गोपण और उत्पीड़न

से रहित, धर्मों और मनुष्य, सगर के नगी दक्षिण देशों को प्रेरणा देने वाले जिम स्वतंत्र भारत की रचना करने के लिये भारतीय देशभक्तों ने लाठियों और गोलियों सही और गोसी का फट्टा चूमा, उमे हम आज कैसे भूल सकते हैं? स्वयं पण्डित नेहरू हमारे उम म्युन ही, उम लःय की, अनेक वार चर्चा कर चुके हैं। २३ मार्च १९५७ में एशियाउ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था

“ हम एशिया के लोगों को पश्चिम के राजमहलों और दरवारों में फरियाद लेकर जाते बहुत दिन हो गये। अब यह किसमा गतम होना चाहिये। अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और उन सबसे सहयोग करेंगे जो हमसे सहयोग करने को तैयार हैं। भविष्य में, हम दूसरों के हाथों का गिलौना नहीं बनने। ”

परन्तु उम गानदार ऐलान को कार्यान्वित करने के लिये जिस साहस और दृढता की आवश्यकता थी, एक महान कौम के नेताओं में जो हिम्मत और पुनर्गती होनी चाहिये थी, वह हमारी सरकार अपने में पैदा न कर सकी। मुख्य और महत्वपूर्ण सवालों पर उसने भारतीय जनता के हितों की दृढता से रक्षा नहीं की, बल्कि दुश्मनों से समझौता करने की कोशिश की, और उससे भी काम नहीं चला तो उसके सामने सिर झुका दिया। उसने देश के साधनों और जनता की शक्ति पर भरोसा करने के बजाय विदेशियों से कर्जे मांगना और बदले में राष्ट्रीय साधन गिरवी रख देना ज्यादा पसन्द किया। वह बराबर ऐसे काम करती गयी जिससे सरकार और जनता के बीच खाई पैदा हो गयी, जिसका स्पष्ट परिणाम पिछले चुनाव में देखने को मिला। अमरीकी दबाव के सामने वह जिस तरह सिर झुकाती जा रही है, उससे देश में आन्तरिक कलह के बीच पड़ रहे हैं।

यदि देश को इस सत्यनाशी सम्भावना से बचाना है तो बीच की राजनीतिक शक्तियों को, और प्रधानत छोटे पूजीपतियों और बुद्धिजीवियों को इस काम का भार अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। वे चाहें तो समय रहते परिवर्तन कराके देश को रक्तपात से बचा सकते हैं।

अभी तक अमरीकी बहाव के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व वामपक्षी लोग करते आये हैं, और अधिकतर छोटे-पूजीपति उससे अलग रहे हैं। अमरीकियों के हाथों उनकी भारी हानि होते रहने पर भी अभी उन्होंने आगे बढ़ कर अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ आवाज नहीं उठायी है। परन्तु

अब और चुप रहना न उनके हित में है, न देश के। यदि अब भी वे चुप्पी साधे रहे तो वे अमरीका के गुलाम बन जायेंगे और एकाधिकारियों द्वारा पीस डाले जायेंगे।

चीन में, विदेशी पूंजी से बंधे 'दलाल' पूंजीपतियों की शक्ति तो अवश्य नष्ट कर दी गयी है, परन्तु राष्ट्रीय पूंजीपतियों को क्रान्ति के बाद भी एक ऐसे वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है जो अभी बहुत वर्षों तक समाज में मौजूद रहेगा। भारत में भी उन्हें यह अधिकार मिलेगा या नहीं, यह पूंजीपतियों के अपने कामों पर निर्भर करता है। यदि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग जिन्दा रहना चाहता है और सम्मान के साथ जिन्दा रहना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है—उसे आम जनता के बुनियादी हितों को अपना त मानना चाहिये।

भारत का राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग कई पीढ़ियों से अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ता आ रहा है। अनेक बार वह देश के लोगों का नेतृत्व कर चुका है। मिसाल के लिये, अंग्रेजी माल के बहिष्कार का आन्दोलन उसी के नेतृत्व में चला था। आर्थिक क्षेत्र में, अनेक भारतीय पूंजीपतियों ने बड़ी हिम्मत और साहस दिखा कर, विदेशी प्रतियोगिता और साम्राज्यवादी बंधनों से न घबराते हुए, राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना की थी और उन्हें विकसित किया था। अतः आज यदि देश उनसे यह आशा करे कि वे अमरीकी साम्राज्य-लिप्सा का डट कर मुकाबला करेंगे, तो बहुत अनुचित न होगा।

बुद्धिजीवियों का भारतीय समाज में बहुत ऊँचा स्थान है। वे सख्या में कम हैं, पर उनका कृतित्व बड़ा है। देश के इतिहास की सबसे सकटपूर्ण घड़ियों में भी उन्होंने सदा जनता का साथ दिया है और त्याग और वलिदान के आदर्श कायम किये हैं। अमरीकियों के चन्द टुकड़ों के बदले में यदि बुद्धिजीवियों ने जनता का स्नेह खो दिया, तो क्या यह उचित होगा ?

और यदि बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों ने अमरीकी खतरे से देश को बचाने के सघर्ष में मेहनतकश जनता का साथ दिया तो निस्सन्देह सघर्ष अधिक सुगम और सरल हो जायगा। वे लोग चाहें तो देश को गृहयुद्ध से और सत्तार को तीसरे महायुद्ध से बचा सकते हैं। और ऐसा करके वे न केवल अपने हितों की रक्षा करेंगे, बल्कि अपने देश और समस्त मानवता के प्रति अपना कर्तव्य भी पूरा करेंगे।



भारत और पाकिस्तान में काम करने वाली कुछ

ऐसी कम्पनियाँ जो अमरीकी नियंत्रण में हैं

अमरीकन एक्सप्रेस कम्पनी, इनकॉर्पोरेट : कलकत्ता, बम्बई और करानी में दफ्तर ह। लेन-देन और यात्रियों की दलाली का काम करती है।

अमरीकन फौरेन इन्ड्योरेस एम्प्लोसियेशन - मुख्य दफ्तर कलकत्ता में, शाखा बम्बई में। (सोसियेशन के सदस्य अमरीकन इन्ड्योरेस कम्पनी ऑफ न्यू जर्सी, ग्रेट अमरीकन इन्ड्योरेस कम्पनी ऑफ न्यू यॉर्क, हार्टफोर्ड फायर इन्ड्योरेस कम्पनी, और होम इन्ड्योरेस कम्पनी ऑफ न्यू यॉर्क।)

अमरीकन इन्ड्योरेस कम्पनी लिमिटेड ऑफ न्यू जर्सी कलकत्ता। आग लगने से बचाव का बीमा करती है।

अमरीकन इंटरनेशनल अडरराइटर्स (इंडिया) लिमिटेड कलकत्ता। (सदस्य हैनोवर फायर इन्ड्योरेस कम्पनी और न्यू हैम्पशायर फायर इन्ड्योरेस कम्पनी।)

ऐन्गस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता : ग्राम ऐन्गम, जिला हुगली के ऐन्गम जूट वर्क्स और ऐन्गस इजीनियरिंग वर्क्स के मालिक। इस्थम-नियन स्टीमशिप लाइन्स के एजेन्ट। (मैनेजिंग एजेन्ट टॉमस डफ्र एंड कम्पनी, लि०।)

एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता में, शाखाएँ बम्बई, मद्रास, बंगलौर, नागपुर में। कई विजली कम्पनियों के एजेन्ट।

कैलटैक्स (इंडिया) लि० मुख्य दफ्तर बम्बई में। पेट्रोल का व्यवसाय करते हैं। अब विज्ञगापट्टम में तेल साफ कारखाना खोल रहे हैं। (इस कम्पनी की मालिक अमरीका

तेल कम्पनियों—स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी ऑफ कैलीफोर्निया और टैक्सस कम्पनी है।)

कौलगेट पामओलिव (इंडिया) लि० बम्बई। साबुन, क्रीम आदि के विक्रेता।

कोलम्बिया फिल्मस ऑफ इण्डिया लि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता में। शाखाएँ बम्बई, नयी दिल्ली, लाहौर, मद्रास में। फिल्मों का वितरण करते हैं।

फैल्ट एंड टर्नान्ट (इंडिया) कम्पनी मुख्य दफ्तर कलकत्ता में। शाखाएँ बम्बई, मद्रास, कानपुर, और दिल्ली में।

फायरस्टोन (पाकिस्तान) लि० कराँची। रबर टायर और ट्यूब बेचते हैं।

फायरस्टोन टायर एंड रबर कं० ऑफ इंडिया लि० मुख्य दफ्तर बम्बई में। शाखाएँ अनेक जगह। टायर, ट्यूब आदि बनाते हैं।

फोर्ड मोटर कम्पनी ऑफ इंडिया लि० मुख्य दफ्तर बम्बई में। शाखाएँ कलकत्ता और मद्रास में। मोटर गाड़ियाँ और उनके पुर्जे विदेश से मगा कर बेचते हैं।

जनरल इलेक्ट्रिक कं० ऑफ इंडिया लि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता में। शाखाएँ बम्बई, मद्रास, नयी दिल्ली, बंगलौर, सिकन्दराबाद में। (अमरीका की दैत्याकार जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से सम्बन्धित लन्दन की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी की यह भारतीय शाखा है।)

जनरल इलेक्ट्रिक कं० ऑफ पाकिस्तान लि० मुख्य दफ्तर कराँची में। शाखाएँ लाहौर और चटगाँव में।

जनरल मोटर्स इंडिया लि० बम्बई। मोटर गाड़ियों के पुर्जे और हिस्से विदेश से मगा कर यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और भारत, पाकिस्तान, लका और अफगानिस्तान में उनका वितरण करते हैं।

जनरल मोटर्स ओवरसीज कार्पोरेशन कराँची।

गेल्ज इंडिया लि० कलकत्ता और बम्बई। आयात-निर्घात कार्य करते हैं।

गुडरियर टायर एंड रबर कं० ऑफ इंडिया लि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता में। शाखाएँ बम्बई, मद्रास, लाहौर, दिल्ली में।

ग्रेट अमरीकन इन्ड्योरेंस कम्पनी, कलकत्ता आग का, और जहाजों का, और दुर्घटनाओं का बीमा करते हैं ।

हार्टफोर्ड फायर इन्ड्योरेंस क० कलकत्ता । आग का बीमा करते हैं ।

इंडियन अल्यूमीनियम कं० लि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता में । कारखाने बगद हिल और मुरी जम्शन (बिहार), बेलूर (प० बंगाल), बेलगाव और कालवा (बम्बई) और अलवे (त्रावणकोर-कोचीन) में ।

इन्ड्योरेंस कम्पनी ऑफ़ नार्थ अमरीका, मार्फत वौल्कर्ट ब्रदर्स, बम्बई । जहाजों का बीमा करते हैं ।

इटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड : मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखा कलकत्ता में । अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी और अमरीकन लोकोमोटिव कम्पनी ऑफ़ न्यू यॉर्क के सोल एजेंट ।

कोडक लिमिटेड • बम्बई, कराची, कलकत्ता, इत्यादि । फोटोग्राफी का सामान बेचते हैं ।

लुडलौ जूट कम्पनी लिमिटेड : कलकत्ता । जूट का सामान बनाते और सप्लाई करते हैं । जूट भी बेचते हैं ।

मेट्रो-गोल्डविन-मेयर इंडिया लि० : मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखाएँ कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास में । फिल्मों का वितरण करते हैं ।

मेट्रो थियेटर, कलकत्ता, लि० • कलकत्ता ।

मौरिसन कनुडसन, अफ़गानिस्तान, इनकॉर्पोरेटेड : दफ्तर कराँची में है ।

मुलर एण्ड फ़िप्स (इंडिया) लि० : बम्बई ।

नेशनल कार्वन क० (इंडिया) लि० • कलकत्ता । एबेरेडी घैटरियों के बनाने वाले ।

नेशनल कैश रजिस्टर कम्पनी : मुख्य दफ्तर कलकत्ता में । शाखा बम्बई में, दूसरे शहरों में एजेंट ।

नेशनल सिटी बैंक ऑफ़ न्यू यॉर्क : बम्बई और कलकत्ता ।

न्यू हैम्पशायर इन्श्योरेंस कम्पनी : कलकत्ता । आग का, जहाजों का और दुर्घटनाओं का बीमा करते हैं ।

ओरिएण्ट इन्श्योरेंस कम्पनी, कलकत्ता । आग का बीमा करते हैं ।

पैरामाउन्ट फिल्मस औफ इंडिया लि० : मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखा कलकत्ता में । फिल्मों का वितरण करते हैं ।

पार्क डेविस एण्ड कम्पनी : बम्बई । दवाइयों बेचते हैं ।

पियरलेस (इंडिया) लि० मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखा कलकत्ता में । फिल्मों का वितरण करते हैं ।

क्वीन इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ अमरीका : कलकत्ता । आग का बीमा करते हैं ।

रेमिंग्टन रैण्ड इनकॉर्पोरेटेड : मुख्य दफ्तर कलकत्ता में । दूसरे शहरों में शाखाएँ और एजेन्ट हैं । कारखाना कलकत्ता में है । टाइपराइटर बनाते और बेचते हैं ।

स्टैण्डर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी : मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखाएँ और गोदाम सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं । पेट्रोल का वितरण करते हैं । बम्बई के नजदीक तेल साफ करने का एक कारखाना खोल रहे हैं ।

टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक एजेंसीज लि० : बम्बई । टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर सप्लाइ क, आर्ग्र वैली पॉवर सप्लाइ क, टाटा पॉवर क, और युनाइटेड पॉवर लि की मैनेजिंग एजेन्ट । (इसमें टाटा और एक अमरीकी कम्पनी का साझा है ।)

टॉम्पसन कम्पनी (ईस्टर्न) लि. : मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखाएँ बम्बई और कलकत्ता में । विज्ञापन और सौदागरी का काम करते हैं ।

ट्रिविटियथ संचुगी फौक्स कोर्पोरेशन (इंडिया) लि । मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखा कलकत्ता में । फिल्मों का वितरण करते हैं ।

युनाइटेड आर्टिस्ट्स कोर्पोरेशन ऑफ न्यू यॉर्क कलकत्ता और बम्बई । फिल्मों का वितरण करते हैं ।